

प्रकाशक —  
देवेन्द्रसिंह भण्डारी  
**हिन्दी साहित्य मन्दिर**  
मेहती दरवाजा  
जोधपुर ( राजस्थान )

( सर्वाधिकार सुरक्षित है )

मुद्रक —  
कुञ्जबिहारी भितल  
डायमरेड प्रिंटिंग प्रेस, जयपुर ।

राष्ट्रभाषा प्रेमियों तथा प्रशासन व विधि क्षेत्र में काम करने वाले महानुभावों के हाथों में यह सद्य सकलित प्रशासन व विधि शब्दावली सौपते हुए हमें आज सन्तोष और प्रसन्नता हो रही है।

हिन्दी के राष्ट्रभाषा घोषित होने के पश्चात् सबसे बड़ी समस्या विधान मण्डल, न्यायालय और प्रशासन के पारिभाषिक शब्दों के, हिन्दी में अभाव की रही हैं। हिन्दी के गणमान्य भाषाशास्त्रियों, साहित्यको और लेखकों ने इस क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया है। फलस्वरूप आज विधि और प्रशासन सम्बन्धी छोटे बड़े अनेक शब्दकोष हिन्दी में उपलब्ध हैं। भारत सघ की कतिपय राज्य सरकारों ने भी इस ओर अपना स्तुत्य योगदान दिया है। विहार विभान सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित 'शब्द निधि', केन्द्रीय सरकार के विधि विभाग द्वारा प्रकाशित 'ग्लासरी', मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित 'प्रशासन शब्दकोष', मध्यभारत सरकार का 'शासन शब्द प्रकाश' तथा अन्य संग्रह ऐसे प्रयत्न हैं जिन्होंने राष्ट्रभाषा हिन्दी के एक महत्वपूर्ण अभाव की पूर्ति की है। फिर भी आज इस प्रगति पर हमें पूर्ण सन्तोष की साँस नहीं आती। इस क्षेत्र में कार्य करने वाले महानुभाव अवश्य अनुभव करते होंगे कि हिन्दी में वह शब्द सम्पत्ति अभी नहीं आ पाई है जो कि राजकीय व्यवहार के सभी अंगों शब्दों का स्थान ले सके। विधि और प्रशासन के अनेक पारिभाषिक शब्दों के हिन्दी पर्यायों को लेकर हिन्दी शब्दकोषकारों में मतभेद भी है।

पारिभाषिक शब्द अपने विषय के दृढ़ स्तम्भ हैं। यदि उनमें कही शिथिलता रही तो निर्वचन और व्याख्या के समय अनेक कठिनाइयाँ तथा विवाद उठ सकते हैं। अत एक पारिभाषिक शब्द निर्माण के समय अत्यन्त सर्कर तथा चेतन रहना आवश्यक है। विधि तथा प्रशासन के अनेक

हिन्दी शब्दकोषों में जो आज बाजार में उपलब्ध हैं, इस प्रकार की भिन्निलता दृष्टिगोचर होती है। साथ ही कुछ शब्दकोषों में पर्याय इतने किलप्ट हैं कि आसानी से उनका अर्थ ही स्पष्ट नहीं होता। परिणामस्वरूप उन पारिभाषिक शब्दों के सहारे किया गया विवि और प्रशासन के विषयों का अनुवाद अत्यन्त किलप्ट, जटिल व समास शैली का हो जाता है।

हिन्दी के कठिपय पारिभाषिक शब्दकार आज इस मत के हैं कि नव निर्मित शब्दावली तो वस्तुत ऐसी होनी चाहिये कि जिसे अधिकाश प्रादेशिक भाषाये ग्रहण कर सके। तभी साधारण जनता उसे समझ सकेगी। विधि और प्रशासन की भाषा जितनी सुवोध होगी, जितनी ही जन स्कृति के निकट होगी, उतनी ही उसमें विचार वाहन की दृढ़ता आयेगी।

हमने प्रशासन और विधि के हिन्दी शब्दकोषों में पार्ड जाने वाली जटिलताओं और विषयों का व्यक्तिगत अनुभव किया है। विवि अनुवाद के क्षेत्र में कई वर्षों से काम करने वाले अपने मित्रों से चर्चा की है। उनकी भी उपरोक्त शिकायते रही हैं। अत हमने अनुभव किया कि क्यों न इस विषय की एक सरल व सर्वसुलभ शब्दावली तैयार की जाय। हम इस शब्दावली में मौलिकता का तनिक भी दावा नहीं करते। हिन्दी में उपलब्ध आज तक के विभिन्न पारिभाषिक शब्दकोष हमारे मार्गदर्शक रहे हैं किन्तु हमने उनमें ये ऐसे पर्यायों का सकलन किया है जो जन स्कृति और भाषा के अधिक निकट हैं। इस शब्दावली को प्रशासन के सभी विभागों के लिये सहायक बनाने की हमने चेष्टा की है। इसमें वित्त विभाग, विवि विभाग, कृषि विभाग, सहकारी विभाग आदि के पारिभाषिक शब्दों का यथाशक्ति समावेश किया गया है। सरकारी कार्यालय के नित्यक्रम में काम में आने वाली टीपे और प्रारूप के अल्प उदाहरण भी दे दिये गये हैं। हमारी दूसरी चेष्टा यह रही है कि जहाँ तक सम्भव हो यह लघुकाय रहे तथा साथ ही सस्ता भी हो जिससे साधारण स्तर का हिन्दी प्रेमी भी इससे लाभ उठा सके।

यहा हम एक शब्द, अनुवाद के ज्ञेत्र में कार्य करनेवाले नवयुवक साथियों से भी कहना चाहेगे। शब्दकोष केवल मार्ग दर्शन देते हैं, वे स्वय मार्ग नहीं है। अत शब्दकोषों में पाये जाने वाले हिन्दी पर्यायों का सहारा लेकर परिस्थिति और प्रसग के अनुकूल हमें जन-सस्कृति और प्रादेशिक भाषाओं में प्राप्त अर्थ बोधक शब्दों का भी स्वागत करना चाहिये। अनुवादकों में यह कार्यत्री प्रतिभा अनिवार्य है तभी हिन्दी समृद्ध होगी। यह कार्य किसी एक शब्दकार का नहीं है अपिनु इसका दायित्व हिन्दी अनुवाद ज्ञेत्र में कार्य करनेवाले सभी विद्वानों के कन्वों पर है।

अन्त में हम उन सभी गणमान्य शब्दकोषकारों के प्रति, जिनके शब्दकोषों से हमने इस सकलन में सहायता प्राप्त की है, तथा उन महानुभावों के प्रति जिनके आशीर्वाद हमें सदा प्रेरणा देते रहे हैं, अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करते हैं। राष्ट्रभाषा प्रेमियों से तथा अनुवादकों से निवेदन करते हैं कि इस सकलन की बुटियों की ओर सकेत कर हमारा मार्ग-दर्शन करे।

गहलोत भवन  
जोधपुर

—सुखवीरसिंह गहलोत  
—रणवीरसिंह गहलोत

—पुराणा संक्षा ।  
संक्षा पु० [ सं० पूर्व + वात ] पूर्व कहकर किसी विधि के करने की ओर दिशा से चलनवाला वायु । प्रवृत्त किया जाता है।  
पुराणत—वि० [ सं० ] १ पूर्वकाल

. I am in a position to say that it  
(Dictionary of Administrative and Legal  
terms) would be very useful to the various  
Government Departments .. .... .I wish the  
author—Mr. Sukhvir Singh Gahlot—a bri-  
lliant success in his literary undertak-  
ing—*Shree Sukhasampattirai Bhandari M. R A. S.,*  
*Author of 20th Century English-Hindi Dictionary etc.*

## An Opinion

“I have looked into some portions of the “Dictionary of Administrative and Legal terms” compiled by Shri Sukhvir Singh Gahlot.

The task of finding suitable equivalents in Hindi for the administrative and legal terms of English language is indeed a difficult one. Since many words have been recently coined, there is room for difference of opinion and this will continue till the new terms are well settled by frequent use.

Shri Sukhvir Singh Gahlot has, however, tried to find easy words which may be understood by persons having a fair knowledge of Hindi. This is a good handy volume and I hope it will prove a valuable contribution to the enrichment of Hindi language”—*The Hon'ble Mr. Justice D. S. Dave, High Court of Rajasthan, Jodhpur.*

— राजा पुरा खड़ा [ विषय ] कहकर किसी विधि के करने की ओर सज्जा पुं० [ स० पूर्व+वात ] पूर्व प्रवृत्त किया जाता है। दिशा से चलनवाला वायु। पुरालृत—वि० [ स० ] १. पूर्वकाल

## An Appreciation

I have gone through a few pages of Mr Sukhvir Singh Gahlot's English-Hindi Dictionary of Administrative and Legal terms. With the recognition of Hindi as the national language of India, English is bound to be replaced by Hindi in our offices and law-courts. Naturally this process should be orderly and systematic.

To fulfil this objective it is clearly imperative that we should have a readily available and easily understandable store house of Hindi words to do duty for their English counterparts.

This task is of monumental public importance, and I am glad that Mr. Gahlot has endeavoured to make a noticeable contribution towards it. I congratulate Mr. Gahlot on his labours and confidently hope that his dictionary will be in the hands of every lawyer and member of the public services.

I wish Mr. Gahlot every success in his laudable adventure.—*The Hon'ble Mr. Justice I. N. Modi, High Court of Rajasthan, Jodhpur.*

# Dictionary of Administrative & Legal Terms.

## प्रशासन व विधि शब्दाब्दली

<b>A</b> bandon	परित्याग, परित्याग करना, छोड़ देना
Abandoned	परित्यक्त
Abandonee	परित्यक्ती
Abandoner	परित्यक्ता, परित्यागी
Abandonment	परित्यजन, परित्याग
Abate	समाप्त करना, न्यून करना, कम करना, उपशमन करना
Abatement	समाप्ति, न्यूनन, कमी, उपशमन, न्यूनीकरण
Abbreviate	संक्षेप करना
Abbreviated	संक्षिप्त, संक्षिप्त किया गया
Abbreviation	संक्षेप, संकेताक्षर, संक्षेपाक्षर
Abdicate	अपत्याग करना, राजत्याग करना, पदत्याग करना
Abdication	अपत्याग, राज्यत्याग करना
Abduct	अपहरण करना, भगा ले जाना
Abducted	अपहृत
Abduction	अपहरण, भगा ले जाना
Abductor	अपहृती

— पुरा [खड़ा] — कहकर किसी विधि के करने की ओर संज्ञा पुं० [ सं० पूर्व+वात ] पूर्व दिशा से चलनवाला वायु । पुराकृत—वि० [ स० ] १. पूर्वकाल

Abet	अनूत्तोजन, अभि-प्रेरित करना
Abetment	अनूत्तोजन, प्रेरणा, अभिप्रेरणा
Abettor	अनूत्तोजक, अभिप्रेरक
Abeyance	आस्थगन, रोक रखना
—, in	आस्थगित
—, hold in	आस्थगित रखना, रोक रखना
Abide by	पालन करना, मान लेना, मान्य होना
— by one's word	अपने वचन का पालन करना
— by loss	घाटा सहना
— by the rules	नियम पालन करना
Ability	योग्यता, कार्यक्षमता, क्षमता, सामर्थ्य, निपुणता, प्रवीणता
Ab initio	आरम्भत, आरम्भ से
Ab judicatio	न्यायालय से
Able	योग्य, कार्यक्षम, क्षम, निपुण, समर्थ
Ably	योग्यतया, योग्यता से
Abnormal	असामान्य, विलक्षण, अस्वाभाविक
Abnormality	असामान्यता
Abnormal time	विषम काल
Abode	आवास, निवास-स्थान
Abolish	उत्सादन करना, अन्त करना, आलोप करना
Abolished	उत्सादित

Abolisher	उत्सादक, अन्नकर्ता
Abolition	उत्सादन, अन्तकरण, अन्त, दण्डपरिहार
Aboriginal tribes	वनवासी, आदिवासी, आदिम
Abortion	गर्भस्थाव, गर्भपात
Abound	विपुल होना, प्रचुर होना
Above	से अधिक, उच्च, पूर्व
— all	सर्वोपरि
— average	औसत से ऊपर
— board	संशयातीत, अगुम रूप से, छल रहित
— cited	उपरि उद्धृत
— given	ऊपर दिया हुआ, उपर्युक्त
— mentioned	उपरि उल्लिखित
— par	अधिमूल्य पर
— quoted	उपरि उद्धृत
— reported	उपरि प्रतिवेदित
— said	उपर्युक्त
— the signature of	के हस्ताक्षर द्वारा
— written	उपरि लिखित
Abridge	संक्षेप करना, वंचित करना, न्यून करना, कम करना, घटाना, न्यूनन, संक्षेप
Abridgment	संक्षेपण, न्यूनन

— अपाना पुराता खड़ा ।

— सज्जा पुं० [ सं० पूर्व+वात ] पूर्व दिशा से चलनवाला वायु ।

कहकर फ़िसी विधि के करने की ओर

प्रवृत्त किया जाता है ।

पुराछत—वि० [ स० ] १. पूर्वकाळ

Abroad	विदेश
Abrogate	निराकरण करना, विलोप करना
Abrogated	निराकृत
Abrogation	निराकरण, विलोप
Abrogative	निराकारी
Abrogator	निराकर्ता
Abrupt	आकस्मिक, सहसा, एकदम
Abscond	लापता होना, भाग जाना, फरार होना, अपपलायन करना
Absconded	फरार हुआ
Absconder	फरारी, भगोड़ा
Absence	अनुपस्थिति, अभाव
Absent	अनुपस्थित, अविद्यमान
Absentee	अनुपस्थायी, अन्यत्रवासी, अनुपस्थित व्यक्ति
Absent minded	शून्य-मनस्क
Absolute	निरपेक्ष, परम, नितान्त, अवाधित, निरकुश, पूर्ण, अतिम, एकतत्र
— and unconditional	निरुपाधि और प्रतिवन्धरहित
— owner	पूर्ण स्वामी
— conviction	दृढ धारणा, दृढ विश्वास
— decree	अप्रतिवद्ध डिक्री

— discretion	परम विवेक
— disregard, in	की ओर सर्वथा ध्यान न देते हुए
— estate	अवाधित सपदा
—ly forbidden	सर्वथा निपिछा
— occupancy right	परम अधिभोग अधिकार, पूर्णभोगिता अधिकार
— occupancy tenant	परम अधिभोग किसान
— order	अंतिम आज्ञा
— property	अवाधित सम्पत्ति
— right	परम अधिकार, पूर्णाधिकार
— rule	निरपवाद् नियम, निरपेक्ष नियम
— sentence of imprisonment	केवल कारावास दण्डादेश
— title	पूर्ण स्वत्व, पूर्ण हक
Absolve	निर्मुक्त करना, मुक्त करना
Absolvent	निर्मुक्त
Absorb	सविलीन करना, अन्तर्लीन करना, चूसना, सोखना
Absorbed	सविलीन, प्रचूषित, मग्न, अन्तर्लीन
Abstain	अलग रहना, परिवर्तन करना, न करना, दूर रहना, प्रतिविरत रहना

गावा।पुरा।खड़ा।

राजाहात

सजा पुं० [ सं० पूर्व + वात ] पूर्व कहकर किसी वाध के करने की ओर  
दिया से चलनवाला वायु । प्रवृत्त किया जाता है ।

पुराकृत—वि० [ सं० ] १. पूर्वकाळ

Abstinence	प्रतिविरति
Abstract	(१) संक्षिप्त, शुद्ध, अमूर्त (२) संक्षेप करना, संक्षिप्त करना (३) संक्षेप, सारांश, गोशवारा
Absurd	अनर्गल, असगत, अयुक्त, अर्थहीन
Abundance	प्राचुर्य
Abundant	प्रचुर
Abusable	दुरुपयोज्य
Abuse	(१) दुरुपयोग, अपशब्द, गाली, दुर्घटवहार (२) दुरुपयोग करना, गाली देना, दूषित करना
— of authority	अधिकार का दुरुपयोग
Abusive language	अपशब्द, गाली गलौच
Academic	शास्त्रीय, विद्या सम्बन्धी, विद्याविपक्षक
Academy	विद्यापीठ, अकादमी
Accede	प्रविष्ट होना, सम्मिलित होना, स्वीकार करना, अभिवर्धित होना
Accelerate	प्रशीघ्र करना, गति बढ़ाना
Accept	प्रतिग्रहित करना, स्वीकार करना, स्वीकारना, अहण करना
Acceptance	स्वीकृति, प्रतिग्रहण, मंजूरी

Access	प्रवेश, अभिवृद्धि, अभिगमन, पहुँच
Accessible	प्रवेश्य, अभिगम्य, प्राप्य, सुगम, पहुँच के योग्य, पहुँच में
Accession	प्रवेश, अभिगमन, अभिवृद्धि, सहमिलन, पाना, प्राप्ति, अनुसति, योग
— of office	पदारोहण
— of	
Sovereign	प्रभु का राज्यारोहण
Accessories	उपसाधन
Accessory (1)	अपराध सहायक
(2)	उपसाधक, उपसहायक, अनुचारी, आनुसारिक उपवस्तु, उपांग
Accident	दैवयोग, दुर्घटना, अपघात
Accidental	आकस्मिक, अकस्मात्, दुर्घटना, घटनाजन्य
Acclamation	मौखिक मतदान
Accommodate	व्यवस्थापन करना, सुविधा देना, समायोजन करना, अनुग्रह करना, स्थान देना, वास देना अनुसार होना, निभना
Accommodating	अनुग्राही, अनुग्राहकारी
Accommodation	व्यवस्थापन, वासस्थान, स्थान, अनुग्रह, जगह, स्थान देना
Accompanied	सहित, समेत
Accompaniments	सहवस्तुएँ, सगासी

रगाता। पुरा। खेडा।

संशा पुं० [ सं० पूर्व + वात ] पूर्व दिशा से चलनेवाला वायु।

कहकर फ़िसी विधि के करने की ओर प्रवृत्त किया जाता है।  
पुराकृत—वि० [ स० ] १. पूर्वकाल

Accompany	सहचारी होना, साथ चलना, सहवर्ती होना
Accompanying	सलग्न, साथ का, साथ लगा हुआ
Accomplice	सहापराधी, सहकारी, अपराध संगी
Accomplish	निष्पादन करना, पूरा करना, सम्पन्न करना
Accomplished	
fact	सिद्ध वात
Accord	सहमति, देना, एक्य, स्वेच्छा
— approval, to	अनुसोदन करना
— sanct ion,	सम्मोदन करना, मंजूरी देना, स्वीकृति देना
Accordance	एकमतता, एकमत्य
— with, in	अनुसार, तदनुसार, के अनुकूल
— with law, in	विध्यानुसार, विधि के अनुसार
Accordingly	तदनुसार, तदनुकूल, फलस्वरूप, परिणाम
According to	के अनुसार, अनुसार
— to law	विधि के अनुसार
Account (१)	लेखा, विवरण, कथन, गणना, गणन,
	स्पष्टी करण, वृत्तान्त
(२)	खाते जमा करना, आकलन करना, लेखा देना, कारण बतलाना, स्पष्टीकरण करना, उत्तरदायी होना, जवाबदार होना

Accountable	उत्तरदायी, जवाबदार, स्पष्टीकरणीय
Accountancy	लेखाकर्म, लैखिकी, लेखपालन, लेखा शास्त्र
Accountant	लेखापाल
— General	महा लेखापाल
Account for	(१) लेखा देना, लेखांकन करना (२) उत्तरदायी होना, समाधान करना, प्रत्यायन करना
Accredit	अधिकार पूर्वक भेजना स्वीकार करना
Accrue	उपलब्ध होना, प्रोद्भूत होना, उपार्जित होना
Accrued	प्रोद्भूत, उपार्जित, प्राप्त
Accruer	उपार्जन, प्राप्ति
Accumulate	संचय करना, इकट्ठा होना
Accumulated	संचित
Accumulation	परिसंचय, संचयन
Accuracy	विशुद्धता, परिशुद्धता
Accurate	सन्यक्, ठीक, परिशुद्ध
Accurately	परिशुद्धतया, ठीक ठीक, वास्तविक
Accusable	अभियोज्य, दोपारोप
Accusal	अभियुक्ति, दोपारोपण
Accuse	अभियोजन करना, दोपारोपण करना, असियोग लगाना
Accusation	अभियोग, दोपारोप
Accused	अभियुक्त, प्रतिवादी

गाव। पुरा। खेड़ा।

संज्ञा पुं० [ सं० पूर्व + वात ] पूर्व दिशा से चलनवाला वायु ।

कहकर किसी विधि के करने की ओर प्रवृत्त किया जाता है ।

पुराकृत—वि० [ सं० ] १. पूर्वकाल

Accuser	अभियोक्ता, दोषारोपक, अभियोगकर्ता
Accustom	स्वभाव पतना, प्रभ्यम् होना
Accustomed	प्रभ्यम्
Achieve	निष्पादन करना, प्राप्त घरना, उपार्जन करना
Achievement	निष्पादन, प्राप्ति, साकल्य, पूर्णि, मिल्हि
Acknowledge	अभिम्बीकार करना, पहुँच देना, स्वृत्त करना, पावती भेजना, प्रगीकार करना
— receipt	प्राप्ति स्वीकार करना, प्राप्ति भेजना, पहुँच देना
Acknowledgment	अभिम्बीकृति, अभीस्वीकार
— due	प्राप्त स्वीकृति, जवाबी रजिस्टरी, पावती सहित स्वीकृति पत्र
— form	
— of receipt	प्राप्ति स्वीकार, पहुँच लिखना
Acquaint	परिचय देना, परिचित करना, जापित करना, जतलाना, मूचना देना
Acquaintance	परिचय, परिचित, निस्तारण
Acquiescence	उपमति, मौनस्वीकृति
Acquire	अर्जन करना, अवाप्त करना, अंजित करना, अर्जन
Acquisition	अधिगमन, अवाप्ति, अर्जन, प्राप्ति
Acquit	निर्दोषी ठहराना, विगुक्त करना, दोषमुक्त करना, विमोचन करना, करण चुकाना, न्युण

	परिशोधन करना, रिहा करना, निभाना, निर्वहण करना, दोप सोचन
Acquittal	विमुक्ति, विसोचन, दोप सोचन, दोप मुक्ति, रिहाई, छुटकारा
Acquittance	भरपाई, विमुक्ति, दोपमुक्ति, निस्तारण, भुगतान
— register	वेतन पंजी
— roll	वेतन नामावली, वेतन चिट्ठा
Acre	एकड़
Acreable	प्रति एकड़
Acreage rate	प्रति एकड़ दर
Act	अधिनियम, कार्य, कर्म, कृत्य
Acting	कार्यकारी, कार्यकरण, कार्यवाह, कार्यशील, कार्य करते हुए
— as	के रूप में कार्य करने वाला
— in good faith	सद्भाव से कार्य करते हुए
— in official capacity	अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए
— justly	न्याय्य रूप से करते हुए
Action	कार्यवाही, क्रिया, कर्म
—, cause of	वादहेतु, वादमूल
— able	अभियोज्य, व्यवहार्य
— in rem	सर्ववन्धक अभियोग

गावा पुरा। संज्ञा।

संज्ञा पुं० [ सं० पूर्व + वात ] पूर्व कहकर किसी विधि के करने की ओर  
दिया से चलनवाला वायु । प्रवृत्त किया जाता है ।

पुराकृत—वि० [ स० ] १ पूर्वकाल ।

— taken	की गई कार्यवाही
Active	सक्रिय, क्रियात्मक, क्रियाशील, कार्यशील
Activity	कार्यकलाप, गतिविधि, हरकत, क्रियाशीलता, सक्रियता, कर्मण्यता
Act of God	दैवी घटना, दैवी आपद, अदृष्ट
Act of grace	ज्ञानादान, अपराधिक ज्ञान
Act of hostility	शत्रुता कार्य
Act of indemnity	दण्ड सोचन अधिनियम, ज्ञातिपूर्ति अधिनियम
Act of justice	न्याय कार्य
Act of misconduct	दुर्व्यवहार कार्य, कदाचार कार्य
Act of state	राज्य क्रिया
Actor	अभियोक्ता, अभिकर्ता, अभिनयकर्ता, कर्ता
Act or omission	कृत अथवा अकृत
Acts and manuals	अधिनियम और नियमावलियाँ
Actual	वास्तविक, प्रत्यक्ष, यथाभूत, यथार्थ
Actually and voluntarily	वास्तव में तथा स्वेच्छा से
Actuate	काम से लगाना, गति देना, प्रेरित करना
Acute	तीक्ष्ण, नितान्त
Adapt	अनुकूलित करना
Adaptation	अनुकूलन अनुकरण, अनुसरण
Adapted	अनुकूलित
Add	जोड़ना

I am to	मुझे यह भी कहना है
Addenda	परिशिष्ट
Additional	अतिरिक्त
Address	संबोधन करना, भाषण देना, पता लिखना, अभिभाषण, सम्बोधन
Addressee	पाने वाला, प्रेपिती
Adduce	प्रस्तुत करना
Adequate	पर्याप्त, काफी, समुचित
Adhere	चिपकना, ढढ़ रहना, संलग्न रहना
Ad interim	इस बीच से
Adjacent	संलग्न
Ab joining	पार्श्वस्थ
Adjourn	स्थगित करना
Adjudication	निर्णय
Adjust	निवटाना, समाधान करना, मिलाना
Administer	प्रबन्ध करना, शासन करना
Admissible	आव्याह
Admission	स्वीकारोक्ति
Admit to bail	जमानत पर छोड़ना
Admonition	भर्त्सना
Adopt	दत्तक लेना, अंगीकार करना, अपनाना, स्वीकार करना

गोव। पुरा। खेड़ा। चारा। पालम। प्राचान। काळ का इतिहास  
 कहकर किसी विधि के करने की ओर  
 संज्ञा पुं० [ सं० पूर्व+वात ] पूर्व प्रवृत्त किया जाता है।  
 दिशा से चलनवाला वायु। पुराकृत—वि० [ स० ] १. पूर्वकाल

— procedure	प्रक्रिया का अनुसरण करना
Adult	प्रौढ़, वयस्क, वालिंग
— franchise	वयस्क मताधिकार
Adulteration	अपमिश्रण, हीनमिश्रण, मिलावट
Adulterer	परस्त्री-गामी
Adulterine	व्यभिचार विपयक, कृत्रिम, कूट, वनावटी, नकली अवैध, जारज
Adultery	जारता
Advance (१)	अग्रिम देना, उधार देना
(२)	अग्रिम, अग्रिम धन, पेशागी
(३)	कालपूर्व, अगाऊ, पहिले
Advanced studies	उच्च अध्ययन
Advancement	उन्नति, साधन करना
Advantage	लाभ, फायदा, सुविधा, प्रलाभ
Adversary	प्रतिपक्षी, विरोधी, प्रतिद्वन्दी
Advent	आगमन, आना
Adverse	प्रतिकूल, विपरीत, विपक्षीय
— party	विपक्ष, विरोधी पक्ष, विपक्षीय पक्षकार
— possession	विरुद्धाधिकार, विपक्षत कब्जा
Advertise	विज्ञापन करना, विज्ञापित करना
Advertisement	विज्ञापन
Advice	मंत्रणा, सलाह, सूचना, उपदेश, परामर्श
Advise	परामर्श देना, मंत्रणा देना, सलाह देना
Adviser	मंत्रणादाता, सलाहकार, परामर्शदाता

Advocacy	समर्थन, पक्षपोषण, वकीली
Advocate	समर्थना करना, पक्षपोषण करना, अधिवक्ता
— General	महाधिवक्ता
Aerial	हवाई, विमान सम्बन्धी, वायु सम्बन्धी, आकाशीय
Aerodrome	विमान द्वेरा, हवाई अड्डा
Aesthetic	सौन्दर्यात्मक
Affair	काज, कार्य, कास, मामला
Affairs	कार्य, कामकाज, लोककार्य, राज्य कार्य, परिस्थिति
Affect	प्रभाव डालना, प्रभावित करना, बाधक होना
Affected	प्रभावित, ग्रस्त
Affection	अनुराग, प्रीति, स्नेह
Affect materially	सारतः प्रभाव डालना
— prejudicially	प्रतिकूल प्रभाव डालना, प्रतिकूल असर डालना
Affidavit	शपथ पत्र, प्रतिज्ञा लेख
Affiliate	दृत्तक लेना, गोद लेना
Affiliated	सम्बन्ध जोड़ना, सम्बद्ध करना, संबन्धन
Affinity	सम्बद्ध, संलग्न
Affirm	बन्धुता, साहश्य
	दृढ़ करना, पुष्टि करना, ठीक ठहरना, प्रतिज्ञा करना, निश्चय पूर्वक कहना, पुष्टि करना, प्रतिज्ञात करना

गॉव। पुरा। खेड़ा। असम प्राचानि कोज का इतिहास कहकर फ्रांसी वांध के करने की ओर सज्जा पुं० [ सं० पूर्व + वात ] पूर्व प्रवृत्त किया जाता है। दिशा से चलनवाला वायु। पुराकृत—वि० [ सं० ] १ पूर्वकाल

Affirmation	पुष्टि करण, दृढीकरण, प्रतिज्ञान
Affix	अनुबंधन करना, चिपकाना, पीछे जोड़ना
Afflict	दुखी करना, त्रास देना, सताना
Afford	समर्थ होना, देना, दे सकना
Affray	झगड़ा, कलह, हंगामा
Affront	सम्मुख अपमान करना, मुँह पर अपमान करना, सामना करना, मुठभेड़ करना
	(२) उद्घृत (३) औद्घृत्य
Aforesaid	पूर्वोक्त, उपर्युक्त
—, as	यथोक्त
Aforementioned	पूर्वोक्त लिखित
After	पश्चात्, पीछे
— date	दिनांक पश्चात्
— noon	अपराह्ण, तीसरा पहर, अपराह्न
— thought	उत्तर विचार, पश्चात् बुद्धि
— wards	इसके बाद, पश्चात्
Against	नामे, विपरित, प्रतिकूल, विरुद्ध, ग्रिलाफ सामने
Age	आयु, वयस्, वय, अवस्था, युग
— limit	वय सीमा
— of retirement	नियत सेवावधि की अवस्था

	निवृत्तिवय, सेवानिवृत्ति-वयस्
Agency	एजेंसी, अभिकरण, साधन, प्रतिनिधित्व, आढ़त
Agenda	कार्याबली
Agent	एजेन्ट, अभिकर्ता, प्रतिनिधि, आढ़तिया
Aggravate	गुरुत्तर करना, बढ़ाना
Aggravated form	गुरुत्तर रूप
Aggregate	समूह, एकत्रित करना, समस्त जोड़, पूर्ण योग, सकल, संकलित
Aggression	आक्रमण, प्रथमाक्रमण
Aggressive	उग्र
Aggrieved	दुखित, पीड़ित, परिवेदित
Agitation	आन्दोलन, चौभ, हलचल
Agnate	पितृबन्धु, सगोत्र, सपिंड, गोत्रज, सम्बन्धी
Agony	तीव्रपीड़ा, व्यथा
Agrarian	भूमि सम्बन्धी, कृषिक
Agree	सहमत होना, संमत होना, मान लेना, एकमत होना, करार होना, राजी होना, स्वीकार करना
Agreement	सम्मति, संविदा, करार, संविद, ठहराव
Agricultural	कृषि, कृषि सम्बन्धी, खेती की
— produce	कृषि उपज
— purpose	कृषिक प्रयोजन
Agriculturist	कृषिविद्, कृषिजीवी, किसान, कृषक, खेतिहार

गाँव । पुरा । खेड़ा । उपाधा । जम्म प्राचान काल का इतिहास  
 संज्ञा पुं० [ सं० पूर्व + वात ] पूर्व कहकर किसी विधि के करने की ओर  
 दिशा से चलनवाला वायु । प्रवृत्त किया जाता है । पुराकृत—वि० [ सं० ] १. पूर्वकाल

Agronomy	कृषिकर्म, क्लेत्रकर्म
Aid	सहायता देना, सहायता करना, सहायता
— and abet	सहायता देना और अनुच्छेदित करना
Aide-de-camp	परिसहाय
Aided	सहायता-प्राप्त
Aim	उद्देश्य, लक्ष्य
Air	वायु, विमान
— conditioned	वातावरस्थापित, वायु-अनुकूलित
— craft	विमान, वायुवाहन, वायुयान
— field	विमान-क्लेत्र
— Force	वायु सेना, विमानवल
— man	वैमानिक
— Navigation	विमान परिवहन
— passage	विमान यात्रा, विमान मार्ग, विमान-भाड़ा
— port	विमानों का अड्डा
— raid	विमानाक्रमण
— route	वायुमार्ग
— service	वैमानिक सेवा
— tight	वाताप्रवेश
— traffic	विमान यातायात
Airways	वायु पथ

Alarm	संत्रास भयध्वनि
Alert	सतर्क
Alias	उपनाम, उर्फ़
Alibi	अन्यत्र, अन्यत्रता, अन्यत्र-स्थिति
Alien	अन्यदेशीय, विदेशी, परदेशी
Alienate	अन्यक्रामण, अन्यसंक्रामित करना, परहस्त करना
Alienation	अन्यक्रामण, परकीकरण, अन्यसंक्रामण
Alienee	अन्यसंक्रामिती
Alieni juris	अन्याधीन
Alike	समान, सदृश, समानतया, समान रूप से
Alimony	निर्वाह धन
All	सर्व, अग्रिल, नितान्त, सब, समस्त
— concerned to note	सभी सम्बन्धित व्यक्ति इसे ध्यान में रखें
Allay	शांत करना, दूर करना, मिटाना
Allegation	अभिकथन, आरोप, प्रतिज्ञा, अभियोग
Allege	अभिकथित करना
Allegiance	निष्ठा, अनुष्वक्ति, राजभक्ति, राजनिष्ठा
Alleviate	हल्का करना, घटाना, कम करना
Alliance	सम्बन्ध, मेल, संधि, सैन्त्री
Allocable	आवणट्य, विभाज्य, बांटने योग्य

गाँव । पुरा । खेड़ा ।

जमम-क्राचान कोड़ का इतिहास

कहकर किसी विधि के करने ।

संशो पुं० [ स० पूर्व + वात ] पूर्व प्रवृत्त किया जाता है ।

दिशा से चलनवाला वायु ।

पुराकृत स० ] १.

Allocation	आवंटन, विभाजन, वंटवारा
Allot	निर्दिष्ट करना, वर्णन करना, वांटना, निर्धारित करना
Allotment placed at your disposal	आपको सौंपी गई वांट
Allottee	वटिती, ग्राही, वाट पाने वाला
All out effort	भरसक प्रयत्न
Allow	स्वीकार करना, अभ्यनुज्ञा देना, देना, करने देना, समनुज्ञा, समनुज्ञान करना
Allowance	वृत्ति, भत्ता, अधिदेय, अभ्यनुज्ञा, छूट, मोक्षीक
All right	
All round	सर्वतोमुखी, सर्वतोमुख, सर्वगुणी
Allure	प्रलोभन देना
Allusion	निर्देश, इंगित, उल्लेख
Alluvion	जलोढ़, बहकर आई हुई, कछारी
Almost	लगभग, प्रायः
Alms	भिक्षा
Alphabetically	वर्णक्रम से, वर्णानुक्रम से
Already	पहिले से ही, तत्पूर्व, पहले
Alter	फेरबदल करना, बदलना, परिवर्तन करना, विकृत करना
Alteration	परिवर्तन, बदलना, फेरबदल

Alternate	एकान्तरिक, एकान्तर
Alternative	वैकल्पिक
Always	सदैव, सदा
A. M.	मध्याह- पूर्व, स० पू०
Amalgamate	समामेलन करना, मिलाना, एकीकरण करना
Amalgamation	समामेलन, एकीकरण
Amass	आपुंजन करना, इकट्ठा करना
Ambassador	राजदूत
Ambiguity	अनेकार्थता, संदिग्धता, भ्रम
Ambiguous	द्व्यर्थी
Ambush	छिप रहना, गोपन रहना
Amend	संशोधन करना, दुरुस्ती करना
Amendment	संशोधन
Amends	परिमार्जन
Amenity	सुविधा, खुखु सुविधा
Amicable	मैत्रीपूर्ण, परस्पर सम्मत, सप्रीत
Ammunition	गोला-बारूद
Amnesty	सर्वज्ञमा, सामान्य निर्मुक्ति
Amount	मात्रा, धन, मिश्रधन, राशि, रकम, परिमाण
Ample	विपुल, प्रचुर, पर्याप्त
Amount payable	देय रकम

गाँव। पुरा। खेड़ा। . . . . . शास्त्र प्राचान काळ का इतिहार  
 । संज्ञा पुं० [ स० पूर्व + वात ] पूर्व कहकर फिसी विधि के करने की ओ  
 दिशा से चलनवाला वायु। पुराकृत—वि० [ स० ] १. पूर्वकाल

Amputate	अङ्गच्छेद करना, अङ्ग काटना
Amuse	विनोद करना
Amusement	विनोद
Analogus	समान
Analogy	सादृश्य
Analyse	विश्लेषण करना, पृथक्करण करना
Analysis and valuation of the crops	फसलों का विश्लेषण तथा मूल्यांकन
Anarchy	आराजकता
Ancestor	पूर्वज, पुरखा
Ancestral property	पैतृक सम्पत्ति
Ancestry	पूर्वज परम्परा, वंशपरम्परा
Ancillary	सहायक, गौण, अधीन, समनुष्ठक्त, उपपशु.
Animal husbandry	पशुपालन
Annex	लगाना, मिलाना, जोड़ना, अनुबन्धन करना, सहभेलन करना।
Annexed	उपाबद्ध
Annexure	उपगृह, उपभवन, अनुबद्ध, अनुबन्धन, परिशिष्ट, नस्थी, उपावन्ध

Anniversary	पुण्यतिथि, जयन्ती, वर्षदिवस, वर्षगांठ
Annihilate	परिशूल्य करना, सर्वनाश करना, अस्तित्व मिटाना
Annotate	अभिटिप्पण करना, टिप्पण करना, टीका करना
Announce	एलान करना, अभिज्ञापन करना, घोषणा करना। घोषित करना, आख्यापित करना
— by beat of drums	डोंडी पीटना
Annoy	क्लेश पहुँचाना, सताना, दुख देना, चिढ़ाना, खिजाना
Annoyance	वाधा, संताप, अवखेद, चिढ़, क्लेश
Annual	वार्षिक
Annuity	वार्षिकी, वार्षिक वेतन
Annul	लोप करना, अभिशूल्य करना, रद्द करना
Annulment	रद्द किया जाना
Anomalous	असंगत, विसंगति, विप्रमता, असामान्य असाधारण, नियम विरुद्ध
Anonymous	अनामक, नामरहित, विना नाम, गुमनाम
Answer	उत्तर देना, उत्तरदायी होना
— able	उत्तरदायी
Antagonist	विरोधी, विपक्षी
Antecedent	पूर्वचरित, प्राकचरित, पूर्व इतिहास, पूर्ववर्ती

गांव । पुरा । खेड़ा ।  
सजा पुं० [ स० पूर्व + वात ] पूर्व  
दिशा से चलनेवाला वायु ।

जम्म प्राचान काल का इतिहास  
कहकर फिरी विधि के करने की ओर  
प्रवृत्त किया जाता है।  
पुराकृत—वि० [ स० ] १. पूर्वकाल

Antedate	पूर्वतिथि देना, गततिथि डालना
Ante natal	प्रसवपूर्व
Anterior	पूर्व का, पहिले का
Anthropological	प्राणकीय
Anticipate	पूर्वधारण करना, अनुमान करना, पूर्व कल्पना करना, पूर्वानुमान करना
Anticipation	पूर्वधारणा, पूर्वकल्पना, अनुमान, पूर्वानुमान
Antiquarian	पौरातनिक, प्राचीन वस्तु विक्रेता
Any other deduction	कोई और दूसरी कटौती
Apart	पृथक, अलग
Apartment	कोष्ठ, कोष्ठावली, कमरे
Apathy	तटस्थता, उदासीनता
Apologize	क्षमायाचना करना, क्षमा मांगना
Apparent	प्रत्यक्ष, स्पष्ट, आभासी, आभासित
— error on the face of records	अभिलेखों से साफ दिखने वाली भूल
Appeal	अपील, पुनरावेदन, पुनर्विचार
— allowed	अपील मजूर, अपील स्वीकार की गई
Appear	उपस्थित होना, प्रतीत होना, दिखना, प्रगट होना
— for interview	समझ भैट के लिए उपस्थित होना
Appearance	उपस्थिति, आकार, रूप

Appellant	अपीलार्थी, पुनरावेदी, अपीलान्ट
Appellate	अपीलीय, पुनर्विचार
Append	जोड़ना, साथ लगाना, नत्थी करना, संलग्न करना
Appendix	परिशिष्ठ, संलग्न, अनुलग्न
Appertaining — thereto	सम्बद्ध, विपयक तद्विपयक
Applaud	प्रशसाधोप करना, ताली बजाना
Applicability	प्रयोज्यता
Applicable	प्रयोज्य, लागू
Applicant	आवेदक, प्रार्थी, उम्मीदवार
Application	आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र, प्रयोग, प्रयुक्ति, लागू करना, उपयोजन
— may be rejected	आवेदन पत्र अस्वीकार किया जाए
Applied	प्रयुक्त, व्यवहारिक
Apply	प्रार्थना करना, प्रयोग में लाना, लागू करना, आवेदन करना, प्रयोग करना, काम में लेना
— for sanction	मंजूरी के लिये आवेदन कीजिए
Appoint	नियुक्त करना, नियत करना, निश्चित करना
Appointment	नियुक्ति
— officiating	स्थानापन्न नियुक्ति
— permanent	स्थायी नियुक्ति

— substantive	मूल नियुक्ति, मौलिक नियुक्ति
— temporary	अस्थायी नियुक्ति
Apportion	विभाजित करना, अभिभाजन करना, प्रभाजन करना, बांटना
— able	प्रभाजनीय
— ment	प्रभाजन
Appraise	मूल्यांकन करना, आगणन करना, कूंतना, आंकना
Appreciate	अधिमूल्यन करना, विवेचना करना, प्रशंसा करना, सराहना करना
Appreciation	अधिमूल्यन, विवेचन, रसस्वाद, सराहना, प्रशंसा
Apprehend	आशका करना, पकड़ना, बन्दी करना
Apprehension	पकड़ना, आशंका
Apprentice	शिशिज्जु, उम्मेदवार, शिक्षार्थी, नौसिखिया
Apprise	विदित कराना, सूचना देना, चताना, जताना, मूल्य लगाना, अवगत करना
Approach	पहुँच, उपागमन मार्ग, प्रवेश मार्ग, पहुँचना, पास जाना, उपागमन करना
Approaches	प्रस्थल
Approval	समनुमोदन, अनुमति
Appropriate	समुचित, यथार्थ, उचित ;

	विनियोजन करना, विनियुक्त करना, उठारखना, अपनाना, आत्मसात करना
Appropriation	विनियोजन, विनियोग, अपनामा, आत्मग्रहण
Approval	अनुमोदन, अभिमति, स्वीकृति
Approve	अनुमोदन करना, अभिमति देना
Approved as proposed	प्रस्ताव अनुमोदित
Approver	अनुमोदक, भेदी साक्षी, राजसाक्षी, मुखविर
Approximate	लगभग
Appurtenances	अंग, अनुबछ, उपांग
Appurtenant	अनुलग्न, परिसर
Apropos	समयोचित, स्थानोचित, अवसरोचित, प्रसंगोचित
Aptitude	प्रवृत्ति, अभियोग्यता
Arable	कृष्य, कृषि-योग्य, हल्य, खेती के योग्य, जोतने योग्य
Arbiter	विवाचक, पंच
Arbitrarily	स्वच्छन्दतः
Arbitrary	स्वच्छन्द, निरंकुश, अनियन्त्रित, स्वेच्छाचारी, मनसाना
Arbitration	विवाचन, पंचनिर्णय, मध्यस्थ निर्णय

दुर्लभ अव्याप्त उच्च उर् ] छाई जिसमें प्राचीन काल का इतिहास गाँव । पुरा । खेड़ा । . . . . . कहकर किसी विधि के करने की ओर संशा पुं० [ स० पूर्व + वात ] पूर्व दिया से चलनवाला वायु । पुराकृत—वि० [ स० ] १ पूर्वकाल ।

Arbitrator	विवाचक, पंच ? मध्यस्थ
Arboriculture	वृक्षवर्धन, वृक्षारोपण विद्या
Archaeological	पुरातत्व सम्बन्धी
Architecture	वास्तुकला, वास्तुविद्या, वास्तुकर्म, स्थापत्य
Archive	पुरालेखा
Arduous work	श्रमसाध्य कार्य
Area	क्षेत्र, प्रदेश, क्षेत्रफल
Argue	युक्ति देना, तर्क करना, वहस करना
Argument	युक्ति, तर्क, प्रतर्क, तर्क-वितर्क, वहस, दलील
Arid	निर्जल, शुष्क, सूखा
Arise	उद्भूत होना, उत्पन्न होना
Aristocracy	अभिजातवर्ग, अभिजाततंत्र
Armament	शस्त्रास्त्र, युद्धोपकरण
Armed	सायुध
Armed forces	सशस्त्र बल
Armed insurrec- tion	सशस्त्र विपल्ब
Armistic	युद्धविशान्ति, विराम-सन्धि
Arms	शस्त्र, हथियार
Army	सेना
Armless	निरायुध
Around	लगभग, चहु ओर

Arouse	जगाना, उठाना, भड़काना
Arrange	क्रम से लगाना, व्यवस्थित करना, विन्यास करना
Arrangement	क्रम, विन्यास, रचना, प्रबन्ध, व्यवस्था, ठहराव
Arrear	अवशिष्ट, बाकी, अवशेष, बकाया
Arrest	बन्दी करना, प्रयुहण करना, पकड़ना, गिरफ्तारी
Arrival	आगमन, पहुंच
Arrogant	अहकारी, उद्धृत, गर्विला, अविनीत
Arson	गृह दाह
Art	कला
Article	अनुच्छेद, वस्तु, चीज, पदार्थ, लेख, अन्तर्नियम पद
Articles in the case	सामले से सम्बन्धित वस्तुएँ
Articles of agreement	करार के खण्ड
Artificial	कृत्रिम, बनावटी, नकली
Artisan	कलाविद्, शिल्पी, दस्तकार, कारीगर
Artist	कलाकार
Arts	कला
As a	समान, यथा, से जब

गवि। पुरा। खेड़ा। आदा। जिसमें प्राचीन काल का इतिहास कहकर किसी विधि के करने की ओर से चलनवाला है।

— aforesaid	यथा पूर्वोक्त, जैसा कि पहले कहा गया है, पूर्वोक्त-अनुसार
— against	के विरुद्ध, की अपेक्षा
— a general rule	मामान्यतया, मामान्यत
— a matter of	स्वभावत.
course	
— a matter of fact	यथार्थत, तथ्यत, वस्तुत
— a matter of	
right	माधिकार, अधिकार स्वरूप में
— a result of	के परिणामस्वरूप
— a rule	नियमतः, नियम से
— a whole	सम्पूर्णतया
— before	यथापूर्व, पूर्वानुसार, जैसे कि पहिले, पूर्ववत्, पहिले जैसा
Ascendant	प्रग्र पुरुष, पूर्वज
Ascertain	अभिनिश्चित करना, जानना, निर्णयित करना
As compared with	की तुलना में
Ascribe	लगाना, आरोप करना, कारण घोषाना
As desired	आशानुसार
As directed	यथानिदेशित

As early as possible	यथासम्भव शीघ्र, यथाशक्य शीघ्र
As far as	जहाँ तक
As far as practicable	जहाँ तक व्यवहार्य है
Aside	अलग, एक ओर
As if	जैसे कि
As it may	यथाशक्य
As laid down	यथानिर्धारित, विनिहित रीति से
As many as	जितने हो सके
As may be specified	जैसा कि बताया गया
As modified	यथापरिवर्तित
As nearly as possible	यथाशक्य, निकटतम
Aspect	आकृति, रूप, पक्ष, पहलू, स्वरूप, दृष्टिकोण, अभिमुख
As per	के अनुसार, के अनुरूप, पर से, पर का
Aspire	महत्वाकांक्षा करना
As regards as	विषयक, के बारे में, के विषय में
As requested	यथाप्रार्थित
As required	आवश्यकतानुसार, जैसा कि अपेक्षित है

गाँव । पुरा । खेड़ा । संचा पुं० [ स० पूर्व + वात ] पूर्व । दिशा से चलनवाला वायु ।

जिम्मे प्राचीन कान का इतिहास कहकर किसी विधि के करने की ओर पुराकृत—वि० [ स० ] १. पूर्वकाल

As the case may be	यथास्थिति, यथा प्रसंग
As originally enacted	यथा मूलत अधिनियमित हुआ
Assailant	आक्रमणकारी
Assault	प्रहार करना, वार करना, इल्ला करना, हमला
Assemble	समवेत होना, सम्मिलित होना, एकत्रित होना
Assembly	सम्मेलन, सभा, इकट्ठे होना
Assent	अनुमति
Assert	प्रतिपादन करना
Assess	कर निर्धारण करना, मूल्य आंकना
Assessee	करदाता
Assessment	निर्धारण, निर्धारित कर
Assessor	असेसर
Assets	आस्तियां, मालमत्ता, सम्पत्
Assign	सौंपना, अभिहस्तांकन करना, नियत करना, नाम कर देना, वांटना, समनुदेशित करना
Assignee	अभिहस्तांकिती, प्रतिनिधि, समनुदेशिती
Assignment	समनुदेशन, अभिहस्तांकन, सौंपना
Assimilate	आत्मसात करना, पचाना
Assist	सहायता करना, मदद करना
Assistance	सहायता

Associate	संयुक्त करना, साझी होना, सदस्य होना; साझी, सहकारी, साथी, संगी
Associated with	से सम्बद्ध
Association	साहचर्य, सम्बन्ध, पार्पद, सघ, संस्था, मण्डली
As soon as may be	यथासम्भव शीघ्र, यथा शीघ्र
As soon as possible	यथाशक्य शीघ्र
As such	ऐसे रूप में, इसलिए, तदनुसार
Assume	मान लेना, प्रहण करना, धारण करना, हाथ में लेना, अपना लेना
— charge	कार्यभार प्रहण करना
Assumption	कल्पना, धारणा, प्रहण
Assurance	आश्वासन, हस्तान्तरण, हस्तान्तर पत्र, बीमा
Assure	विश्वास दिलाना, आश्वासन देना, सुनिश्चित करना
Assured	बीमाकृत
As the case may be	यथास्थिति, यथाप्रसंग, जैसी स्थिति हो
As to	विषयक, के बारे में, के लिए
As usual	सदा की भाँति, हमेशा की तरह
Asylum	आश्रय, शरण, शरणालय

पुरा—पुरा पुरा [ सं० पुर ] छाया जिसमें प्राचीन काळ का इतिहास  
गाँव। पुरा। खेड़ा।  
संज्ञा पुरा [ सं० पूर्व + वात ] पूर्व कहकर किसी विधि के करने की ओर  
दिशा से चलनवाला वायु। प्रवृत्त किया जाता है।  
पुराकृत—वि० [ सं० ] १. पूर्वकाल

At all	पूर्णतया
At a time	एक ही समय में, एक ही बार में
At home	अल्पाहार, जलपान
At intervals	समय समय पर
At large	अनियन्त्रित, मुक्त, फरार, स्वच्छन्द विचरण
At least	कम से कम, न्यूनतिन्यून
Atmosphere	वातावरण
Atomic energy	अणुशक्ति
At once	तत्काल, भट्ट से, एकाएकी
Atone	प्रायश्चित करना, द्वितीय पूर्ति करना, हानि भरना
At one stroke	एक साथ
At par	सममूल्य पर
At premium	अधिमूल्य पर
At sight	देखते ही, तत्काल
Attach	साथ लगाना, जोड़ना, अभ्याग्रहण करना, कुर्क करना, लगाना, बाधना, नत्थी करना
Attached	सलग्न, साथ लगा हुआ, सयोजित, कुर्क किया
Attachment	अभ्याग्रहण, कुर्की, आसक्ति, अनुराग, स्नेह
Attack	आक्रमण, आक्रैप, आक्रमण करना
Attain	पाना, प्राप्त करना, तक पहुंचना
— age	आयु को प्राप्त करना
Attempt	चेष्टा, यत्न, प्रयत्न, प्रयास

Attendance	हाजिरी, उपस्थिति
Attend	सुनना, उपस्थित होना, हाजिर होना, ध्यान देना
Attended to	परिचर्या करना, संभाल करना
Attention	ध्यान
Attest	अभिप्रमाणित करना, साद्यांकित करना
Attestation	अभिप्रमाणन, अभिप्रमाणीकरण, अभिप्रमाण, साक्षिता, साद्याकन
Attire	सजाना, पहनाना, वस्त्रभूषित करना
At the instance of	की प्रेरणा से, के अनुरोध से
At the close of	की समाप्ति पर, के बन्द होने पर
Attorney	ग्रामिकर्ता, न्यायवादी, अटर्नी, मुख्तार
Attorney General	महान्यायवादी, महाप्रामिकर्ता
At variance with	से भिन्न
At will	यथेच्छा, इच्छानुसार, इच्छा पर
Auction	क्रोशविक्रय, नीलाम, प्रतिक्रोश
Auctioneer	क्रोशविक्रेता, नीलामकर्ता
Audible	श्रव्य
Audience	श्रोतृगण, श्रोतृजन, श्रवण, सुनवाई, साक्षात्कार
Audit	लेखापरीक्षा, गणना परीक्षा, हिसाब जांचना
Auditor	लेखापरीक्षक, अंकेत्तक, आय-व्यय-निरीक्षक
— General	महालेखा परीक्षक

**पूर्ववा—संशोधुः** [ सं० पुर ] छाया जिसमें प्राचीन काल का इतिहास गोवा । पुरा । खेड़ा । कहकर किसी विधि के करने की ओर संशोधुः [ सं० पूर्व+वात ] पूर्व दिशा से चलनवाला वायु । पुरालृत—वि० [ सं० ] १. पूर्वकाल

Augment	आवर्धन करना, बढ़ाना
Auspices of, under the Austerity	के तत्वाधान में, के उपलक्ष्य में अतिसंयम, अतिसाधारण
Authentic	प्रामाणिक, प्राधिकृत, विश्वसनीय, वास्तविक
Authenticate	प्रमाणीकरण करना, प्राधिकार देना, अधिप्रमा- णित करना
Authentication	अधिप्रमाणन, प्रमाणीकरण
Author	कर्ता, लेखक, रचयिता
Authorise	प्राधिकृत करना, अधिकृत करना
Authority	प्राधिकार प्राधिकारी, प्रमाण, प्राधिकरण
Authorize	प्राधिकार देना, प्राधिकृत करना, प्रमाणित करना, शासनाधीन
Automatically	स्वत, अपने आप, आप ही आप, स्वयं
Autonomous	स्वायत्त
Auxiliary	सहायक, सहायभूत
Avail	लाभ, सहायता, उपयोगी होना, काम आना, प्रयोजन सिद्ध करना, लाभ पहु चाना, सहा- यता करना, काम में लेना, लाभ उठाना, करना
Available	प्राप्य, उपलभ्य, उपलब्ध
Availability	उपयोगिता, सुलभता

Avenge	बैरशोधन करना, बदला लेना, प्रतिशोधन करना
Aver	दृढ़ता से कहना, साप्रह कथन करना, ससिद्ध करना
Average	औसत, साधारण, मध्यमान
Aversion	विमुखता, अरुचि, वृणा, द्वेष, विरक्ति
Avert	रोकना, निवारण करना, हटाना, मोड़ देना, फेर देना
Aviation	उड़ायन, विमान चालन
Avocation	व्यवसाय, रोजगार, धंधा, वृत्ति
Avoid	परिहार करना, टालना, आनाकानी करना, परिवर्जन करना, टालमटोल करना, दूर करना, टाल देना
Avoidable	परिवर्जनीय
Avow	प्रकट करना, स्वीकार करना, मान लेना, कवूल करना, स्पष्ट कहना, अंगीकार करना
Avowedly	स्पष्टतया, डंके की चोट से
Await	प्रतीक्षा करना, बाट जोहना, ठहरे रहना
Awaited	प्रतीक्षित
Awake	जागना, सचेत होना, सचेत करना, जगाना
Awaken	जगाना, सावधान करना, सचेत करना
Award	पंच निर्णय, निर्णय, पचाद, पुरस्कृति, पुरस्कार देना, प्रदान करना, निर्णय करना, दिलवाना, पंचादित करना

पुरवा—संशा पु० [ स० पुर ] छाया जिसमें प्राचीन काल का इतिहास गाँव। पुरा। खेड़ा। कहकर किसी विधि के करने की ओर संशा पु० [ स० पूर्व+वात ] पूर्व प्रवृत्त किया जाता है। दिशा से चलनवाला वायु। पुराकृत—वि० [ स० ] १ पूर्वकाल

Awardable	पारितोपिक योग्य
Award costs	खर्च डिलवाना
Awarded	अधिनिर्णीत किया गया
Aware	त्रिदित, परिचित होना
Axiom	स्वयं सिद्ध नियम
Axis	अक्ष, धुरी
Axle	अक्षदण्ड, धुरी
Ayes	'हां' पक्ष वाले, 'हां' वाले, हा पक्ष
—have it	'हां' पक्ष का वहुमत है

—:o:—

# B

Back	पृष्ठ, पीठ, पिछला भाग, पृष्ठ भाग, पश्चात्
— bencher	ईपद्भाषी सदस्य, मौनी सदस्य
— bite	पीठ पीछे निन्दा करना, चुगली करना
— bone	मेरु, रीढ़ आधार-स्तम्भ
— door	पृष्ठ भाग, कूट मार्ग, पिछलाड़ा
— ground	भूमिका, पृष्ठभूमि, पृष्ठिका
— ing	पृष्ठांकन, आधार, साहार्य, पृष्ठोषण
— up	समर्थन करना
— ward	पश्चात्, पीछे, पश्चवर्ती, पिछड़ा
Bad	बुरा, खराब, सदोप, निकृष्ट, निकम्मा, दूषित
— blood	कदुता
— books, in one's	अवकृपाप्रस्त
— character	दुश्चरित्र, बुरा चरित्र
— coin	खोटा सिक्का
— debt	निकृष्ट ऋण, अप्राप्तयोग्य ऋण
— faith	दुर्भाव
Badge	विल्ला
Bad in law	विधि विरुद्ध
Bad language	अपशब्द, अशिष्ट भाषा

पुरवा—संज्ञा पु० [ स० पुर ] छाया  
गोव। पुरा। खेड़ा।  
संज्ञा पु० [ स० पूर्व+वात ] पूर्व  
दिशा से चलनवाला वायु।

जिसमें प्राचीन काल का इतिहास  
कहकर फिरी विधि के करने की ओर  
प्रवृत्त किया जाता है।  
पुराकृत—वि० [ स० ] १. पूर्वकाल

Bad law	अविशुद्ध विधि
Badly neglected	अत्यन्त उपेक्षित
Bag	थैला, बोरा, बोरी, भोला, भरना, डालना हस्तगत करना, जाल में फँसाना
— and luggage	बोरी विस्तर
Bail	जमानत, जमानतदार, जामिन, जमानत पर छोड़ना, प्रतिभूति ग्रहण करना
Bailable Offence	जमानतीय अपराध
Bailee	उपनिहिती, निच्छेपयहीता
Bailiff	आसेधक, कुर्क अमीन, नाजिर
Bailor	उपनिधाता, निच्छेपक
Balance	शेष, अधिक्य, अवशेष, अतिशेष, अन्तर, तुला, तराजू, कांटा, समतोल, तोल, सतुलन, तोल करना, समपाश्वर्त करना
— in hand	रोकड़
— sheet	सन्तुलन पत्र, आय-व्यय, विवरण पत्र, तल पट
Ballot	गुप्त निर्वाचन रीति, गूढ़पत्र, शलाका, शलाका-पद्धति
— paper	शलाका-पत्र
Ban	प्रतिषेध, निषेध, प्रतिबन्ध, रोक, प्रतिबन्ध लगाना, प्रतिषेध करना, रोक; लगाना, बन्दी करना

Banish	निर्वासित करना, देश निकाला देना
Bank	तट, किनारा, कूल, तीर; बैंक, अधिकोष
Banker	अधिकोपपति, महाजन, साहूकार
Banking	महाजनी, लेन-देन
Bankrupt	दिवालिया
Bankruptcy	दिवाला, धनहीनता, दिवालियापन
Bar	छड़, शताका, वाध, रुकावट, अर्जन अवरोध; वकील वर्ग, मधुशाला, पानशाला
— and the Bench	वकील और न्यायाधीश
— efficiency	पदुत्ता वन्ध, दक्षता-रोक, निपुणता-वन्ध
Bare	केवल, सात्र, अनावृत, नंगा, अनाच्छिदित; वृक्षहीन
Bargain	सौदा, मोलभाव, मोल तोल; मोल करना, सौदा करना, भाव करना
Bargainee	सौदा-लेने वाला, मोल-लेने वाला, क्रेता
Bargainer	सौदा करने वाला, बेचने वाला, विक्रेता
Barn	कोठार, खलिहान
Barrrage of	
question	प्रश्नों की झड़ी, प्रश्नों की भरमार
Barred by limita- tion	अवधि-रुद्ध, अवधि से अवरोधित, काल- वाधित, कालातीत

**पूर्वा—संशा पु० [ स० पुर ] छाया जिसमें प्राचीन काल का इतिहास  
गाँव। पुरा। खेड़ा।**

**संशा पु० [ स० पूर्व+वात ] पूर्व कहकर किसी विधि के करने की ओर  
दिशा से चलनेवाला वायु।**

**पुराकृत—वि० [ स० ] १ पूर्वकाल**

Barred by time	समय रुद्ध, कालतिरोहित
Barred debt	अवधि-समाप्त ऋण
Barren	बन्ध्या, बंजर, ऊसर, अनुपजाऊ
Barrier	रोक, रोध, अड़ंगा, शुल्कद्वार, नाका
Barter	वस्तु विनिमय, अदल बदल; वस्तु विनिमय करना, अदल बदल करना
Bar to	
interference	हस्तक्षेप पर रोक
Bar to proceeding	कार्यवाही में रुकावट
Base	नींव, आधार, तला, अधोभाग, पाया, अङ्गा, नीच, खोटा; आधार बनाना, आधारित होना, नींव डालना, संस्थापन करना, स्थापना करना
Based on actuals	वास्तविकताओं पर आधारित
Based on facts	
and figures	वास्तुस्थिति और आंकड़ों पर आधारित
Basic	आधारभूत, मूल, बुनियादी
Basis	आधार, बुनियाद, भूमिका
Bastard	अपजातक, जारज
Batch	जत्था, गण, दल, टोली
Battalion	दस्ता, बटालियन

Batter	तोड़फोड़ करना, चकनाचूर करना, गिराना
	बारबार आकरण करना, कुचलना
Battery	प्रहार, मारपीट, तोपखाना
Bear	सहन करना, वहन करना, उठाना, भोगना
— date	तिथि अंकित करना
— fruit	फलना, लाभदायक होना
— interest	व्याज देना
— in view	ध्यान मेरखना
— loss	हानि को सहना
Bearer	धारक, वाहक, पत्रवाहक
Beat	मारना, पीटना, मारपीट करना; हाँका, गरत,
	फेरी, बीट
— a drum	ढोल बजाना
— about the bush	इधर उधर की बातें करना
Beating	मारपीट
— of the heart	हृदय की धड़कन, स्पन्दन
Beautiful	सुन्दर, शोभन, मनोहर
Because	यतः, क्योंकि, इसलिये कि, कारण से
— of	के कारण, के हेतु
Become subject to	का भागी होना

उ०-उ०-उ० ] छाया जिसमें प्राचान काल का इतिहास  
 गोव। पुरा। खेड़ा। कहकर किसी विधि के करने की ओर  
 संज्ञा पुं० [ सं० पूर्व+वात ] पूर्व प्रवृत्त किया जाता है।  
 दिशा से चलनेवाला वायु। पुराकृत—वि० [ सं० ] १. पूर्वकाल

Bed	शय्या, बिछौना, स्तर, पाट तल; समतल करना सपाट करना
Befall	होना, आपड़ना, वीतना
Befit	योग्य होना, फवना, सजना
Before	पूर्व, पहले, सामने, समक्ष
— cited	पूर्वोक्त, पूर्वोल्लिखन, पूर्वोद्धित
— due date	नियत तारीख से पहिले
— mentioned	पूर्वोक्त
— said talk	उक्त वातचीत के पहले
Beg	भीख मागना, चिनती करना
— to be excused	क्षमा कीजिए, क्षमा प्राप्त हूँ।
Begotten	गर्भाहित
Behalf	पक्ष में, निमित्त, हेतु, लिये
— ,in that	ऐसा करने के लिये, तदर्थ
— ,on his	उसके लिये, उसके निमित्त
Behave	आचरण करना, व्यवहार करना, वर्ताव करना
Behaviour	आचरण वर्ताव
Belabour	ठोकना, पीटना, कूटना, उत्ताड़न करना
Belie	झूठ बोलना, झुठलाना, आशा पूरी न करना
Belief	आस्था, विश्वास
Believe	विश्वास करना

Belittle	- जुद्र करना, छोटा दिखाना, अनादर करना
Belligerent	युद्धरत, युद्ध संलग्न
Belong	का होना, अंग होना, सम्बद्ध होना, की सम्पत्ति होना, लगाना, सदस्य होना, किसी का कार्य या विषय होना
Belongings	संभार, सामान, सम्पत्ति
Belonging to	का
Below par	अवमूल्य पर, बहु से, सामान्य मूल्य से कम
Below standard	प्रसाप से नीचे, स्तर से नीचे, मान से नीचे
Bench	बैच, पीठ, आसन, न्याय-पीठ, न्यायासन, न्यायालय, न्यायाधीशगण
Beneficial	हितकारी, हितकारक, लाभदायक, लाभप्रद
Beneficiary	फायदाप्राही, हिताधिकारी
Benefit	लाभ पहुँचाना, उपकार करना, भला करना; हित, लाभ, फायदा, उपकार, सुविधा
Benevolence	परोपकार भावना
Bequeath	इच्छापत्र द्वारा देना, वसीयत करना
Bequest	वसीयत
Beseech	विनती करना, अनुनय करना, प्रार्थना करना
Besides	उपरान्त, सिवाय, अतिरिक्त, अलावा
Best	सर्वोत्तम, उत्तम, श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, उत्कृष्ट
— wishes	शुभ कामना

गाँव । पुरा । खेड़ा । कहकर किसी विधि के करने की ओर संज्ञा पुं० [ सं० पूर्व + वात ] पूर्व प्रवृत्त किया जाता है । दिशा से चलनवाला वायु । पुराकृत—वि० [ सं० ] १. पूर्वकाल

Bestiality	पाशविकता, पशु-मैथुन
Bestow	अर्पित करना, प्रदान करना
Bet	प्रण, होड़, बाजी
Betray	विश्वासघात करना, धोखा देना, भेद खोलना
Betrothal	सगाई
Better	सुधारना, सवारना, अधिक अच्छा बनाना, बढ़ाना, और अच्छा, उत्तम
Betterment	आसुधार, सुधार, उन्नति
Betting	पर्ण लगाना, बाजी लगाना
Beware of	सावधान होना, सतर्क होना, चौकस रहना, सचेत होना, चौकन्ना रहना
Bewildered	किकर्त्तव्यविमूढ़, हृक्का धक्का
Beyond	पार, से आगे, से बाहिर, से परे, उपरान्त
—the Scope of	दायरे से बाहर
Bias	अभिनति, झुकाव
Bicameral	द्विगृही, दुसदनी, दोघरा
Bid	प्रतिकोश, बोली, बोली लगाना, प्रतिक्रोश करना, कहना, आदेश देना, आज्ञा देना
Bidder	प्रतिक्रोष्ट, बोली बोलने वाला
Biennial	द्विवार्षिक, दुसाला
Bigamy	द्विविवाह

Bill	विवेयक, विल विपत्र, विल वनाना, देयक वनाना
Bill of exchange	विनियम पत्र, हुन्डी
—of indemnity	परिहार, विवेयक
—of iading	वहन पत्र
—of sale	बीजक, विक्रय पत्र
Bill at sight	दर्शक हुन्डी
Bind	वांधना, वन्धन करना
Binder	वंधक, वांधने वाला
Binding	वन्धनकारी वन्धनकारक
Bind over	मुच्चलका देना
Birth	जन्म
—certificate	जन्मतिथि प्रमाणपत्र
—control	संतति नियमन, संतति नियंत्रण
—date	जन्म तिथि
—day	जन्मदिन, जन्मदिवस
—place	जन्म स्थान
—rate	जन्मानुपात
—right	जन्मसिद्ध अधिकार
Bitter	कट्ट, कड़वा

इति—संस्कृत उपर ] छाया जिसमें प्राचीन काळ का इतिहास  
 १. गौव । पुरा । खेड़ा । कहकर किसी विधि के करने की ओर  
 २. संसा पुं० [ स० पूर्व+वात ] पूर्व । प्रवृत्त किया जाता है ।  
 दिशा से चलनवाला वायु । पुराकृत—वि० [ स० ] १. पूर्वकाल

—experience	कदु अनुभव
Black leg	हड्डताल तोड़क, धूर्त्तर्ह
—list	काली सूची, काली सूची में लिखना
—mark	कालांक, काला चिन्ह; कालांकित करना, काला चिन्ह लगाना
—market	चोर बाजारी, काला बाजारी
—mail	धमकी से एंठना
Blame	दोप लगाना, निंदा करना
Blamed	दोपभागी
Blank	अलिखित, सादा, कोरा
—endorsement	निरक पृष्ठाकर्त्त
Blockade	नाकेवन्दी, अवरोधन
Blood	रक्त
—feud	कुल वैर
Blotting paper	शोपणपत्र
Bluff	धोखा देना
Blunt	कुन्ठित, कुन्द
Board	समिति, बोर्ड, मंडली, फलक
—of revenue	राजस्व मंडल, राजस्व बोर्ड

—of directors	संचालक मंडल
Boarding	भोजन, भोजन व्यवस्था
Bodily	शारीरिक
Body	शरीर, सभा, निकाय
—,corporate	निगम निकाय
—Guard	अंगरक्षक
—,local	स्थानीय निकाय
Bogus	बनावटी, मिथ्या, निकम्मा
Bonafide	निव्याज, सद्भाव से, सद्भावनापूर्वक
Bonafides	शुद्ध भाव, सद्भाव
Bona vacancia	स्वामिहीनत्व, अस्वामिक, लावारिस माल
Bond	बन्धनामा, बन्धपत्र, ऋणपत्र
—,Security	प्रतिभूति बन्धक
Bonded property	करणवद्ध सम्पत्ति
Bone fracture	अस्थि भग
Bonus	अतिरिक्त लाभ, वोनस, अधिलाभांश
Book	पुस्तक, ग्रन्थ, बुक करना, दर्ज करना
— debts	बही खाते वाले ऋण, पुस्तकीय ऋण
— of Account	लेखापुस्तक
Booth	मतदान मण्डप, डेरा
Booty	लूट

इति—प्राचीन उरु शब्दों जिसमें प्राचीन कानून का इतिहास  
 गोव। पुरा। खेड़ा।  
 संशोधन [ सं० पूर्व + वात ] पूर्व कहकर किसी विधि के करने की ओर  
 दिया से चलनवाला वायु। प्रवृत्ति किया जाता है।  
 पुराणत—विं [ सं० ] १. पूर्वकाल

Borderland	सीमान्त प्रदेश, प्रतिदेश
Born	उत्पन्न होना, जान
Borne	अन्तर्गत, वहन किया गया
Borrow	उधार लेना, ऋण लेना, कर्ज लेना
Boss	अधिपुरुष, स्वामी, प्रभुत्व जमाना
Both days	
inclusive	दोनों दिन सहित
Bottle neck	वाधा, अड़चन, मार्गावरोध
Bound	बढ़, बाध्य, पावन्ड, बधा हुआ
— on	सीमा के माथ लगना
Boundary	सीमा, चौड़ी
Boycott	वहिप्कार, वहिप्कार करना
Boyhood	वालपन
Boy Scout	वालचर
Brain	स्मितिएक
Brake	थामी
Branch	शाखा, कुल, वंशज
Brawl	गुलगपाड़ा
Breach	भग, उल्लंघन, भन्नाता, अवहेलना
—of duty	कर्तव्य का उल्लंघन, कर्तव्य विमुखता
—of Law	विधी भग, विधि का व्यतिक्रम

—of peace	शान्ति संग
—of promise	प्रतिज्ञा संग
—of trust	न्यासभंग, विश्वासघात
Break	तोड़ना, भंग करना, टूट जाना
—in service	सेवा भंग
—into	बलात प्रवेश
Breed	नस्ल, खानदान, अभिजन
Brevity	संक्षेप
Bribe	घूंस
Bribery	घूंसखोरी, रिश्वतखोरी
Briefs	मुकदमे का संक्षिप्त व्यौरा
Bring	लाना, सामने लाना
— about	कार्य-सम्पादन करना
— forward	आगे जोड़ना, आगे लाना
— home, to	हृदयंगत करना
— round	मना लेना
— to notice	ध्यान दिलाना, ध्यान आकृष्ट करना
— up	पालना, प्रस्तुत करे
Broadcast	प्रसारित करना
Broadcasting	प्रसारण
Broker	दलाल
Brothel	वेश्यागृह, वेश्यालय
Bruise	साधारण चोट, रगड़, कुचलना, चोट पहुँचाना
Budget	आय-व्ययक, अनुसान पत्रक, बजट

पुरवा—सज्जा पु० [ स० पुर ] छाया गौच । पुरा । खेड़ा ।

। सज्जा पु० [ स० पूर्व+वात ] पूर्व दिशा से चलनवाला वायु ।

रूपरेखा भनार का अथवाद जिसमें प्राचीन काल का इतिहास

कहकर किसी विधि के करने की ओर प्रवृत्त किया जाता है ।

पुराकृत—वि० [ स० ] १. पूर्वकाल

—grant	अनुमति अनुदान
Building	भवन, इमारत
Bulk	प्रपुंज, भूयभाग
Bull	सांड, मूल्यारोपी, तेजी वाला
— doze	भयभीत करना
— dozer	धराभीम
Bulletin	विवरणिका, विज्ञप्ति, सूचना-पत्र
Bullion	कज्जधौत, सोना-चांदी
Bullish	मूल्यारोपी
Bullock	बैल, बृप्तम्
Bulls eye	लद्य केन्द्र, गवाक्ष, गवाक्ष-दीप, झरोखा
Bully	दुर्बल शूर, धौंसमार, सताना
Bumper	आशातीत, प्रभूत, धक्का
Bundle	बंडल, गठरी, पोटली
Bungle	गोलमाल करना
Burden	भार, बोझा
— of proof	सिद्धी-भार, प्रमाण-भार
Bureau	विभाग, कार्यालय
Bureaucracy	कर्मचारी तंत्र, नौकरशाही, अधिकारी-वर्ग
Burglary	सेध मार चोरी, ग्रह भेदन
Burial place	कब्र-स्थान
Bus	बस

— Stand	वस पड़ाव
— Stop Business	वस ठहराव कारवार, कामकाज, व्यवसाय, कार्यक्रम
Buy	खरीदना, क्रय करना
Buyer	क्रेता, खरीदार, खरीदने वाला
By	द्वारा
— and by	शनै शनै.
— authority	सत्ता द्वारा, प्राधिकार से
— law	विधिना, उपनियम
— name	उपनाम
— operation of law	विधि की क्रिया द्वारा
— order	आज्ञानुसार, आदेश से
— pass	उपसार्ग
— reason of	के कारण, होने से
— stander	दर्शक
— virtue of office	पद की सामर्थ्य से
— way	उपसार्ग
way of	के रूप में, द्वारा
Bye-election	उपनिर्वाचन, उपचुनाव
Bye law	उपविधि

पुरा—पूरा पु० [ स० पुर ] छाया जिसमें प्राचीन काल का इतिहास गाव। पुरा। खेड़ा। . . . कहकर किसी विधि के करने की ओर संज्ञा पु० [ स० पूर्व + वात ] पूर्व प्रवृत्त किया जाता है। दिशा से चलनवाला वायु। पुराकृत—वि० [ स० ] १. पूर्वकाल

# C

Cabin	कोष्ठिका
Cabinet	मंत्रिमण्डल
Cable	समुद्रीतार
Cadastral	भू-कर—, भूकर संबंधी
Cadastration	भू-करमापन
Cadet	युव-सैनिक, सैन्य शिक्षार्थी
—Corps	छात्र सेना
Cadre	संवर्ग, कोटी, कलेवर, ढांचा
Calamity	सकट
Calculate	गिनना, प्रतिगणित करना, गणना करना, हिसाब करना
Calculating machine	गणन यन्त्र
Calculator	गणक
Calendar	तिथी पत्री, दिन पत्री, विवरण
Call	बुलाना, समाहूत करना, प्रयाचना करना
—for	मंगाना
Calling	आजीविका, पेशा

Call in question	आपत्ति करना, प्रश्नास्पद करना, सन्देह करना
Call off	बन्द करना, काम से हटना
Call upon	संग करना, कहना
Calumny	निन्दा, कलंकारोपण, मिथ्याभियोग
Camera	गुप्त कमरा, प्राकोष्ठ, कैमरा
Camouflage	समावरण, छाद्यसावरण, निगोपन
Camp	शिविर
Campaign	आन्दोलन, अभियान, धावा
Canal	नहर
Cancel	अपखंडन करना, विलोपन करना, रद्द करना, निरस्त करना
Cancelled	अपखण्डित, विलोपित
Cancellation	अपखण्डन, निरसन, विलोपन
Cancer	कर्कट रोग, केन्सर
Candidate	उम्मीदवार, अभ्यर्थी, पदाभिलाषी, निर्बाचनार्थी
Candidature	उम्मीदवारी, अभ्यर्थिता
Canon	सिद्धान्त
Canteen	अल्पाहारगृह, केएटीन
Cantonment	छावनी, कटक
Canvass	सप्रेरित करना, मतयाचना करना

पुरवा—सज्जा पु० [ स० पुर ] छाया जिसमें प्राचीन काल का इतिहास गाँव । पुरा । खेड़ा । कहकर किसी विधि के करने की ओर सज्जा पु० [ स० पूर्व+वात ] पूर्व प्रवृत्त किया जाता है । दिशा से चलनवाला वायु । पुराकृत—वि० [ स० ] १. पूर्वकाल

Canvasser	मत याचक
Canvassing	मतयाचन, पक्षप्रचार
Capability	योग्यता, क्षमता
Capable	समर्थ, योग्य, उपयुक्त, क्षम
Capacity	क्षमता, सामर्थ्य, हैसियत, स्थिति
— of, in the	के रूप में
Capita, per	प्रतिजन, प्रति व्यक्ति
Capital	मूल, मूलधन, पूँजी, राजधानी
— authorized	प्राधिकृत पूँजी
— punishment	प्राणदण्ड, मृत्यु-दण्ड
—, reserved	सचित पूँजी
— sum	पूँजी-धन
—, unpaid	अदत्त पूँजी
Capitalist	पूँजीपति
Capitalization	पूँजीकरण
Capitation tax	प्रतिव्यक्ति कर
Capitulate	आत्म-समर्पण करना
Caption	शीर्षक, बन्दीकरण
Captive	बन्दी, युद्ध-बन्दी

Captivity	बन्दी अवस्था, बन्दिता
Capture	बंदी करनी, बन्दीप्रहरण, धर लेना
Card	पत्रक, ताश, कार्ड पौंजना, धुनकना
— , admission	प्रवेश पत्रक
— board	गत्ता, पुष्टा
— , identity	पहचान-पत्रक
— , index	अनुक्रमणी-पत्रक
Cardinal	आधार भूत
Care	देखरेख, सावधानी
Careless	असावधान
Carelessness	असावधानी से
Caretaker	संरक्षक, कामचलाऊ
— Government	अवधायी सरकार
Care of	के द्वारा
Cargo	नौभार, नौपरायक
Caricature	ठ्यंगचित्र
Carnal	विषयी, कासुक
— intercourse	विषय भोग
Carried forward	आगे जोड़ा गया, ले जाया गया
Carriage	गाड़ी, परिवहन, वाहन
Carrier	वाहक

—private	व्यक्तिगत वाहक
—public	लोकवाहक, सार्वजनिक वाहक
Carry	वहन करना
— into effect	कार्याविन्त करना
—off	उठा लेजाना
—on	चलाना, करना
—out	कार्यान्वित करना
— over	वारी निकालना, शेष निकालना
Cartoon	व्यापाचित्र
Cartridge	कारतूस, गोली-कोप
—paper	मोटा बागज
Case	अभियोग, दावा, वाद, मामला, सुकड़मा अवस्था, दशा, स्थिति, प्रकरण, विषय
— Diary	प्रकरण-दैनन्दिनी
— may be, as the	यथास्थिति, यथप्रसंग
—of, in the	की दशा में, के बारे में, के मामले में
Cash	नकद, नगदी, रोकड़
Cashier	रोकड़िया, खजाची
Cast	साचा, भूमिका
— vote	मत देना
Casting vote	निर्णायिक मत
Castrate	वधिया करना, नपुसक बनाना

Casual	आकस्मिक, संयोग से, यदाकदा, सामयिक
— vacancy	आकस्मिक रिक्ति
Casualty	टुर्डटना, अवघटना
Catalogue	सूचीपत्र
Catch	ग्रहण, पकड़ना
— eye	दृष्टि आकर्षित करना
Catchment	जलग्रह, जलप्राप्ति
Category	कोटि, प्रवर्ग, श्रेणी
Cater	देना
Cattle	दोर, पशु, सवेशी
— pound	कांजी हौस, पशु अवरोध
Cause	कारण, विषय, हेतु, निमित्त, वाद
— Court, Small	लघु अर्थ न्यायालय
— list	वाद-सूची, प्रकरण सूची
— motion	गतिमान करना
— notice to be	

erved सूचना की तामील करना

— of action	वाद हेतु, वाद-मूल, वाद करण
—way	उच्च मार्ग, रपट
Caution	सावधानी, सतर्कता
Cavalary	अश्व-सेना

Caveat	चेतावनी, प्रसूचना
— emptor	क्रेता को पूर्व सवारण
Cease	समाप्त होना, अन्त हो जाना, परिवरत होना
— to officiate	प्रत्यानियुक्त होना
— to be operative	प्रवर्तनहीन होना, लागू न रह जाना
— to have effect	प्रभावहीन होना
Cede	अवीन होना, अभ्यर्पण, हवाले करना
Ceiling	छत, सीमा
— price	उच्चतम सूल्य
Celebrate	उत्सव मनाना, समारोह करना
Celebration	उत्सव, समारोह
Celibacy	अविवाहित अवस्था
Cell	कोष्ठ, कोठरी
Cellar	सुराघर, तलघर
Cement	सीमेन्ट, बज्रचूर्ण
Cemetery	शवाधि-स्थान, कब्रिस्तान
Censor	दोषवेचक, पत्रावेक्षक
Censure	परिनिन्दा, निन्दा करना
Census	सगणना, जनगणना, पशुगणना
Cent	शतांश, शत, सैकड़ा
Central	केन्द्रीय, मध्य

---

Centralisation	केन्द्रीयकरण
Centralise to	केन्द्रस्थ करना
Centre	केन्द्र, मध्य
Century	शताब्दी, सती, शब्दी, शतक
Ceremony	संस्कार, उत्सव, समारोह
—, funeral	दाह संस्कार
Certain	निश्चित, नियत, विवक्षित, असुक, कुछ
Certainty	निश्चिति, निश्चय
Certificate	प्रमाणक, प्रमाणपत्र
— of fitness	योग्यता-प्रमाणपत्र
— of health	स्वास्थ्य-प्रमाणपत्र
— of sale	नीलाम-पत्र
Certified	प्रमाणित
Certify	प्रमाणित करना
Certiorari, writ of	उत्प्रेषण लेख
Cess	उपकर
Cessation	विराम, समाप्ति
Cession	अद्यर्पण, हवाले करना
Chain	जरीव, जजीर, शृंखला
Chair	अधिपीठ, आसन
— man	सभापति, अध्यक्ष
Challan	चालान, प्रेपण

Challenge	विरोध करना, चुनौती, ललकार, आपत्ति
Challenged vote	प्रश्नासपद मत
Chamber	मण्डल, कक्ष, प्रकोष्ठ
—, Court	न्याय-प्रकोष्ठ
— of Commerce	वाणिज्य-मण्डल
Champerty	वाद-व्यवस्था
Champion	समर्थक प्रतिरक्षक, प्रजोता
Chance	संयोग, अवसर, संभावना, भाग्य
Chancellor	कुलपति
Change	परिवर्तन
Channel	प्रवाह, पाट, मार्ग
—, through proper	उचित मार्ग से, उचित माध्यम द्वारा
Chaos	अव्यवस्था, वित्तपत्र
Chapter	अध्याय, सर्ग, परिच्छेद
Character	चालचलन, चरित्र, हैसियत, रूप, ढंग, पात्र
— roll	चरित्र-पुस्ती, चरित्रावली, चरित्र-पत्र
Characteristic	लक्षण, विशेषता
Charge	प्रभार, संरक्षण; मूल्य, शुल्क; अभियोग, आरोप, खर्च, व्यय, प्रभारित करना, आरोपित करना, आरोप लगाना

—, assume	प्रभार ग्रहण करना
— holder	भार धारक
—, make over	प्रभार सौंपना
— report	प्रभार प्रतिवेदन
— sheet	आरोप पत्र, अभियोग पत्र
—, take over	प्रभार लेना, प्रभार ग्रहण करना
— with	का द्रोप लगाना, से युक्त करना
Chargeable	आरोप्य, प्रभार्य
Charged	भारित, लिया गया, लगाया गया, आरोपित
Charitable	दातव्य, धर्मार्थ, पुण्यात्मक
Chart	सानचित्र, रेखाचित्र, तालिका, सारणी
Charter	अधिकार पत्र, राजलेख
Chaste	साध्वी, पवित्र
Chastity	सतीत्व
Chattel	अस्थावर सम्पत्ति, चीज वस्तु
Cheap	सस्ता, अल्पव्यय
Cheat	छली, छलकारी, धोखादेना, छल करना
Cheating	छल करना, छल
Check	रोक, अंकुश, जांच, जांचना, पड़तालना, रोकना
—post	जांच चौकी
Chemical	रसायनिक, रसायन

Chemist	रसायनज्ञ, भैयजिक
Chemistry	रसायन शास्त्र
Cheque	चैक, हुन्डी, धनादेश
—, bearer	वाहक धनादेश
—, blank	निरंक धनादेश
— book	धनादेश पुस्त
—, crossed	रेखित धनादेश, क्रास चैक
—, order	आदिष्ट धनादेश
—, post-dated	उत्तरतिथिय धनादेश
Chest	पेटी, सीना, छाती
Chief	मुख्य, मुखिया, प्रमुख, प्रधान
Child	वालक, बच्चा
Childish	वालोचित
Chronological	कालक्रमानुसार, कालक्रमिक, तिथिवार
Chronology	कालक्रम
C. I. D.	गुप्तचर विभाग
Circle	मण्डल वृत्त, अंचल,
Circuit	परिधि, घेरा, परियात्रा, परिपथ
—House	परिधिगृह, गोल घंगला, उच्च विश्रामगृह
Circular	परिपत्र, गोलाकार

—order	पर्यादेश
Circulate	परिचालित करना, परिचालन, घुमाना, परिवहण करना
Circulation	परिचालन, घुमाव, परिवहण, प्रचार, संचार
Circumference	परिधि
Circumscribe	सीमावन्धन, चतुरंकन
Circumscribed	परिलिखित, सीमावद्ध
Circumstance	परिस्थिति
Cistern	जलाशय, हौज
Citation	उद्धरण, प्रोद्धरण, व्यापान्त
Cite	उल्लेख करना, उद्धृत करना, प्रोद्धृत करना; व्यष्टान्त देना
Cited above	उपरि-उद्धृत, ऊपर दिया हुआ
Citizen	नागरिक
Citizenship	नागरिकता, पौरत्व
Civic	नागरिय, नागर
Civil	नागर, असैनिक, सभ्य, व्यवहार, सम्पत्ति-सम्बन्धी
— action	व्यवहार कार्यवाही, साम्पत्तिक कार्यवाही
— case	व्यवहार वाद, दीवानी मामला
— Court	व्यवहार न्यायालय, दीवानी न्यायालय
— disobedience	नागर अवज्ञा

— judge	व्यवहार न्यायाधीश
— liberty	नागरिक स्वतन्त्रता
— list	अधिकारियों की सूची
— marriage	नागर-विवाह
— procedure code	व्यवहार प्रक्रिया संहिता
— rights	नागरिक अधिकार
— Service	असैनिक सेवा, नागर सेवा
— Suit	व्यवहार-वाद, दीवानी मामला, साम्पत्तिक वाद
— war	गृह-युद्ध, प्रजा-युद्ध, नागर विघ्रह
— wrong	व्यवहार विषयक दोष, साम्पत्तिक अपकृत्य
Civilization	सभ्यता
Civilized	सभ्य
Claim	वाद, अधियाचना, दावा; दावा करना, मांग करना
Claimant	दावेदार, अधियाचक, अध्यर्थक
Claimed	दावा किया हुआ, अध्यर्थित
Claiming through	अधिकार से दावा करना
Claiming under	के आधीन दावा करने वाले
Claim of set-off	प्रतिप्राप्ति का दावा
Clamour	कोलाहल
Clan	जाति, गोत्र

Clarification	स्पष्टीकरण, सफाई
Clarify	स्पष्ट करना, स्वच्छ करना
Clash	संघर्ष, मुठभेड़
Class	वर्ग, श्रेणी, प्रकार
Classification	वर्गीकरण, श्रेणी-करण
Classified	वर्गीकृत
Classifier	वर्गीकर्ता
Classify	वर्गीकरण करना
Clause	वाक्यांश, खण्ड, पद, चरण
—by-clause	खण्डशः
Clay	मिट्ठी
Clear	स्पष्ट, रहित, विल्कुल, सन्देह
Clerical	लिपिक संबंधी, लिपि संबंधी, लिपिकीय
—error	लिपिक त्रुटि
Clerk	लिपिक, कलर्क
Client	मुवक्किल, व्यवहारी, प्रकार
Cloak	आड़, बहाना, ढोग
Close	निकट, समीप, सघन, घना, समाप्त करना
—in	निकट आना, समीप आना
Closed	बन्द, अखण्ड, निषिद्ध
Closet	मंत्रागार, कोष्ठिका, शौचकुन्ड, संडास

Coarse	मोटा, स्थूल, खुरदरा
Coalition	संयोग, गुटवन्दी, मिलाजुला
Coast	समुद्रतट, किनारा, तट
Code	संग्रह, सहिता, संकेतावली
—of criminal	
Procedure	दण्ड प्रक्रिया संहिता
—of civil	
Procedure	व्यवहार प्रक्रिया संहिता
Codicil	क्रोडपत्र, इच्छानुपत्र
Codification	संग्रहीकरण
Codify	संहिताबद्ध करना
Coerce	विधिवमन करना, बलपूर्वक करवाना, बल प्रयोग करना, दबाव डालना
Coercion	उत्पीड़न, दबाव, बलप्रयोग
Cognate	संगोत्र, सजाति, वान्धव
Cognizance	प्रसंज्ञान, हस्तक्षेप, अवबोध, ध्यान
Cognize	निगृहण करना, विचार करना, संज्ञान
Cohabit	सहवास करना
Cohabitation	मैथुन, सहवास
Coheir	सह-दायाद
Coin	सिक्का, रिस्का ढालना, गढ़ना
oil nage	सिक्का, मुद्रांकन, गढ़न्त

Coiner	सिक्का बनाने वाला
Coincide	समकालीन होना, सहस्रत होना, एक साथ आ पड़ना, मेल खाना
Coincidence	संपात, मेल, सहभाव, संयोग
Coitus	मैथुन
Cojointly	सिलकर
Cold	शीत, शीतल, जुकाम
—storage, put in	खटाई में पड़ना
—storage	शीत भण्डार
Collaborate	सहयोग देना
Collaborator	सहयोगी, सहकारी
Collapse	दह जाना
Collateral	आनुसंगिक, प्रासंगिक, आत्मीय
Colleague	सहकर्मी, सहयोगी
Collect	संग्रह करना, इकट्ठा करना
Collection	संग्रह, संचय, वसूली
Collective	सामूहिक
Collector	संचेता, संग्राहक, संग्रहकर्ता, कलकटर
Collectorate	कलकटरी
College	भाविद्यालय, कॉलेज
Collide	टक्करखाना, टक्कर होना

Colliery	कोयले की खान
Collision	टक्कर
Collusion	दुरभिसन्धि, कपट-मंत्रणा, कूट संधि
Colonial	उपनिवेशिक
Colonization	उपनिवेशन
Colony	उपनिवेश
Colonize	उपनिवेश स्थापित करना, वसाना
Colour	रंग, आभास
—of office	पदाभास
Coloured races	रजित वर्णवाली जातियाँ
Column	पंक्ति, स्तम्भ, बंश
Combination	संहिति, सम्मिश्रण, संयोजन
Combine	मिलाना, मिश्रितकरना
Combustible	ज्वलनशील, दाढ़ी
Come	आना
— into effect	प्रभावी होना, लागू होना
— into force	प्रवृत्त होना, लागू होना
— into operation	चालू होना, लागू होना
— of age	प्राप्त-वयस्क, वयस्क होना
Comfort	सुख
Command	कर्मान, समादेश, संचालन
— of law	विधि के समादेश

Commence	आरम्भ करना, प्रारम्भ करना
— ment	प्रारम्भ, आरम्भ
Commendatory	प्रशंसात्मक, सिफारिशी
Comment	आलोचना करना, टीका टिप्पणी करना
Commentary	टीका, भाष्य, आलोचना
Comments	टीका टिप्पणी आलोचना
Commerce	वाणिज्य, व्यवसाय
Commercial	वाणिज्यिक, वाणिज्य-
—undertakings	वाणिज्यिक उपकरण
Commission	आयोग, कमीशन, आढत, दलाली
Commissioned	विनियुक्त, आयुक्त
Commissioner	आयुक्त, कमीशनर
Commit	सुपुर्द करना, वचन-बद्ध होना, प्रेषित करना
Commitment	सुपुर्दगी, वचनवन्ध, प्रेपण
Committal	सौंपना, सुपुर्दगी
Committee	समिति
—, ad hoc	एतदर्थ समिति
—, select	प्रबर समिति
—, standing	स्थायी समिति
—, sub	उप-समिति
Commodore	कमोड, मल-पात्र

Commodity ..	व्यापार, सामग्री, पर्याय, वस्तु
Common ..	सामान्य, सार्वजनिक, समान, साधारण
—purpose ..	सामान्य प्रयोजन
—seal ..	सामान्य मुद्रा
—sense ..	सहज बुद्धि
—wealth ..	राष्ट्र मण्डल
Communal ..	साम्प्रदायिक
Communalism ..	साम्प्रदायिकता
Communicate ..	संचार करना, संसूचित करना, पत्राचार करना, पहुँचाना
Communication ..	संचार, सवादवहन, पत्राचार, पत्र-व्यवहार, यातायात
—, means of ..	संचार साधन
Communiqué ..	विज्ञप्ति, सूचना
Communism ..	साम्यवाद
Community ..	सामुदायिक, समुदाय, सामूहिक, सम्प्रदाय
— development ..	सामुदायिक विकास योजना
project ..	सामुदायिक विकास योजना
Commutation ..	लघुकरण, रूपान्तरण, परिणामि, परिवर्तन
Commute ..	परिवर्तन करना, लघु करना
Commuted ..	रूपान्तरित

Co-mortgagor	सहवन्धन कर्ता
Companion	साथी, सहचर
Company . .	कम्पनी, समवाय, मण्डली, गुल्म
Comparative	तुलनात्मक
— statement	तुलनात्मक विवरण
Compare	तुलना करना, मिलान करना
Comparison	तुलना
Compartment	प्रकोष्ठ, विभाग, खण्ड, छिक्का
Compass	परकार, परिधि, हृद, विस्तार
Compassion	करुणा देया, कृपा
Compassionate	
allowance	अनुकर्षा भत्ता, कृपात्मक भत्ता
Compel	विवश करना, बाध्य करना, मजबूर करना
Compensate	क्षतिपूर्ति करना, पूर्ति करना, प्रतिकर देना
Compensation	क्षतिपूर्ति, हानिपूर्ति प्रतिकार
Compensatory	क्षतिपूरक, प्रतिकरात्मक
— allowance	क्षतिपूरक भत्ता, पूरक भत्ता
Compete	स्पर्द्धा करना, प्रतियोगिता करना
Competence	उपयुक्ता, क्षमता, सामर्थ्य
Competent	उपयुक्त, सक्षम; निपुण, योग्य, पर्याप्त
— authority	सक्षम प्राधिकारी

Competition	प्रतियोगिता, स्पर्धा
Competitive examination	प्रतियोगितात्मक परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा
Competitor	प्रतियोगी
Compilation	संकलन
Compile	संकलित करना
Complain	शिकायत करना, नालिश करना, परिवाद करना, फरियाद करना,
Complainant	अभियोगी, फरियादी, शिकायत करने वाला, परिवादी
Complaint	अभियोग, परिवाद, शिकायत, अभियोग
Complementary	पूरा, पूर्ण, सम्पूर्ण, पूरा करना
Completion	पूर्णता, समाप्ति, पूरा होना
Compliance	पालन, अनुपालन
Complicity	सहयोगिता
Compliments	सम्मान, अभिनन्दन
— ,with	ससम्मान
— from, with	की ओर से ससम्मान
Comply	अनुपालन करना, अनुवर्त्तन करना, पालन करना
— with	पालन करना, पूर्ति करना

Compose	रचना करना, अक्षर जोड़ना
Composition	गठन, रचना, समाधान, मिश्रण, बनावट, समझौता
Compost	खाद, मिलावट
Compound	सम्मिश्रण, समाहित करना, अहाता, समझौता करना
— an offence	प्रशमन करना, समाधान करना
Compoundable	समझौते के योग्य, संधेय
Comprehensive	व्यापक, विस्तृत, विशद्
Comprise	मे समाविष्ट होना, व्याप्त करना
Comprised	सम्मिलित, समविष्ट, व्याप्त
Compromise	समझौता,
Comptroller	नियन्त्रक
— and Auditor	
General	नियन्त्रक-महालेखा-परीक्षक
Compulsorily	अनिवार्यतः
Compulsory	अनिवार्य
Computation	संगणना, गणना
Conceal	गुप्त रखना, छिपाना
Concealment	छिपावट, संगोपन
Concede	स्वीकार करना, मानना, मान लेना, गीक करना

Conceive	चिन्तन करना, कल्पना करना, मन में आना; गमधारण करना
Concentrate	संकेन्द्रण करना
Concentration	एकत्रित होना, संकेन्द्रीकरण
Conception	धारणा, कल्पना, भावना, गमधान
Concern	सहवन्धित होना, सम्बद्ध होना, प्रतिष्ठान, सम्बन्ध
Concerned	सहबद्ध, सम्बन्धित
Concession	रियायत, परिहार, सुविधा, छूट
Concessional	रियायती, सुविधापूर्ण
Conciliation	समझौता, समाधान
Concise	संक्षिप्त
Conclude	परिणाम निकालना, उपसंहार करना, समाप्त करना
Conclusion	निष्कर्ष, परिणाम
Conclusion	निश्चायक, निर्णायक
Concrete	यथार्थ, साकार, प्रत्यक्ष, निश्चित
— proposal	निश्चित प्रस्ताव, मूर्त्त प्रस्ताव
Concupinage	उपपत्नी के रूप में रखा जाना
Concupine	उपपत्नी
Concur	सहमत होना, सहमति देना

Concurrence	सहमति, समाधिकार, सम्मति
Concurrent	समावर्ती, सहवर्ती, सहमति सूचक
Condemnation	निन्दा, दोष प्रमाणन, मृत्युदण्ड, तिरस्कार
Condemned	
Criminal	दोष प्रसागित अपराधी
Condense	संघनन करना, गाढ़ा करना, घनीभूत करना; संक्षेप करना
Condition	दशा, शर्त, स्थिति, प्रनियस, प्रतिबन्ध
Conditional	सर्वान्तर, प्रबन्धात्मक
Condolence	समवेदना, शोक
Condonation	शान्ति, माफी
Condone	माफ करना, ज्ञान्त करना, छूट देना
Conduct	आचरण, व्यवहार, संचालित करना, संचालन करना
— of business	कार्य-संचालन
Conductor	प्रचालक, संचाहक; संचालक
Confer	प्रदान करना, देना, विचार-विसर्जन करना
Conference	सम्मेलन, संमन्त्रण, दिया जाना
Conferment	प्रदान
Conferred	प्रदत्त, अर्पित, दिया हुआ, प्रदान किया हुआ

Confess	संस्वीकार करना, अपराध अंगीकार करना
Confession	संस्वीकार, अपराध-स्वीकृति
Confidence	विश्वास, भरोसा
Confidential	गोपनीय, गुप्त, विश्वस्त
Confine	सीमित करना, परिसिद्ध करना, प्रसव-नृह में रहना
— to bed	शय्याप्रस्त होना
Confinement	प्रसव, प्रसूति, सीमन, परिरोध
Confirm	पुष्टि करना, स्थायी करना
Confirmation	पुष्टिकरण, पुष्टि, स्थायीकरण, स्थिरीकरण
Confirmed	पुष्टिकृत, स्थायीकृत, स्थिरीकृत
Confiscate	राज्यसात् करना, जब्त करना
Confiscation	समपहरण, जब्ती, राज्य, सात्करण
Conflict	सघर्ष, टक्कर, विरोध
Conflicting	छन्दोत्तमक, विरोधात्मक, विरोधी, विवादप्रस्त
Conform	अनुवर्त्तन करना, अनुरूप बनाना
Conformity	अनुरूपता, अनुवर्त्तन, अनुसारिता
Confront	सम्मुख होना, तुलना करना
Confusion	विभ्रम, गड़वड़
Congenital	सहज, जन्मजात
Congested	संकुलित, अधिक भरा हुआ, संकुल

Congratulation	व्याहार्दि
Conjecture	अनुमान, अटकल
Conjointly	मिल कर, संयुक्त रूप से, एक साथ
Conjugal	दास्पत्य
Connect	जोड़ना, सम्बन्ध करना
Connection	सम्बन्ध, सम्पर्क, मेल
Connected	सम्बद्ध
Connivance	मौनानुकूलता, देखी अनदेखी करना
Connive	मौनानुकूल रहना
Conquer	जीतना
Conqueror	विजेता
Conquest	विजय
Conscience	अन्तः करण
Conscious	चेतन, सचेत
Consciousness	चेतना, जागृति
Conscription	अनिवार्य सैनिक भर्ती
Consecutive	निरन्तर, लगानार, अनुगामी
Consent	सहमत होना, सहमति देना, सम्मति
Consequence	परिणाम, फल, महत्व
Consequent	फलस्वरूप, परिणामी
Conservancy	शौच, मलवाहन, संरक्षण

Conservation	संरक्षण, रक्षा, स्थिरता
Conservative	अनुदार, संकीर्ण
Conservator	संरक्षक
Conserve	संरक्षण करना, बनाये रखना
Consider	विचार करना, समझना
Consideration	विचार, विमर्श, प्रतिफल
— money	प्रतिधन
—, paper under	विचाराधीन पत्र
Considered	विचारित
Consign	सौपना, प्रेपित करना, भेजना
Consignee	प्रेपिती, पाने वाला, माल पाने वाला
Consignment	प्रेपण
Consignor	प्रेषक, भेजने वाला
Consist	सम्मिलित करना
Consistency	संगति, अविरोध, गाढ़ता
Consistent	संगत, अविचल
Consistently	संगतिपूर्वक, अविचल रूप से
Consist of	से मिलकर बनना, से होना
Consolation	सान्त्वना
Console	सान्त्वना देना
Consolidate	समेकित करना, समेकन, चकबन्दी; एक करना, एकत्रित करना, इकट्ठा करना

— holding, to	जोतों की चकवन्दी करना
Consolidated	संचित, समेकित, एकत्रित
Consolidation	समेकन, चकवन्दी, एकीकरण
— of holdings	खातों का एकीकरण, खातों की चकवन्दी
— officer	चकवन्दी अधिकारी, समेकन अधिकारी
— work	पक्के करने का काम, चकवन्दी कार्य
Consonant	व्यञ्जन
Conspicuous	सुगोचर, ध्यानकर्षी, सुलक्ष्य, सहज गोचर, प्रसुख, विशेष
Conspiracy	घडयन्त्र
Constable	सिपाही, कांस्टेबल, आरक्षी
Constant	अपरिवर्तित, स्थिर, अचल, निरन्तर
Constipation	कठज, मलावरोध
Constituency	निर्वाचन-क्षेत्र, मतदात-वर्ग
Constituent	संस्थापक, निर्वाचक, संविधायी
— assembly	संविधान सभा
Constitute	संविहित करना, गठित करना, बनाना, संस्थापित करना, रचना
Constitution	संविधान, गठन, रचना, निर्माण
Constitutional	संवैधानिक
Constrain	बाध्य करना, निवाधित करना, जकड़ना

Constraint	विवशता, संरोध
Construct	बनाना, भरंचना करना, निर्माण करना
Construction	निर्माण, रचना; अन्वय, पद्योजना
Constructive	रचनात्मक
Construe	अर्थ करना, अन्वय करना, व्याख्या करना, अर्थ निकालना
Consul	वाधिज्य दूत
Consulate	वाधिज्य दूतावान्
Consult	परामर्श करना, सलाह करना
Consultation	परामर्श, मंत्रणा, सलाह
— with, in	की सलाह से, के परामर्श से
Consulted	सलाह ली गयी
Consume	उपभोग करना, खपत करना
Consumer	उपभोक्ता, ग्राहक
Consumers' goods	उपभोग्य वस्तु
Consumers'	
societies	उपभोक्ता समितियां
Consumption	उपभोग, खपत, क्षय
Contact	सम्पर्क, संपर्श
Contagious	सांसर्गिक, छुतहा, संक्रामक
Contain	अन्तर्विष्ट करना, धारण करना, सम्मिलित करना

Contained	अन्तर्विष्ट, मे दिया गया, में स्थित
Containing	सम्मिलित करते हुए
Contemplate	अपेक्षा करना, ध्यान करना, विचार करना, का उद्देश्य होना, अवेक्षण करना
Contemplated	अपेक्षित, अवेक्षित, विचारित, आयोजित
Contemplation	विचार, ध्यान
Contempt	अवमान, अपमान
Contend	तर्क वितर्क करना
Contention	विवाद, तर्क वितर्क; संकथन
Contentment	सन्तोष, समाधान, तुष्टि
Contents	विषय सूची, विषय वस्तु, अन्तर्वर्तु; मात्रा;
Conterminous	समसीम
Contest	प्रतिविरोध करना, विवाद करना; प्रतियोगिता करना, ( स्थान ) के लिये खड़ा होना
Contested	विवादास्पद
Context	प्रसंग, सन्दर्भ
Continent	महाद्वीप
Contingence	आकस्मिकता
Contingent	आकस्मिक, संभाव्य, घटनापेक्ष
Continual	सतत, लगातार

Continuance	अनवरति, चालू रहना, बना रहना
Continuation	अनुवर्तन, अनुवृत्ति, क्रम
— of, in	के क्रम में, के सिलसिले में, के आगे
Continue	बना रहना, जारी रहना, चालू रहना, प्रवृत्त रहना
Continued	लगातार, निरन्तर, क्रमागत, असमाप्त
Continuing	निरन्तर, अविरामी, अविरत
Continuous	लगातार, निरन्तर
Contour	परधिरेखा, रूपरेखा
Contraband	विनिषिद्ध, वर्जित, चौर्यानीत
Contraceptive	गर्भरोधक
Contract	संविदा, टेका; सविदा करना, संचोप करना, संकुचित करना
Contractor	संविदाकार, टेकेदार
Contracted	संक्षिप्त, संकुचित, संरेहित
Contraction	संकोचन, सिकुड़न
Contradict	खण्डन, करना प्रतिवाद, करना
Contradiction	खण्डन, प्रतिवाद
Contradictory	विरोधात्मक, विरोधी, परस्पर-विरोधी
Contrary	विपरीत, प्रतिकूल, विरुद्ध, उलटा
— to law	विधि-विरुद्ध, विधि के प्रतिकूल

Contrast	व्यतिरेक, वैषम्य
Contravene	उल्लंघन करना, प्रतिकूल जाना
Contravention	उल्लंघन, प्रतिकूलता
Contribute	अंशदान करना, सहयोग देना
Contribution	अंशदान, साहित्यिक लेख, चन्दा
Contributor	अंशदाता
Contributory	अंशदायी, सहायक
Control	नियन्त्रण, निरीक्षण
—, birth	सन्तति नियह, सन्तति नियोजन
Controller	नियन्त्रक
Controlling officer	नियन्त्रण पदाधिकारी
Controversial	विवादास्पद
Controversy	वादप्रतिवाद, विवाद, प्रतिवाद
Convene	बुलाना, संयोजित करना, आमंत्रित करना
Convenience	सुविधा, सुभीता
Convenient	उपयुक्त, सुविधाजनक
Conveniently	सुविधा से, सुविधापूर्वक
Convention	प्रचलित प्रथा, परम्परा, परिपाटी, प्रसभा
Conversant	सुपरिचित, जानकार, निपुण, विज्ञ
Conversation	संभाषण, वार्तालाप, बातचीत, बोलचाल
Conversely	विपरीत क्रम से, विलोसक्रम से

Conversion	परिवर्तन, रूपान्तर, धर्म-परिवर्तन
Convert	परिवर्तन करना, पलटना, धर्मान्तरित
Convey	सूचित करना, भेजना, लेजाना, हस्तान्तरित करना, अर्थ करना
Conveyance	वाहन, सवारी, यान; हस्तान्तरण; वहन, लेजाना, उठाना
— allowance	सवारी भत्ता, गाड़ी भत्ता
— charge	सवारी खर्च, गाड़ी खर्च
Convict	बन्दी, सिद्धदोष; सिद्धदोष करना, अपराधी - ठहराना
Convicted	सिद्ध दोष किया गया, सिद्ध दोष ठहराया गया
Conviction	दोषसिद्धि, धारणा
Convince	विश्वास दिलाना
Convocation	दीक्षान्त-समारोह
— address	दीक्षान्त भाषण
Convoke	बुलाना, समाहित करना
Convoy	रक्षक पोत
Co-operate	सहयोग देना, मिलकर काम करना
Co-operation	सहकारिता, सहयोग, सहकार
Co-operative	सहकारी

Co-opt	सहवरण, संवाचन करना, लेलेना
Co-ordinate	एकसूत्रता लाना, समन्वित करना
Co-ordination	समन्वय, सहयोग
Co-owner	सहस्वामी
Co-parcenary	समांशिता, सामेदारी, संदायादता
Co-parcener	समानांशी पट्टीदार, संदायद, सहभागी
Co-partner	सहभागी, सामेदार
Copy	प्रतिलिपि करना, नकल करना; प्रतिलिपि, प्रति
—, certified	प्रमाणिक प्रतिलिपि
Copyist	लिपिकार, प्रतिलिपिक
Copyright	प्रतिलिप्याधिकार, प्रकाशनाधिकार
Co-relation	परस्पर सम्बन्ध
Corporal	शारीरिक
—punishment	शारीरिक दण्ड
Corporate body	निगम निकाय
Corporation	निगम, महानगरपालिका
Corps	कोर, पलटन, सैन्य दल
Corpse	शव, मृतशरीर
Correct	शुद्ध करना, शोधना; शुद्ध, ठीक, सम्यक्
Correction	शुद्धि, संशोधन
Correctness	यथार्थता, शुद्धता, साधुता

Correspond	अनुसारी होना, अनुरूप होना; पत्रव्यवहार करना, लिखापढ़ी करना
— with	सहश होना, के अनुरूप होना
Correspondence	लिखा पढ़ी, पत्र-व्यवहार; अनुरूपता, मेल से समाप्त पत्र-व्यवहार
— ending with	पर आश्रित पत्र-व्यवहार
— resting with	संचादाता
Correspondent	तत्सम्बद्ध, अनुसारी, तत्स्थानी अनुरूप
Corresponding	शुद्धि पत्र, भूल-सुधार
Corrigendum	समर्थन करना, पुष्टि करना
Corroborate	समर्थन, पुष्टि
Corroboration	भ्रष्ट, दूषित करना
Corrupt	भ्रष्टाचार
Corruption	भ्रष्टापूर्वक
Corruptly	सहांशभागी, सहहिस्सेदार
Co-sharer	विश्वव्यापी, सार्वभौम
Cosmopolitan	खर्चा, परिव्यय, लागत व्यय
Cost	जीवन-निर्वाह व्यय
—of living	परिव्यय
Costs	कुटीर-उद्योग
Cottage Industries	सभा, परिषद्
Council	कार्यकारिणी परिषद्
—, executive	

—of Ministers	मंत्रि-परिषद्
—of States	राज्य परिषद्
—, Regional Counsel	प्रादेशिक परिषद्
Counter	बकील, सलाहकार, परामर्श, राय, सलाह प्रतिकूल, प्रति; फलक, मेज
—feit	खोट, जाली, कूटकरण
—foil	प्रतिरूप, प्रतिपर्ण, दूसरी पर्त
—part	प्रतिरूप, प्रतिवर्स्तु
—sign	प्रतिहस्ताक्षर करना
—signature	प्रतिहस्ताक्षर
—signed	प्रतिहस्ताक्षरित
—statement	प्रतिकथन, प्रत्यावेदन
Coup d'etat	सिंहासन उज्जट देना, राज्य अपहरण, विष्णुत शासन परिवर्तन
Coupled with	साथ मिलकर
Course	सिलसिला, दौरान; चर्या, कोर्स
—, in due	यथासमय
—of, in	के दौरान में, के सिलसिले में
—of time, in	यथासमय
Court	न्यायालय
—, civil	घ्यवहार न्यायालय
—, criminal	दण्ड न्यायालय, अपराध न्यायालय

—fee	न्यायालय शुल्क
—High	उच्च न्यायालय
—of appeal	अपील न्यायालय, पुनर्विचार न्यायालय
—of small cause	लघुवाद न्यायालय
—of wards	प्रतिपालक-अधिकरण
—, Revenue	राजस्व न्यायालय
—, Sessions	सत्र-न्यायालय
—, Sub-ordinate	अधीन-न्यायालय
—, Supreme	उच्चतम न्यायालय
Courtsey	शिष्टाचार, सौजन्य, शिष्टता, विनय
—, sub-ordinate	अधीन-न्यायालय
—, supreme	उच्चतम न्यायालय
Courtesy	शिष्टाचार, सौजन्य, शिष्टता, विनय
Covenant	संपरण, प्रसंविदा, संश्राव, अनुबन्ध
Covenanting state	अनुबन्धकर्ता राज्य
Cover	आवरण, आच्छादन, चादर, छत्र- छाया, के भीतर आना
Covered	अन्तर्गत
Covering letter	अग्र-पत्र

Craft	हस्तकला
Create	उत्पन्न करना, बनाना, सृजित करना, निर्माण करना
Creation	सृष्टि, उत्पत्ति, सृजन
Credible	विश्वसनीय, विश्वास्य
Credit	जमा, आकलन, साख, के नाम जमा करना
— of, to the	के नाम जमा
Creditor	ऋणदाता, धनिक, साहूकार
Creed	मत, पंथ
Crew	नाविकगण, गण, जल्था, समूह
Crime	अपराध
Criminal	अपराध संबंधी, दण्ड संबंधी, अपराधिक, अपराधी, अभियुक्त
— act	अपराधिक कार्य
— case	अपराधिक मामला
— charge	अपराधिक आरोप
— court	दण्ड न्यायालय, अपराध-न्यायालय
— force	अपराधिक बल
— Investigation	
Department	अपराधी अनुसंधान विभाग
— law	दण्ड विधि

— liability	दण्ड दायिदायित्व
— offence	आपराधिक दुश्चारण
— proceeding	दण्ड कार्यवाही
— Procedure	
code	दण्ड प्रक्रिया संहिता
— prosecution	आपराधिक अभियोजन
— trespass	आपराधिक अनधिप्रेवश
Criminate	अभिशंसित करना, दोष लगाना
Criminology	अपराध-विद्या
Crisis	संकट
Criteria	कसौटी
Criterion	कसौटी, मान दण्ड, परख
Critic	टीकाकार, आलोचक, समालोचक
Critical	नाजुक, विकट, संकटमय
Criticise	समालोचना करना
Criticism	समालोचना, आलोचना, टीका
Crop	फसल, उपज
Cross	कटी रेखाएँ, पार करना, काटना, प्रतिकूल
— examination	प्रति परीक्षण, प्रतिपृच्छा, जिरह
— objection	प्रत्युत्तर पत्र
— reference	प्रतिनिर्देश
— road	चौराहा

—suit	प्रतिवाद्
—the efficiency bar	दक्षतावरोध पार करना
—ventilation	संमुख वातन
Crowd	जन समूह, जमाव, भीड़
Crowded	सघन, घन, घना
Crucial	निर्णायिक, दुःसाध्य
Cruel	क्रूर, निर्दय
Cruelty	निर्दयता, क्रूरता
Culpable homicide	दण्ड्य मानवहत्या, सदोष मानव हत्या
— not amounting to	
murder	सदोष मानवहत्या जो बध तुल्य न हो, दूषित नर हिंसा जो हत्या न हो
Culprit	अभियुक्त, अपराधी, दोषी
Cultivation	खेती, कृषि, जोत
Cultivator	कृषक, खेतीहर, किसान
Culturable	कृष्य
Culture	संस्कृति, संवर्धन
Culvert	पुलिया
Cum	सहित, संयुक्त, एवं
Cumbrous	कष्टकारी, दुखदायी, भारी
Cumulative	एकत्रित, संग्रहीत, इकट्ठा, अधिक

Curator	संरक्षक, पालक, अधिरक्षक, संग्रहालयाध्यक्ष, प्रबन्धकर्ता
Cure	उपचार, निरोग करना, तैयार करना, उपचार करना
Curfew order	गृहकालीन आज्ञा, निशारोध आदेश
Curiosity	जिज्ञासा, उत्सुकता, वैचित्र
Currency	चलमुद्रा, चलार्थ
—notes	चलार्थ नोट
Current	चालू, प्रचलित, वर्तमान, प्रवाह
—file	चालू प्रकरण-पत्र
Curriculum	पाठ्य-क्रम
Curtail	काट छांट करना, कम करना, घटाना
Curtailment	छंटनी,
Custodian	संरक्षक, संचालक, अभिरक्षक
Custody	अभिरक्षा, अभिरक्षण, संरक्षण, हवालात हिरासत
Custom	रुढ़ि, आचार, सीमा-शुल्क, चुंगी
—duty	सीमा शुल्क, बढ़ि-शुल्क, आगम शुल्क
—Departonent	सीमा शुल्क-विभाग
Customary	आचारिक, रुढ़िगत, आचारसिद्ध
Customer	ग्राहक
Cut motion	कटौती प्रस्ताव

Cut off	काट डालना, रोकदेना
Cut out	परिपथ कर्तक
Cut-throat	
competition	करण्ठच्छेदी स्पर्धा
Cyclostyle	चक्रलेखित्र, सायक्लोस्टाइल
Cyclostyled copy	चक्रलिखित प्रति
Cypher	शून्य, गूँड़लेख, गुप्तलिपि
Cypress	यथा समीप, यथा शक्य समीप

# D

Dacoit	डाकू, डकैत
Dacoity	डकैती, डाका
Daily	दैनिक
— allowance	दैनिक भत्ता
Daily wages	दैनिक मजूरी
Dairy	दूधागार, दुग्धालय
Dak	डाक
— book	डाक पुस्तक
Dak bungalow	डाक वंगला
— register	डाक पत्री
— runner	हल्कारा
Dam	वांध
Damage	क्षति, नुकसान, खराबी, हानि
Damages	नुकसान भरपाई, नुकसानी, हानिपूर्ति
Damn	दोषी ठहराना, निन्दा करना
Damnified	क्षतिग्रस्त
Danger	संकट, खतरा
Dangerous	संकट पूर्ण, घातक
— person	संकटप्रद व्यक्ति

— weapon	भयानक आयुध
Dark	गहरा, सांवला, श्यामल
Data	निर्दिष्ट, आंकड़े, सामग्री
Date	तिथि, तारीख, दिनांक
Dated	दिनांकित, तारीख सहित, तारीख का
Day to day	दिन प्रति दिन का, दैनिक
Dead	मृतक, मृत, हृबन्त
Dead-letter office	मृत पत्र कार्यालय, अज्ञात पत्र कार्यालय
Dead-lock	गतिरोध
Deadly	घातक
Dearness allowa- nce	मंहगाई भत्ता
Death-cum-retir- ement-gratuity	मृत्यु-सह-निवृत्ति-उपदान
Deal	संपादन करना, सामना करना, व्यवहार करना, लेनदेन, बरतना, व्यवहार
Dealing	लेना देना
— Assistant	कार्यवाहक सहायक
Dean	प्राध्यक्ष, अधिष्ठाता
Dear	प्रिय, प्यारा, मंहगा
Dearth	अभाव, कमी
Debar	वञ्चित करना, रोक लगाना

Debarred	विवर्जित
Debate	वाद् विवाद, वाद् विवाद करना
Debenture	ऋण पत्र
Debit	के नाम डालना, विकलित करना, विकलन
Debitable	विकलनीय
Debris	भग्नावशेष, खण्डहर, मलबा
Debt	ऋण
—, bad	अप्राप्य ऋण
Debtor	ऋणी, देनदार
Debts due	प्राप्य ऋण, दातव्य ऋण
Decade	दशक, दशाब्दी
Decay	गलन, सङ्गन, गलना, सङ्गना
Decease	देहान्त, मृत्यु, स्वर्गवास
Deceased	मृत, स्वर्गीय
Decedent	मृत, दिवंगत
Deceit	धोखा, ठगाई, वञ्चना
Deceitfully	धोखे से, वञ्चना से
Deceive	धोखा देना, ठगना
Decency	शिष्टता, शिष्टाचार
Decent	शिष्ट, विनीत, भव्य, समुचित
Decentralization	अकेन्द्रीकरण, विकेन्द्रीकरण

Deception	धोखा, ठगाई
Decide	निर्णय करना, विनिश्चय करना
Decision	निश्चय, निर्णय
—, pending	निश्चय होने तक, निर्णय होने तक
Decisive	विनिश्चायक, निर्णायक
Declarant	घोषक
Declaration	घोषणा, घोषणा-पत्र
Declare	ज्ञापित करना, घोषणा करना
Declared	घोषित
Decline	नद्दजाना, अस्वीकार करना, नकारना, हास
Decompose	गलना, सड़ना
Decontrol	नियन्त्रण, हटाना
Decorate	सजाना, अलंकृत करना
Decorum	शिष्टाचार, शिष्टता
Decrease	कम होना, घटना, न्यून करना
Decree	आज्ञामि, डिक्री
—holder	आज्ञाप्रिधारी, डिक्रीधारी
Dedicate	अर्पण करना, समर्पण करना
Dedicated	समर्पित
Deduct	घटाना, निकाल लेना
Deduction	कटौती, घटाव, काट
Deed	विलेख, कृति, दस्तावेज, प्रलेख

Deem	समझना, मानना
Deemed, shall be	समझी जायेगी
Deface	विरूप करना, बिगड़ना
Defaced	बिगड़ा हुआ, विकृत
Defacto	वस्तुत, यथार्थ में
Defalcation	दुरुपयोग, गबन, हड्डपना
Defamation	मानहानि कारक, अपकीर्तिकर
Defamatory	मानहानि कारक, अपकीर्तिकर
Defame	अपकीर्ति करना
Default	दोष, चूक, अवहेलना, प्रमाद, अभाव, अनुपस्थिति
—in	के अभाव में, चूक होने पर, न करने पर
Defaulter	चूक करने वाला, प्रमादी, बाकीदार, दोषी, अनुपस्थित
Defeat	निष्फल करना, हटाना
—the ends of justice	न्याय के उद्देश्य को निष्फल करना
Defect	दोष, त्रुटि न्यूनता
Defective	त्रुटिपूर्ण, न्यून, सदोष, दोषयुक्त, दोषपूर्ण
Defence	प्रतिरक्षा, रक्षा, बचाव, सफाई, उत्तर पक्ष, प्रतिवाद
Defend	प्रत्युत्तर देना, समर्थन करना, प्रतिरक्षा करना, बचाव करना, सफाई देना, प्रतिवाद करना

indant	प्रतिवादी
nder	प्रतिरक्षक
ensive	प्रतिरक्षात्मक, प्रतिरक्षी
er	टालना, आस्थगित करना
erred	रोका हुआ, आस्थगित, स्थगित, बिलंबित
ayments	विलम्बित भुगतान
nnuity	बिलंबित वार्षिकी
nhancement	रोकी गई वृद्धि, स्थगित वृद्धि
liance	अवज्ञा, उल्लंघन, अवहेलना
ficiency	कमी, हीनता, अपूर्णता, न्यूनता
ficit	घाटा, हीनता, हीन
file	अपवित्र करना, दूषित करना, भ्रष्ट करना
filement	कलंक, दोष, दूषण
fine	परिभाषा करना, परिनिश्चय करना, निर्धारित करना, सीमांकित करना
finite	निश्चित, स्पष्ट, नियत
efinition	परिभाषा, लक्षण
eflate	विघ्मान, अपस्फीत करना
eflation	विस्फीति, संकुचन
eforestation	बननाशन, निर्वनीकरण
eform	बिगाड़ना, विरूपित करना
efraud	परिवंचित करना, कपट करना, धोखा देना

Defray	देना, व्यय करना
Defunct	मृत, निश्चेष्ट, निष्क्रिय, निर्जीव
Degeneration	अध पतन, विहास
Degradation	अवनति, अर्धांगति, पदावनति
Degrade	अवच्छयुत करना, अपपदस्थ करना, पदावनत करना
Degree	माप, उपाधि, वर्ग, मात्रा, डिग्री, मर्यादा, अंश
Dejure	विधित, वैधानिक, अधिकारतः
Delay	विलम्ब करना, देर करना, विलम्ब, देरी
Delayed	विलम्बित
Del credere	प्रत्यायक आढत, परिशोधी
Delegate	सौंपना, देना, प्रत्यायोजित करना, प्रत्याधिकृत करना, प्रतिनिधि
Delegation	प्रत्याधिकारीगण, शिष्ट मंडल, प्रतिनिधि मंडल, सौंपना, प्रत्यायोजन
— of power	शक्ति-न्यास, शक्ति देना
Delete	निकालना, विलुप्त करना, काटना
Deliberate	विमर्श करना, जानवूझकर, सविचार
Deliberation	पर्यालोचन, विमर्श, ध्यानपूर्वक विचार
Delimitation	सीमा-निर्धारण, परिसीमन
Delineate	रेखांकित करना, चित्रित करना, वर्णन करना
Delinquent	कर्तव्य-भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, अपचारी

deliver	भुगतान करना, अर्पित करना, परिदान करना, देना, छुड़ाना, जनना
delivery	परिदान, भुगतान, अर्पण, डिलिवरी, छुड़ाई, प्रसव, प्रसूति
elusion	भ्रान्ति, भ्रम
emand	मांग, अभियाचन
emarcate	सीमांकन करना, सीमा-निर्धारण करना
emarcation	सीमांकन, सीमा-निर्धारण, अभिचिन्हन
emeanour	भावभंगी, मुद्रा, आचरण
emerits	अवगुण
semi-official	अर्धसरकारी, अर्द्ध-राजकीय, अर्द्ध-शासकीय,
Demise	निधन, मृत्यु देहान्त, पट्टान्तरण
Demobilisation	सैन्य वियोजन
Democracy	प्रजातंत्र, लोकतंत्र, जनतंत्र
Demolish	गिराना, धराशायी करना, विध्वंस करना, धूल मे मिलाना
Demonstrate	प्रदर्शित करना, प्रत्यक्ष करना, प्रत्यक्षीकरण
Demonstration	प्रदर्शन, निरूपण, प्रत्यक्षण
Demonstrator	प्रदर्शक
Demote	पदावनत करना
Demotion	पदावनति
Demur	विधि-आक्षेप, विध्यापत्ति, स्थगित करना

Demurrage	विलम्ब शुल्क
Denial	अस्वीकार, इन्कार, अस्वीकृति
Denominated	नामवाला ( सिक्का ), अभिहित
Denomination	संप्रदाय, अभिधान
Denote	प्रकट करना, व्यक्त करना, अभिधान
Denounce	अवलापित करना, रह करना, समाप्ति की घोषणा करना
Denovo	अभिनव, नये सिरे से, अपूर्वात्
Dense	घन, घना, सघन
Denudation	नंगा करना, नमीकरण, वनोन्मूलन
Deny	अस्वीकार करना, नाहीं करना, नकारना, वंचित करना
De office	पद के सामर्थ्य से, पदेन
Depart	प्रस्थान करना, विचलित होना, छोड़ना, मरना
Department	विभाग
Departmental	विभागीय
Departure	प्रस्थान, छूट, विचलन, भेद, अन्तर, मृत्यु
Depend	निर्भर रहना, आश्रित होना
Dependent	आश्रित, पराधीन, परतन्त्र
Depose	अभिसाद्य देना, पदच्युत करना
Deposit	निवेपण, जमा करना, निवेप, जमा, धरोहर

Deposition	अभिसाक्ष्य, कथन, अवसादन, रोपण
Depreciate	भाव घटाना, मूल्यापकर्प करना
Depreciation	मूल्यहास, अवक्षयण, अवमूल्यन, मूल्यापकर्प, कमी
Depress	मन्द करना, उदास करना, दबाना
Depressed	दलित, निम्न, खिल्ली
Depression	मन्दी, अवसाद, उदासीनता
Deprive	वंचित करना, वियुक्त करना
Deprived	वंचित किया हुआ, वंचित
Deputation	प्रतिनियुक्ति, भेजा जाना, शिष्ट सर्हड़ल
Depute	प्रति नियुक्त करना, नियुक्त करना
Deputed	प्रत्यायोजित, प्रतिनियुक्त
Deputy	प्रति-उप-प्रत्याधिकारी
Dereliction	परित्याग, कर्तव्य-विमुखता
Derivative	व्युत्पन्न
Derived	व्युत्पन्न, व्युत्पादि
Derogation	अल्पीकरण, न्यूनीकरण
Derogatory	अपमानजनक, अग्रौरवजनक, अप्रतिष्ठाकारी
Descend	वंशकम से, उत्तरना, प्राप्त होना, आना
Descent	उद्भव, वंशानुक्रम, उत्तर
Describe	वर्णन करना, बनाना
Description	विवरण, वर्णन, भाँति, प्रकार

Desert	परित्याग करना, छोड़ भागना, मरुभूमि, ऊज़द
Deserter	भगौड़ा, अभित्यागी, छोड़ भागने वाला, पलायक
Desertion	अभित्यजन, छोड़ भागना
Deserve	के योग्य होना, का पात्र होना
Design	रूपांकित करना, रूपांकन, बनावट डिजाइन
Designate	परिकल्पना, युक्ति पदाभिधान करना, अभिहित करना, मनोनीत, पदांकन, नामोद्दिष्ट करना
Designated	पदांकित, अभिहित
Designation	पदाभिधान, नाम, पदनाम, पदांक, नामोदेश, अभिधान
Desirable	वांछनीय, अभीष्ट
Desire	इच्छा करना, चाहना, वांछा, इच्छा
Desired, as	यथाभिमत
— to say, I am	आज्ञानुसार निवेदन है, सरकार की इच्छा- नुसार मुझे कहना है
Desperate	निराशान्ध, हताश, अतिभयंकर, क्रोधान्मत्त
Destination	लक्ष्य लक्ष्य स्थान, ठिकाना
Destined	पूर्वनिर्दिष्ट, भाग्य में लिखा हुआ, जाने वाला
Destitute	निराश्रित, निराधार, अकिञ्चन, निःसहाय
Destroy	नष्ट करना, विनिष्ट करना

Destroyer	विद्ध्वंसक
Destruction	विनाश
Destructive	विनाशक
Detach	अलग करना, वियुक्त करना पृथक करना
Detail	निर्दिष्ट करना, प्रनियुक्त करना, विस्तृत वर्णन
—, in	सविस्तार, विस्तारपूर्वक
Detailed	सविस्तार विस्तृत
Details	व्यौरा, विस्तृत विवरण
Detain	रोकना, निरुद्ध करना
Detainer	निरोधक
Detect	पता लगाना, पता चलाना, भाँपना, ताड़ना
Detection	पता लगाना, खोज
Detention	निरोध, नजरबन्दी
Deter	अपभीत करना, भय दिखाना
Deterioration	ह्रास, अवनति, विगड़
Determination	अवधारणा, पर्यवसान, निश्चय, निधारणा, अवसान
Determine	निर्धारित करना, निश्चित करना, निर्णय करना निरुपित करना
Determined	निश्चित, निर्धारित
Detinue	नजरबन्द, निरुद्ध

Detriment	हानि, अहित
Detrimental	अहितकारी, अपहितकारी, हानिकर
Devlauation	अवमूल्यन
Devastate	उजाड़ना, उद्भवस्त करना
Develop	विकास करना
Development	विकास, अभिवर्द्धन, वृद्धि
Devest	वियुक्त करना, ले लेना, अधिकार छीन लेना
Deviate	विचलित होना, मार्ग छोड़ना
Deviation	विचलन, अन्तर, पथभ्रष्टता
Device	युक्ति, अभिलक्षण, यंत्र, साधन
Devise	उत्तरदान करना, प्रकल्पना करना, निर्माण करना
Devolution	आपड़ना, हाथ मे आना, अवतरण, अवक्रमण, उपर आना
Devote	अर्पण करना, निरत होना
Diarise	दैनिकी में लिखना
Diarist	दैनिकी-लिपिक
Diary	दैनिकी, रोजनामचा, डायरी
Dictate	लिखाना, लेखापित करना, आज्ञापित करना मनमानी करना
Dictation	लेखापन, आज्ञापन
Dictator	अधिनायक, तानशाह, सर्वेसर्वा

Dictionary	शब्दकोष, कोष
Die	सरना, ठप्पा, पाश, पॉसा
Difference	अन्तर, भेद, मतभेद
Different	मिन्न, विभिन्न, अन्य
Differentiate	भेद करना
Difficult	ठिन, कठिनाई
Digest	क्रमणिका, सार-संग्रह, संक्षिप्त, पचाना, हज़ करना
Digit	अंक
Dignity	प्रतिष्ठा, मान, मर्यादा
Dilapidate	भग्नावस्था, जीर्णावस्था
Dilatory	विलम्बकारी, दीर्घसूत्री
Diligence	तत्परता, परिश्रम, उद्यम, अध्यवसाय
Diligent	अध्यवसायी, उद्यमी, परिश्रमी
Dimension	आकार, परिमाण
Diminish	कम करना, घटाना
Dinner	सायं भोजन, भोज
Diploma	स्नातकपत्र, पत्रोपाधि, उपाधि-पत्र
Diplomacy	कूटनीति, राजनय
Diplomat	कूटनीतिज्ञ, राजनयी, राजदूत
Direct	निदेश देना, निदेशित करना, सीधा, प्रत्यक्ष
Direction	निदेश, दिशा

Director	संचालक, निदेशक
Directorate	संचालकालय
Directory	निदेशनी, नामदेशिका
Dirty	मैला, गन्दा
Disability	असमर्थता, अशक्तता, निर्योग्यता
Disable	असमर्थ
Disabled	निर्योग्य, अपाहज
Disadvantage	असुविधा, हानि, अलाभ, अहित
Disaffection	द्वेष, अपराग, असंतोष
Disagree	असहमत होना, विमत होना
Disallow	अस्वीकृत करना, रोकना, अनुमति न देना
Disappear	लुप्त होना, अदृश्य हो जाना, तिरोभूत होना
Disappoint	निराश करना
Disapprobation	अननुमोदन, अप्रसन्नता, अस्वीकृति, अमान्यता
Disapprove	अनुमोदन न करना, मान्यता न देना
Disaster	दुर्घटना
Disburse	व्यय करना, वितरित करना, संवितरण करना, भुगतान करना
Disbursement	परिव्यय, वितरण, संवितरण, भुगतान
Disburser	संवितरक, भुगतान करने वाला
Discard	फेंक देना, दूर करना, निकालना, रद्द करना

Discharge	उन्मुक्त करना, पालन करना दोषमुक्त करना, रिहा करना, सेवो-सुवित, भा- मुक्त करना, उन्मुक्ति, रिहाई
—of function	कार्य पालन, कार्य पूर्ति
Discharged	भारमुक्त, आरोप मुक्त
Disciple	शिष्य, चेला
Disciplinary	अनुशासनात्मक, अनुशासन सम्बन्धी
—action	अनुशासनात्मक कार्यवाही
Discipline	अनुशासन
Disclaim	स्वत्व त्याग करना, अस्वीकार करना
Disclose	प्रकट करना, बताना
Disclosure	प्रकटीकरण, प्रकटन, उद्घाटन
Discomfort	असुविधा, असुख
Disconnect	अलग करना, सम्बन्ध तोड़ना
Discontent	असंतोष
Discontinue	बन्द करना
Discontinuous	असंतत, खण्डित
Discord	अनैक्य, असामजस्य
Discount	बहा, अपहार, छूट, कटौती
Discover	खोजना, प्रकट करना, पता लगाना, आविष्का- करना
Discovery	आविष्कार, प्रकट करना, प्रकटीकरण

Discredit	अविश्वास, अविश्वास करना, कालिमा लगाना
Discrepancy	विभेद, विरोध, भेद, भ्रांति, असंगति, चूक,
Discrete	विभिन्न, अलग
Discretion	स्वेच्छा, विवेक
—, in his	स्वविवेक से, अपने विवेक से
Discretionary	विवेकाधीन
Discriminate	विभेद करना
Discrimination	विभेद
Discuss	पर्यालोचन करना, विचार-विमर्श करना, चर्चा करना, विवाद करना
Discussion	चर्चा, वाद-विवाद
Disentitle	स्वत्वच्युत करना, अधिकार च्युत करना
Disfiguration	विरूपता, विरूपण
Disfigure	विरूपित करना
Disgrace	अपयश, कलंक, कालिमा
Disgraceful	कलंकास्पद, अपमानजनक, अपयशस्कर
—conduct	कलंकास्पद आचरण, अपयशस्कर, आचरण
Disguise	गुप्त वेष, भेष बदलना, छिपाना
Dishonest	बेर्इमान, धोखेबाज
Dishonesty	बेर्इमानी
Dishonour	अपमान करना, अनादर, अप्रतिष्ठा
Dishonoured	अनाहृत प्रमानितअँ

Disinfectant	रोगाणुनाशक, जन्तुनाशक
Dislocate	विस्थापित करना
Dislocation	विस्थापन, स्थान से हटना
Disloyal	राज्य विरोधी, निष्ठाहीन
Disloyalty	अराजमंकित
Dismantle	तोड़ना, गिराना, खण्ड करना
Dismiss	पदच्युत करना, सेवा मुक्त करना, अपदस्थ करना, निकालना, खारिज करना,
Dismissal	बर्खास्तिगी, पदच्युति, अपदस्थता, खारिज
Dismissed	पदच्युत, निरसित, समाप्त किया हुआ
Disobedience	अविनय, अवज्ञा, आज्ञा भंग, पालन न करना
Disorder	गड़बड़, विकार, अव्यवस्था, दोष
Disorderly	अव्यवस्थित, अस्त व्यस्त, उच्छ्रंखल
Disorganize	विघटन करना, अस्त व्यस्त करना
Disown	अनंगीकार करना, अस्वीकार करना
Dispensary	औपधालय
Dispense with	वियुक्त करना, अभिमोचन करना, पृथक करना, छोड़ना, न लेना
Disperse	विसर्जित करना, तितर वितर करना, भंग करना
Displace	विस्थापित करना
Displaced	विस्थापित
Display	प्रदर्शन, प्रदर्शित करना

Displeasure	अभसन्नता, अवकृपा, अप्रसाद, प्रकोप
Disposal	निस्तार, निवटारा, व्ययन, इच्छा
— of, at the	के अधीन
Dispose	व्यवस्थित करना, व्ययित करना
—of	निवटाना, व्यवस्था करना, निस्तार करना,
	वेचना, विक्रय करना
Disposition	व्ययन, स्वभाव, मनोवृत्ति, निवटारा
Disproved	असिद्ध
Dispossess	धारणच्युत करना
Dispute	विवाद, भगड़ा, विवाद करना, भगड़ना
Disputed	विवादग्रस्त
Disqualification	अयोग्यता, निर्योग्यता, अनर्हता
Disqualified	अनहर्ता
Disqualify	अयोग्य करना, निर्योग्य करना, अनर्ह करना
Disregard	अवहेलना, अनवेज्ञा, उपेक्षा
Dissection	चीरफाड़
Dissent	विमति, विमत होना, सहमत न होना
Dissenting	
judgment	विमत निर्णय, विभिन्न निर्णय
Disservice	अपसेवा

Dissolution	भंग, विघटन
Dissolve	विघटित करना, भंग करना, उच्छ्रेद करना
Distemper	चिड़चिड़ापन, बदमिजाजी
Distil	अर्क खींचना, शराब उतारना
Distillation	संत्रान
Distillery	शराब की भट्टी, शराब का कारखाना
Distinct	अलग, सुविशिष्ट, स्पष्टत., विशेष भेद, पृथक
Distinctinction	विशिष्टता, उपाधि, अन्तर, भेदभाव
Distinctiveness	सुभिन्नता
Distinguish	प्रभेद करना
Distraint	रोकना
Distress	अभिहरण, कुर्की, आसेध, आपदा, संकट
— warrant	कुर्की अधिपत्र, आसेध पत्र
Distributaries	नहरें
Distribute	वितरित करना, वितरण करना, विभाजित करना, बांटना
Distribution	वितरण, बटाई, विभाजन, वर्गनिर्धारण
District	ज़िला
— Board	ज़िला बोर्ड
— Court	ज़िला न्यायालय
— Judge	ज़िला न्यायाधीश
— Magistrate	ज़िला मजिस्ट्रेट, ज़िला दंडाधिकारी

—, Superinten-				
dent of police	जिला आरक्षी, अधीक्षक			
Disturb	उपद्रव करना, विघ्न डालना			
Disturbance	विक्षेप, गङ्गवड़, उपद्रव, वाधा, विघ्न			
— of peace	शांति भंग			
Ditto	वही, यथोक्त, तदेव, वैसाही			
Diversion	व्यपर्वत्तन, हेरफेर			
Divert	व्यपर्वत्तन करना, बदाना			
Divide	विभक्त करना, विभाजन			
Divided	विभक्त, विभाजित			
Divine right	दैवी अधिकार			
Division	बंटवारा, विभाजन, आयुक्त चेत्र, प्रमण्डल			
— bell	विभाजन घंटी			
— lobby	विभाजन कक्ष			
Divisional	प्रमण्डलीय			
Dividend	लाभांश			
Divine displeasure	दैवी प्रकोप			
Divorce	तलाक, विवाह-विच्छेद			
Docket	संचेपाकित करना, संचेप सूची, संचेपांकित			
Doctrine	सिद्धान्त, तत्त्व, वाद, मत			
Document	लेख, दस्तावेज			

Documentary	लिखित प्रमाण, लेरव्यात्मक साक्ष्य, दस्तावेजी
Devidence	साक्ष्य
Documents of title	हक्क दस्तावेज
Doer	कर्ता
Domestic	घरेलू, गाईस्थिक
Domicile	समावास, अधिवास
Domiciled	समावासित, अधिवासी
Dominant	प्रमुख, प्रबल
Dominate	अधिशासित करना, प्रभुत्व रखना
Dominion	डोपीनियन; अधिराज्य; अधिष्ठान
Donate	दान देना
Donation	दान
Donee	आदाता, दान पाने वाला, दानप्रहीता
Donor	दाता, दानी
Do the needful	यथावश्यक करना
Double	दुगुना, दोहरा
Doubt	शक, सन्देह
—, benefit of	सन्देह का लाभ
Doubtful	शंकापूर्ण, सन्देहासपद
Draft	प्रारूप, प्रालेख, मसौदा; प्रारूपित करना, प्रालेखित करना, प्रालेख बनाना, प्रारूप बनाना; धनादेश


— for approval	अनुमोदनार्थ प्रारूप
Drafting	प्रारूपण, प्रालेखन
Draftsman	प्रारूपक, प्रालेखक प्रारूपकार, मानचित्रकार
Drain	नाली, निकास, सोरी
Drainage	जल-निस्सारण, जल-निकास
— works	निस्सारण कर्मान्त
Drastic	कड़ा, कठोर
Draught cattle	वाहक पशु, लदू ढोर, बोझा ढोने वाले पशु
Draw	खींचना, लिखना, निकालना, बनाना
—, bill of exchange	विनिमयपत्र लिखना
—, cheque	चैक लिखना,
—, lottery	लाटरी निकालना
—pay	वेतन लेना, वेतन पाना
— up	तैयार करना
Drawback	कमी, न्यूनता, बाधा
Drawee	चुकाने वाला, सकारने वाला
Drawer	हुएडीकार, लिखिया
Drawing	आलेखन, आलेख्य, रेखाचित्र
— officer	निकासी, पदाधिकारी
Drift	वह जाना, बहाव, लक्ष्य, सुरंग
Drill	सामूहिक व्यायाम, सुराख करना, छेद करना

Drink	पेय, पीना
Drive	आनंदोलन, चलाना, हाँकना
—in state	राजथान पर चलाना
Driver	चालक, चलाने वाला, ड्रायवर
Drought	सूखा, अनावृष्टि
Drug	ओपिधि, भेपज
Druggist	भेपजकार, ओपिधि विक्रेता
Drunkard	पियक्कड़, शराबी
Drunken person	मत्त व्यक्ति
Due	वाकी, देय, पावना, उचित, यथोचित, यथायोग्य, सम्यक, नियत
—course, in	यथा समय
—date	नियत तिथि
—regard, have	उचित ध्यान रखना
—respect, to render	यथेष्ट सत्कार करना
Dues	पावना, प्राप्य धन
Duly	सम्यक् रूप से, यथाविधि, उचित, यथावत, यथोचित, उचित प्रकार से
—authorised	यथाविधि अधिकृत
—stamped	उचित मुद्रिकायुक्त
Dumb	गूँगा, मूँक

Dump	ढेर, सस्ते दाम पर बेचना
Duplicate	दूसरी प्रति, द्विपत्रक
—in	दो प्रतियों में, की दो प्रतियां
Duplicating	प्रतिलिपिकरण
Duplication	दुहराव
Durable	टिकाऊ
Duration	काल, अस्तित्वावधि, अवधि, पदावधि
During	में, बीच, भीतर, पर्यन्त की अवधि में, कालावधि तक
—good behaviour	सदाचार पर्यन्त
—the pleasure of	के प्रसाद पर्यन्त
—the term of office	पदावधि में
Duress	विबाध्यता, दबाव
Duty	कर्तव्य, काम, शुल्क
—, custom	सीमा शुल्क
—, Death	मरण शुल्क
—, estate	सम्पदा शुल्क, सम्पत्ति शुल्क
—, excise	आबकारी शुल्क, उत्पादन शुल्क
—, Export	निर्यात शुल्क
—, Import	आयात शुल्क
—, off	कर्तव्य-विरत, काम से विरत

---

—on	कर्त्तव्यस्थ, काम पर
—stamp	मुद्रांक शुल्क
—succession	उत्तराधिकार शुल्क
Dwell	निवास करना
Dwelling house	निवास गृह
Dwelling place	रहने का स्थान
Dwindle	घटना, कम होना, नाश होना
Dye	रंग, रंगना
Dying	मरते समय का
Dying declaration	मृत्यु कालिक घोषणा
Dynamic	शक्तियुक्त, शक्तिसान
Dynasty	राजकुल, राजवंश



# E

Each	प्रत्येक, प्रति
Eager	उत्सुक
Earliest	शीघ्रातिशीघ्र
— possible	यथासम्भव शीघ्र, शीघ्रतम्
Early	पूर्व, पहिले, शीघ्र, प्राचीन
— orders are solicited	शीघ्र आदेशों की प्रार्थना की जाती है।
Earmark	परिचिन्ह, पृथकरक्षण, आकण्णन, विशेष प्रयोजन के लिये रखना
Earmarked	सुरक्षित, सुचिन्हित, आकण्णित, विशेषांकित
Earn	कमाना, अर्जन करना
Earned leave	उपर्जित अवकाश, अर्जित छुट्टी
Earnest-money	वयाने का धन, साईं की रकम
Ear witness	श्रृतसाक्षी
Easement	सुविधाधिकार, सुरवाचार
Easily	सरलता से, अनायास, सुगमता से
Easing oneself	मलत्याग, शंका निवारण
Easy	सरल, सुगम, सुवोध

---

Easy going	मौजी
Eaves-dropper	आड़ से सुनने वाला
Eccentric	सनकी, भक्की
Ecclesiastic	पाद्री
Echo	प्रतिध्वनी, गूंच
Economic	आर्थशास्त्रीय, आर्थिक, अर्थसन्बन्धी
Economy	मितव्ययता
Edge	धार, किनारा, तट
Edible	खाद्य, भद्य
Edit	राजघोषणा, राजाज्ञा
Edit	सम्पादन करना
Edition	संस्करण
Editor	सम्पादक
Editorial	सम्पादकीय
Educate	शिक्षा देना
Education	शिक्षा, शिक्षण
Educational	शैक्षिक, शिक्षा संबंधी
Educationally	शिक्षा की दृष्टि से
Educationist	शिक्षणविज्ञ, शिक्षणवादी, शिक्षणप्रसारक
Educative	शैक्षणिक, शिक्षण-
Educator	शिक्षक

Efface	सिटाना
Effect	प्रभाव, प्रयोजन, कार्य, परिणाम, फल
—, cause and	कारण और परिणाम
—, to go into	कार्यान्वित होना
—, with, from he takes over charge	उत्तरदायित्व ग्रहण करने की तिथि से प्रभावोत्पादक, प्रभावी, प्रभावयुक्त
Effective	सामान, मालमत्ता
Effects	
Effectual	प्रभावी, सप्रभाव, प्रभावशील होना
Efficiency	दक्षता, कार्यक्षमता, निपुणता, कार्यपदुता, कुशलता
— bar	दक्षता अवरोध, कौशल वाध, पदुता-बन्ध
— of adminis- tration	प्रशासन कार्य पदुता, प्रशासन कार्यक्षमता
Efficient	दक्ष, कुशल, कार्यक्षम
Effigy	पुतला
Effort	प्रयास, प्रयत्न
E. g.	उदा, (उदाहरणार्थ)
Egress	चले जाना, निष्क्रमण
Eject	निष्कासित करना, निकालना, बेदखल करना
Ejected	निष्कासित

Ejection	निष्कासन
Ejectment	निष्कासन, बेदङ्खली
Ejector	निष्कासक
Elaborate	विस्तृत, जटिल, सूक्ष्य
Elapse	बीतना, व्यतीत होता, बीत चुकना, व्यपग्रह्य होना
Elect	चुनना, निर्वाचित करना
Elected	निर्वाचित, चुने हुए
— body	निर्वाचित समिति
Election	निर्वाचन, चुनाव
Electioneer	निर्वाचन कार्य चरना
Electioneering	निर्वाचन कार्य
Election officer	निर्वाचन अधिकारी
—priority	निर्वाचन प्राथम्य
— returns	निर्वाचन विवरण
Elector	निर्वाचक
Electoral roll	निर्वाचक नामावली
Electorate	निर्वाचक मण्डल
Electric	विद्युत्
Electrician	विद्युद्धिद, विजली वाला
Electricity	विद्युत्, विजली
Electrocution	विहनन, विजली की फांसी

Element	तत्त्व, अंश, अंग
Elementary	प्रारम्भिक, मूल
Elevate	उपर उठाना, प्रसन्न करना
Elicit	निकालना, जानना
—opinion, to	सम्मति प्राप्त करना
—reply, to	उत्तर निकालना
—testimony, to	साक्ष्य प्राप्त करना
Eligible	पात्र, योग्य
Eligibility	पात्रता, योग्यता
Eliminate	निकालना, छोड़ देना, अलग करना
Elimination	दूरीकरण, निरसन, अलग किया जाना
Elope	साथ भाग जाना
Elopement	सहृपलायन, भाग जाना
Eloquence	वाक्पुत्रता
Elsewhere	अन्यत्र, और कहीं
Elucidate	विशद करना, स्पष्ट करना
Elucidation	स्पष्टीकरण, विशदीकरण
Elude	वचना, टालना
Emancipate	मुक्त करना, उद्धार करना
Emasculation	नपुन्सक करना
Embank	तट बन्धन करना, बांध बांधना
Embankment	तट बन्ध, बंधन

Embark	नौकारुढ़ होना
Embarkation	नौकारोहण
Embarrass	घबड़ाना, उलझन डालना, संकट में डालना, आकुल करना
Embarrassment	घबराहट, उलझन, अड़चन
Ambassador	दूत, राजदूत
Embassy	राजदूतावास, दूतावास
Embezzle	गवन करना, हड्डप लेना
Embezzlement	गवन, धनहरण
Emblem	ध्वजा, प्रतिक, निशान
Embodied	दिये हुए, संनिविष्ट
Embodiment	साकार, मूर्ति
Embody	रूप देना, एकत्रित करना
Embossed	उभरा हुआ
Embrace	आलिगन करना, अन्तर्निहित करना
Embroidery	कसीदा
Emerge	निकलना, प्रकट होना
Emergency	आसंकाल, आपात
— meeting	आसंकालिक अधिवेशन, आवश्यक बैठक
— order	आसंकालिक आज्ञा
Emergent	आपाती

Emigrant	अपवासी, उत्पासी
Emigrate	अपवासन करना, देश त्यागना
Emigration	अपवासन, उत्प्रवास
Eminent	उत्कृष्ट
Emissary	गुप्तदूत, भेदी, भेदिया
Emolument	परिलाभ, लाभ, उपलब्धि
Emotion	आवेग, सनोविकार
Emotional	भावुक, आवेगसय
Emphasis	जोर
Emphasize	जोर देना
Employ	काम में लाना, सेवायुक्त करना, नियोजिन करना, प्रयोग करना
Employee	कर्मचारी, सेवायुक्त, नौकर
Employer	नियोजक, सेवायोजक, स्वामी, नियोक्ता
Employment	सेवायोजन, सेवायुक्ति, नौकरी
— Exchange	सेवा-नियोजनालय, काम-दिलाऊ दफ्तर
Emporium	विक्रयालय
Empower	शक्ति देना, अधिकृत करना, सशक्ति करना
Empty	खाली, रिवत, शून्य
Enable	सक्षम करना, समर्थ करना
Enabling	समर्थकारी, योग्यकारी

Enact	अधिनियमित करना, विधान बनाना
Enacted	अधिनियमित
Enactment	विधानीकरण, अधिनियमिति
Enblock	एक साथ, इकट्ठे
Encash	भुनाना
Encircle	घेरना
Enclose	संलग्न करना, नस्थी करना बंद करना, साथ भेजना
Enclosure	सहपत्र, संलग्न, वाडा, घेरा
Enclosures	सहपत्र, साथ के पत्र
Encounter	मुठभेड़, भिडन्त
Encourage	प्रोत्साहन देना, प्रोत्साहित करना
Encouragement	प्रोत्साहन
Encroach	रुकावट डालना
Encroachment	अन्याक्रान्त करना, प्रसरण, अन्याक्रान्ति, अतिरोध, अतिचार
Encumber	ऋणाक्रान्त होना, भारप्रस्त होना
Encumbrance	ऋणभार, अभिभार
Encyclopedia	विश्वकोष, ज्ञानकोष
End	अन्त, मृत्यु, समाप्ति
Endanger	भयासपद बनाना, संकट में डालना, संकटग्रस्त करना, संकटापन्न करना

Endeavour	प्रयास, प्रयत्न, प्रयास करना
Ending	समाप्ति
Endless	निरन्तर, अनन्त, अनंतहीन
Endorse	अकित करना, पृष्ठांकन करना, पृष्ठांकित करना समर्थन करना, पुष्टि करना
Endorsed	पृष्ठांकित, अंकित
Endorsee	पृष्ठांकिती
Endorsement	पृष्ठांकना, अकन
Endow	स्थायी, निधिदेना, प्रतिष्ठित करना, प्रदान करना
Endowment	प्रतिष्ठा, धर्मस्व
— Insurance	प्रतिदायी बीमा
— policy	प्रतिदायी बीमापत्र, बन्दोबस्ती बीमापत्र
Eudurance	सहिष्णुता
Endure	सहना, सुगतना
Enemy	शत्रु
Energy	ओज, शक्ति
Enforce	पालन करना, विवश करना, बाध्य करना, लागू करना
Enforcement	प्रवर्तन, पालन, बाध्य करना, प्रचलित करना
Enfranchise	मुक्ति करना, मताधिकार देना
Enfranchisement	मताधिकारीकरण, मताधिकार

Engage	वचनबद्ध करना, लगाना
Engagement	संगई, कार्यनियुक्ति, घन्धन
Engine	अंजन
Engineer	यांत्रिक, अभियन्ता, शिल्पज्ञ
Engineering	यन्त्र-शास्त्र, आभियान्त्रिकी, शिल्प शास्त्र
Engrave	उक्तीर्ण करना, खोदना
Enhance	वृद्धि करना, बढ़ाना
Enhancement	वृद्धि, वर्धन, बढ़ती
Enjoin	आदिष्ट करना, न्यायनिषेध करना, संशासित करना
Enjoyment	उपसोग, आनंद मनाना
Enlarge	परिवर्द्धित करना, विस्तृत करना, बड़ा करना
Enlargement	परिवृद्धि, परिवर्द्धन
Enlist	सूचि में प्रविष्ट करना, नाम लिखना, भरती करना, प्राप्त करना
Enlistment	नामलेखन, भरती
Enmity	शत्रुता
Enormous	प्रचुर, अपरिमित, विपुल, भीषण
Enough	पर्याप्त
Enquiry	जांच, पूछताछ, जांच-पड़ताल
Enrich	धनी बनाना, समृद्ध बनाना

Enrol	लेखांकित करना, भरती करना, नाम लिखना
Enrolment	नामांकन, भरती
Enroute	मार्ग में, अनुमार्ग
Ensue	पीछे होना, पीछे आना
Ensuing	आगामी
Ensure	सुनिश्चित करना, पक्का करना
Entail	क्रमनिर्देशन, समावेश होना, आवश्यकता होना
Entangle	उलझाना, फँसाना
Enter	घुसना, प्रवेश करना, प्रारंभ करना
Enterprise	उपक्रम, उद्यम, साहस
Entertain	आमोदित करना, विचार करना, सत्कार करना, लेना, ग्रहण करना
Entertainment	सत्कार, आमोद प्रमोद, मनोरंजन
Entice	परिलोभित करना, फुसलाना
Enthusiasm	उत्साह
Enthusiastic	उत्साहपूर्ण
Entice	फुसलाना, बहकाना, प्रलोभित करना
Enticement	प्रलोभन, फुसलाना
Entire	समस्त, सम्पूर्ण
Entitle	स्वत्वधारी होना, अधिकारी होना, हक होना, नाम रखना, उपाधि देना

Entitled	उपाधियुक्त, अधिकारी
Entomological	अधिकृत, स्वत्वप्राप्त, हकदार
Entomologist	कीटशास्त्रीय
Entomology	कीट-विज्ञान
Entrance	प्रवेशद्वार, प्रवेश
Entrust	सौंपना, विश्वास करना, न्यस्त करना
Entry	प्रविष्टि, प्रवेश, दाखला
Enumerate	गिनना
Enumerated	परिगणित, गिने गये
Enumeration	परिगणना, गिनती
Enumerator	प्रगणक
Enunciate	प्रतिपादन करना
Envelope	लिफाफा, आवरण
Environment	वातावरण
Envoy	कार्यकर, राजदूत,
Envy'	ईद्या
Ephemeral	अल्पकालिक
— roll	अल्पकालिक नामावली
Epidemic	महामारी, व्यापक, संक्रामक
Epidemiological	व्यापक रोगों से संबंधित, रोगव्यापिकीय

Episode	उपकथा, मार्मिक घटना, उपरच्यान
Epitaph	समाधि-लेख
Equal	वरावर, समान, तुल्य
Equality	समता, साम्य, समानता
Equalize	समान करना, सम करना
Equate	वरावरी पर लाना, समीकरण
Equation	समीकरण
Equator	भूसंध्यरेखा
Equilibrium	संतुलन, समतोल, साम्य
Equip	सुसज्जित करना, सजाना
Equipment	सुसज्जीकरण, सज्जा, सामग्री, लवाजमा, उपकरण, साज सामान
Equitable	युक्त, युक्तिपूर्ण
Equity	समन्याय, साम्य, अपक्षपात
— justice, and good conscience	समन्याय, न्याय और सद्विवेक
— of justice	न्याय का अपक्षपात, न्याय की निष्पक्षता
Equivalent	सम, समान, तुल्य, समतुल्य करना
Era	संवत्, युग
Eradicate	विनष्ट करना, उन्मूलन करना
Eradication	उन्मूलन
Erase	मार्जन करना, मिटाना, छीलना

Erasure	मार्जनी, उद्धर्पण, काट-छाँट, छिलावट
Erect	बनाना, निर्माण करना, खड़ा करना
Erection	परिनिर्माण, खड़ा किया जाना
Erosion	क्षय, कटाव, जल द्वारा कटाव
Err	भूल, विश्रम
Errata	अशुद्धिपत्र
Erroneous	भूलयुक्त, अशुद्ध, गलत
Erroneously	भूल से, अशुद्ध रूप से
Error	भूल, चूक, अशुद्धि
Errors and omissions	भूल चूक, त्रुटियाँ एवं परित्यक्तियाँ
Escape	निकल पड़ना, बचना, पलायन करना, भाग निकलना
Escheat	राजगमन, राजगमी होना
Escort	अनुरक्षक, मार्गरक्षक, पथरक्षी
—, under	अनुरक्षा मे
Especially	विशेषत
Essence	सार, मूलवस्तु, वास, अर्क, तत्व
Essential	परमावश्यक, अव्यावश्यक, सारभूत
Establish	स्थापित करना, संस्थापन, प्रमाणित करना, सिद्ध करना

Established	स्थापित, सुस्थित
—fact	प्रमाणित तथ्य
Establishment	स्थापन, कर्मचारीवर्ग, स्थापना
— charges	स्थापना प्रभार, स्थापन व्यय
— section	स्थापना उपविभाग, स्थापन शाखा
Estate	भूसम्पदा, ठिकाना, सम्पदा, सम्पत्ति
— duty	सम्पदा शुल्क, सम्पत्ति शुल्क
Estimate	प्राक्कलन, अनुमान, आंक, प्रक्कलन करना अनुमान करना, आंकना
—, revised	पुनरीक्षित अनुमान
Estimated	प्राक्कलित, अनुमित, आंका
Estimation	प्राक्कलन, अनुमान, आदर, सम्मान
Estop	विवन्ध करना, स्तम्भित करना
Estopped	स्तम्भित, रोका हुआ
Estoppel	स्तम्भन, रुकावट, प्रतिरोध, रोक
Estray	भूला भटका, विभ्रान्त
Etcetera (etc.)	इत्यादि, आदि
Ethics	शीलाचार, आचार शास्त्र, नीतिशास्त्र
Evacuate	खाली करना, विरचित करना
Evacuation	स्थानत्याग, निष्क्रमण
Evacuee	निष्क्रान्त, निष्क्रमणार्थी
— property	निष्क्रान्त सम्पत्ति

Evade	वचना, टालना
Evasion	टालमदूल
Evaluate	मूल्यांकन करना
Evaluation	मूल्य-निर्धारण
Even	समतल, सम, पक्षपात रहित
— aged	समवयस्क
— justice	समन्वय
— number	समसंख्या
Event	घटना, परिणाम
Eventful	घटनापूर्ण
Eventual	अन्तिम, अनुवर्ती
Eventually	अन्ततः
— remedy	अन्तिम उपचार
Ever	सदैव, हमेशा
Everlasting	चिरस्थायी
Every	प्रत्येक
— body	प्रत्येक व्यक्ति
— dry	साधारण
— one	प्रत्येक व्यक्ति
— thing	सब वस्तुएँ
— where	सब जगह
Evict	निराकृत करना, निकालना

Eviction	निराकृति, अधिनिष्कासन, वेदखली
Evidence	साक्ष्य
Evident	सुर्पष्ट
Evidently	स्पष्टत
Evil	दुष्टता, पाप, बुराई
Evitable	परिहरणीय
Evocation	आहवान
Evolve	प्रस्तुत करना
Ex	भूतपूर्व
Exact	यथार्थ, ठीक, वलपूर्वक लेना
—reference	ठीक ठीक निर्देश
Examination	परीक्षा, पड़ताल, पृच्छा
—, cross	प्रति पृच्छा, जिरह
—, in, chief	मुख्य पृच्छा, मुख्य परीक्षण
—, re	पुन पृच्छा
Examine	परीक्षा लेना, जांच करना
Examiner's report	परीक्षक का विवरण
Example	उदाहरण
Excavation	खुदाई, उत्खात
Exceed	अधिक होना, बढ़ जाना, से बढ़ना
Exceeding	अधिक

Excellency	परमश्रेष्ठ
Excellent	श्रेष्ठ
Except	जब तक कि, के अतिरिक्त, के बिना वर्जित करना
—as otherwise provided	अन्यथा आदिष्ट किये गये के अतिरिक्त आदिष्ट होने के अतिरिक्त
— as provided	
Excepted	वर्जित
Exception	वर्जन, अपवाद
Exceptional	अपवादिक, अपवादात्मक, असाधारण, असामान्य
Excess	अधिक्य, अति, अतिरिक्त
Excessive	अत्यधिक, अतिसात्र
Exchange	विनिमय, विनिमय करना
— of opinion	विचार-विनिमय
Exchequer	राजकोप
Excise	उत्पादन, आवकारी
— duty	उत्पादन शुल्क
Excite	उत्तोलित करना, उभारना, प्रदीपन, खड़काना
Excitement	उत्तेजना, प्रदीपन
Exclude	पृयक करना, छोड़ना, निष्कासन करना, बाहर रखना, निकाल देना, अपवर्जन करना

Exclusion	बहिष्करण, अपवर्जन,
Exclusive	केवल, मात्र, अनन्य
— jurisdiction	अनन्य देव्राधिकार
— power	अनन्य शक्ति
Exclusively	अनन्य, केवल, पूर्णरूपेण
Exclusive of	को छोड़ते हुए
Excommunicate	जाति बहिष्कार करना
Exculpate	निर्दोष सिद्ध करना, दोष मुक्त करना
Excuse	बहाना, क्षमा करना, मुक्त करना
Excute	निष्पादन करना, लिख देना, लिखना, फांसी देना, कार्यपालन करना
Executant	संपादन कर्ता
Execution	निष्पादन, फांसी, सम्पादन, प्रत्तिवन
— proceedings	प्रवर्त्तन कार्यवाही
Executive	निष्पादक, कार्यपालिक, कार्यकारी, कार्यपालिका, कार्यांग, प्रबन्धकारिणी
— committee	कार्यकारिणी समिति
— engineer	कार्यपालिक अभियन्ता, कार्यकारिक शिल्पज्ञ
— officer	कार्यपालिक पदाधिकारी
— power	कार्यपालिका शक्ति
Executor	कार्यपालक

Exemplary	निर्दर्शनात्मक, शिक्षात्मक
Exempt	मुक्त, मुक्त करना, छूट देना
Exemption	मुक्ति, छूट
Exercisable	प्रयोज्य, प्रयोग की जाने वाली
Exercise	प्रयोग करना, प्रयोग में लाना, करना
— of power	शक्ति का प्रयोग
Exertion	प्रयास
Exhaustive	पूर्ण, विस्तृत
Exhibit	प्रदर्शन, प्रदर्शनीय वस्तु, प्रदर्शित करना, दिखलाना, उपस्थित करना
Exhibition	प्रदर्शनी, प्रदर्शन
Exhort	उत्साहित करना, प्रवोधित करना
Exigency	अत्यावश्यकता, अपेक्षा
Exile	दैश निकाला, निर्वास
Exist	अस्तित्व होना
Existing	विद्यमान, मौजूदा
Exit	निष्क्रमण, बहिर्गमन-द्वार
Ex-officio	पदेन, पदकारणात्
Exonerate	भारमुक्त करना, दोपमुक्त करना
Exorbitant	अत्यधिक
Expand	विस्तरण, विस्तारण, विस्तार करना

Expansion	प्रसारण, विस्तार
Ex parte	एक पक्षीय, एक तरफा
Expatriation	देश निकाला
Expedient	उचित, लाभप्रद, व्यावहारिक, इष्टानुकूल
Expedite	शीघ्रता करना
Expedition	अभियान, चढ़ाई
Expenditure	व्यय, खर्च
—, contingent	समाध्य खर्च
—, recurring	आवर्ती व्यय
Expense	खर्च, परिव्यय
Experience	अनुभव
Experiment	प्रयोग, परीक्षण
Experimental	प्रयोगात्मक
Expert	विशेषज्ञ, विशारद, प्रवीण दक्ष
—committee	विशेषज्ञ समिति
Expiration	अवसान, समाप्ति
Expire	समाप्त होना, अवसान होना, देहावसान होना, मरना
Expiry	समाप्ति, अवसान
Explain	व्याख्या करना, स्पष्ट करना, स्पष्टीकरण करना
Explanation	व्याख्या, स्पष्टीकरण


## Explanatory

Statement	स्पष्टीकारक कथन, स्पष्टीकारक वृत्तान्त
Exploitation	शोपण, पूर्वक्षण, लारासाधन
Exploration	खोज, समन्वेपण
Explosion	विस्फोट, धड़ाका
Explosive	विस्फोटक
Export	निर्यात करना, निर्यात
Expose	अभिदर्शित करना, दिखाना, प्रकाशित करना, प्रकाश डालना
Ex post facto	पश्चात कारणात कार्योत्तर
Express	व्यक्त करना, प्रकट करना, रप्त, निश्चित, अतिशीघ्र
Expression	अभिव्यक्ति, वाक्य, पद
Expressly	स्पष्टतया, अभिव्यक्त रूप से, शीघ्र, आशु
Expropriate	सम्पत्ति हरण
Exproprietary	पूर्व स्वामित्व
Expulsion	निकाला जाना, निष्कासन, निर्वासन
Expunge	निकालना, बिलुप्त
Extend	विस्तार करना, विस्तृत करना, बढ़ाना, फैलाना, प्रसार करना
Extension	विस्तार, प्रस्तार

Extent	सीमा, विस्तार, मात्रा, प्रभाव
Exterior	वाहरी
Extern	निर्वासन
External	वाह्य, बाहरी, वैदेशिक
—affairs	वैदेशिक कार्य
Extinguish	शमन, बुझाना, उपशमन, परिशमन
Extort	बलात लेना, ऐंठना, निकलवाना
Extra	समअधिक, अतिरिक्त, और
Extract	उद्धरण, अवतरण, सार
Extra-curricular	पाठ्यातिरिक्त, पाठ्यक्रम, वाह्य
Extradition	प्रत्यपर्ण
Extra-judicial	न्यायातिरिक्त
Extra-ordinary	असाधारण
—issue	विशेषांक
Extra-territorial	राज्यक्षेत्रातीत
Extravagance	अपब्यय
Extravagant	अपब्ययी, अत्यधिक
Extreme	चरम, नितान्त, अन्तिम, परम
Extremity	चरमसीमा

---

Exuberance	प्राचुर्य, प्रचुरता, आधिक्य
Exuberant	परिपूर्ण, समृद्ध
Exuberantly	प्रचुरता से
Exultant	प्रसुदित, परम प्रसन्न
Eye	चक्षु, आंख, हष्टि, समक्षता, छोटा छिद्र
— estimate	हष्टि अनुमान, देखकर अनुमान
— sight	हष्टि, हष्टि-शक्ति
— specialist	नेत्र-विशेषज्ञ
— witness	कर्मदर्शी, कर्मसाक्षी, प्रत्यक्षी



	F
Fabric	ढांचा, तन्तु, कपड़ा, वस्त्र
Fabricate	गढ़ना, अभिरचना करना, मिथ्या रचना करना, निर्माण करना
Fabricated	कृष्ट, बनावटी, गढ़ा हुआ
Face	मुख, चेहरा
—value	प्रत्यक्ष मूल्य, लिखित मूल्य, अंकित मूल्य
Facilitate	सुगम करना, सुविधा देना, सरल बनाना
Facilitating	सुगम बनाना
Facility	सुगमता, सुविधा
Facing	सम्मुख भाग, सामने
Facsimile	प्रतिरूप, प्रतिलिपि, अनुलिपि
Fact	तथ्य, वस्तुस्थिति, घटना
—in issue	वादपद्धति तथ्य, विवादप्रस्त घटना, निर्णय तथ्य
Factor	आठतिया, घटक, अवयव, खण्ड
Factory	कारखाना, निर्माणी, निर्माण-शाला
Facts and figures	तथ्य तथा आंकड़े
Fact al	तथ्यात्मक, तथ्यसंबंधी
Faculty	शक्ति, क्षमता, योग्यता
Fade	मुर्खाना, कम होना

Fag end	अन्तिम भाग, अन्तान्त
Fail	विफल होना, असफल होना, न होना, चूकना, अवहेलना करना
Failure	विफलता, असफलता, अभाव
—of justice	न्याय की विफलता
Fainting	मूच्छा, मूर्छित होना
Fair	न्यायोचित, सत्य, मेला, स्वच्छ, सुन्दर, स्पष्ट
—election	निष्पक्ष चुनाव
—sex	स्त्री जाति
Fair-weather road	मौसमी सड़क
Faith	भरोसा, निष्ठा, धर्म, विश्वास, श्रद्धा
—, in good	सद्भावना-पूर्वक
Faithful	निष्ठावान
Faithfully	श्रद्धापूर्वक, सद्दृढ़दय से
—, Yours	आपका विश्वसनीय, भवदीय, भवशिष्ट
Fall	पतन, पतझड़, मन्दी, उतार, गिरना, पतन होना
Fallacious	भ्रांतिकारी, सदोष
Fallacy	अन्ति
Falling due	शोध्य होने वाले
Fallow	बंजर, पड़ती, पड़त

False	झूठा, मिथ्या
document	मिथ्या दस्तावेज
entry	मिथ्या लेख, मिथ्या प्रविष्टि
imprisonment	अनधिकृत कोरावास
information	मिथ्या सूचना
instrument	खोटे उपकरण
sample	नकली नमूना
statement	मिथ्या कथन
weight	खोटे बाट
Falsification	मिथ्याकरण, अशुद्धीकरण
Fame	प्रसिद्धी, यश, कीर्ति, ख्याति
Familiar	परिचित
Family	परिवार, कुटुम्ब, कुल
Famine	दुर्मिक्ष, अकाल, दुष्काल
Fanatic	धर्मान्ध, धर्मान्सत्त, कटूर
Fancy	कल्पना, रुचि, भ्रम, आसक्ति, विचित्र, मनोहारी, आकर्षक
— goods	रुचिर वस्तुएं, मनोहारी वस्तुएं
— franchise	काल्पनिक मताधिकार
— price	मनसाना मूल्य
Farash	फराश

Fare	किराचा, भाड़ा
Farewell address	विदाई पत्र
Farm	क्षेत्र, खेत
Farmer	कृषिकार, कृषक, किसान
Farming	कृषि, खेती, खेत का प्रबन्ध
Farthest	दूरतम्
Fascinate	मोहित करना, आकर्षित करना
Fashion	चलन, ढंग, माज-सिगार, मज-धज
Fast	तेज, पक्का, स्थिर, उपवास, अनशन करना
Fasten	वांधना, जकड़ना, बन्द करना
Fatal	घानक
Fate	भाग्य
Fatigue	थकावट, परिवर्त
Fatten	सोटा करना
Fault	दोष, अपराध, त्रुटि
Faulty	दोषपूर्ण, सदोष
Favour	अनुग्रह, पक्षपात, कृपा
—, in	पक्ष में
Favourable	अनुकूल
Favourably	अनुकूल रूप से
Favoured	अनुगृहीत, पक्षपात किया

Favourite	स्नेहपात्र, प्रियपात्र
Favouritism	पक्षपात
Fear	भय, डर
Feasible	साध्य, शक्य
Feature	आकृति, लक्षण, रूप
Federal	संघीय, संघ, फेडरल
Federation	संघ
Fee	शुल्क, देच, फीस
Feed	सहारा देना, आश्रय देना, प्रदाय
Feeling	भाव, धारणा
Feign	वहाना करना, स्वांग करना
Felicitate	अभिनन्दन करना
Fell	गिराना
Felony	महाअपराध
Female	नारी, स्त्रीसम्बन्धी
Felting	भराई, नमदा बनाना
Fence	बाड़, बाड़ लगाना
Ferocious	भयंकर, क्रूर
Ferrow-frame	लोहे का ढांचा
Ferry	नौकाघाट, नौघाट
—boat	तरणी, नाव

Fertile	उपजाऊ, उर्वर
Fertiliser	उर्दरक
Fete	संभोज, भोज, पर्व
Feud	कुलवैर, पीढ़ीजान वैर
Feudal	सामन्तिक, सामन्त
Feudalism	सामन्तवाद
Fictitious	अव्याप्तिक, बनावटी, काल्पनिक
Fidelity	चिश्वमनीयता, चिश्वलता, स्वामिभन्नित
Fiduciary	न्यासिक, न्यासदान, चिश्वासश्रित
—character	न्यासदान, हेमियत
—relation	न्यायसदान, संबंध, प्रत्यत्वी सद्ध
Fierce	भयानक, प्रचंड, घोर
Fight	लडाई, लड़ना
Figure	आकृति, चित्र, मूर्ति, आंकड़ा, अक
Figures	आंकड़े
File	सिसिल, फाइल, फाइल करना, नत्थी करना
	प्रस्तुत करना
Filing	नस्तीकरण
Film	फिल्म, चलचित्र, चित्रपट, छायाचित्र
Filth	मल, कचरा
Final	आखिरी, अतिम, चरम
Finalise	अन्तिम रूप देना, निश्चय करना

Finality	अन्तिमता, परमता
Finance	अर्थ, अर्थ-व्यवस्था, वित्त
—Commission	वित्त आयोग
Financial	वित्तीय
—bill	वित्तीय विधेयक
—matter	वित्तीय विषय
—obligation	वित्तीय भार, वित्तीय दायित्व
—stability	वित्तीय स्थायित्व
—year	वित्तीय वर्ष
Find	उत्पत्ति करना, पाना, ढूँढना
Finder	पाने वाला
Finding	निष्कर्ष, पाना, निश्चय
Fine	जुर्माना, अर्थदरड, उत्तम, अच्छा, सुन्दर
Finger print	अंगुली चिन्ह, अंगुलांक
Finish	समाप्त करना, पूर्ण करना
Finished goods	निर्मित वस्तुएँ
Finishing	पूरणीकरण
Fire	आग, अग्निकांड, गोली चलाना
—brigade	अग्निदल
Firm	ठोस, सुदृढ़, पक्षा, फर्म
Firmly	दृढ़तापूर्वक

First	प्रथम, पहिला
—aid	प्रथम सहायता, प्रथमोपचार, प्रारंभिक उपचार
—reading	प्रथम वाचन
Firstly	प्रथमतः
Fisc	राजकोप
Fiscal	राजकोषीय, आयात-निर्यात कर संबंधी
Fisheries	मत्स्योदयोग
Fishery	मीन-ज्ञेत्र
Fist	घूसा, मुखा, घूसा मारना
Fit	योग्य, अनुस्पष्ट, लायक, उचित, ठीक वैठाना, जमाना
Fitness	उपयुक्तता, योग्यता, स्वस्थता
Fix	निश्चित करना, नियत करना, चिपकाना, गाड़ना, ठोकना
Fixation	नियतीकरण, स्थिरीकरण
—of pay	वेतन-निर्धारण
Fixed	नियत, निश्चित, स्थिरीकृत, स्थायी
Flagrant	अतिघोर, स्पष्ट
Flare up	भड़क उठना
Flat	चपटा, समतल, वासखण्ड

Flatter	चाढ़कारी करना, चापलूसी करना
Fleet	नौवाहिनी, जहाजी बेड़ा
Flight	पलायन, उड़ान
Float	प्रारम्भ करना, बहना, तैरना, अल्पकालिक, चालू
Flogging	कोड़े मारना
Flood	बाढ़
—lighting	प्रकाशाप्लवन्त, ओघ-प्रकाशन
Floor	गृहतल, भूमि, भूमितल
Flour	आटा
Flourish	समृद्ध होना, बढ़ना
Fluctuate	चढ़ाव-उतार होना
Fluctuation	चढ़ाव-उतार, परिवर्तन, अस्थिरता
Fluency	प्रवाह
Focus	किरण केन्द्र, केन्द्रित करना
Fodder	चारा, घास
Foe	वैरी
Foetus	गर्भ
Foil	विफलता, विफल करना
Fold	मोड़ना, घंड़ी करना
Folio	पृष्ठ, पन्ना
Follow	अनुसरण करना; अनुसरण, पीछा करना

Followed, to be	अनुसरणीय
Following	निम्नलिखित, निम्र, आगामी, निम्नवर्ती, उत्तरवर्ती, अनुसरण
Foment	उकसाना, भड़काना, सेकना
Food	भोजन, खाद्य
Food-grains	खाद्यान्न
Foot-note	पाद टिप्पणी
Foot-path	पगड़रड़ी
Fondness	आसक्ति, अनुराग, ममता
For	के लिये
—account of	तद्वय
—approval	अनुमोदनार्थ
— consideration	के प्रतिफल
— disposal	निवटाने के लिये
— ever	सदा के लिये
— example	उदाहरणार्थ, उदाहरणस्वरूप
— general	
information	सर्वसाधारण की जानकारी के लिये
—information	सूचनार्थ
—kind and favour able consideration	सद्य तथा सानुकूल विचार के लिये

— orders	आज्ञार्थ
— public good	जनहिताय, जनहितार्थ
— public purposes	लोक प्रयोजनार्थ
— signature	हस्ताक्षरार्थ
— the purpose	एतदर्थ, प्रयोजनार्थ
— want of	के अभाव में
Forbear	प्रविरत रहना, सहन करना, सहना
Forbid	निपेध करना, मना करना
Forbidden	वर्जित, निपेधित, निपिछ
Force	वल, शक्ति, लागू करना, थोपना, मढ़ना
Forced labour	बलात श्रम, बेगार
Forceful	प्रभावयुक्त, प्रभावी
Forcibly	बलपूर्वक, बलात्
Forecast	पूर्वनिरूपण करना, पूर्व अनुमान करना, दूरदर्शिता, पूर्व विचार
Fore-close	मोचन निपेध करना
Foreclosure	मोचन निपेध, प्रतिबंधन
Foregoing	पूर्वगामी, पूर्ववर्ती, पूर्वगत
Foreign	विदेशी, वैदेशिक, विदेशीय
— exchange	विदेशी विनियम

—judgment	विदेशी निर्णय
—policy	विदेश नीति
—Secretary	परराष्ट्र सचिव
—service	विदेश सेवा, वाल्य सेवा
—State	विदेशीय राज्य, विदेशी राज्य
Forejudge	पूर्वनिर्णय करना
Fore-limb	पूर्वांग अंगपाद
Foreman	अग्रणी, अग्रवाही
Foremost	सर्वोपरि
Forenoon	पूर्वाह्न, पूर्वाह्नण
Foresee	पूर्ववौध करना
Forest	बन, जंगल
Forester	बनाविकारी
Forest guard	बन रक्षक
Forest Ranger	बन पाल
Forestry	बन-विद्या
Forest settlement	बन बनावस्थापन
Foreword	प्राक्कथन
Forfeit	अधिश्वेशित होना, अपहृत करना, जब्त करना
Forfeiture	जब्ती

Forge	कूट रचना करना, जाली लेख बनाना
Forged	कूटरचित, जाली
—document	कूटरचित, दस्तावेज
— seal	कूटरचित मुद्रा
Forgery	कूटरचना, जालसाजी
Forget	भूलना
Forgive	क्षमा करना
Form	बनाना, निर्माण करना, प्रपत्र, प्ररूप, आकृति, स्वरूप
Formal	औपचारिक, नियमानुसार, वैधिक, यथारूप, यथाचार
—orders	औपचारिक आज्ञाएँ
Formally	यथारूपेण, औपचारिक रूप से
Formation	निर्माण, रचना, घटना
Formed	रचित, घटित, निर्मित
Former	पूर्व, पहला, पूर्ववर्ती
Formerly	पूर्वकाल में, पहिले
Formula	सूत्र
Formulate	व्यवस्थित करना, बनाना

For the time

being	तत्समय, तत्कालार्थ
— in force	तत्समय प्रवृत्त
Forthwith	तत्काल, सुरक्षा, अविलम्ब
Fortnight	पक्ष, पञ्चवारा
Fortnightly	पादिक्षिक
Forum	अधिकारण, न्यायाधिकारण, स्थल, वादस्थल, वादसभा
Forward	आगे बढ़ाना, अग्रसर करना, अग्रप्रेपित करना, आगे भेजना, पुनः प्रेपित करना, अग्रंगामी, प्रगतिशील
Forwarded	आगे भेजा गया, अग्रप्रेपित
Forwarding note	अग्रप्रेपक टिप्पणी
Fossil	जीवावशेष
Foul	गंदा, घृणित, कपटमूर्ख
Fouling	गंदला करना
Foundation	नींव, आधार, प्रतिष्ठापन, संस्थापन
—, laying	शिलान्यास
Founder	प्रवर्तक, संस्थापक
Founded	प्रतिष्ठापित

Foundry	ढलाई घर
Four corners	पूरा, सम्पूर्ण, समस्त, समग्र
Fraction	अंश, भिन्न, प्रभाग, खण्ड
Fractional	आंशिक, भिन्नात्मक
Fracture	अस्थिभंग
Fragment	टुकड़ा, खंड, अपखण्ड
Fragmentary	खण्डमय, खण्डित
Fragmentation	अपखण्डन
—of holdings	खातों की विखण्डीकरण
Frame	रचना, चौखटा, विरचित करना, बनाना, रूपरेखा तैयार करना
—a charge, to	अपराधारोप करना, आरोप लगाना
Franchise	मताधिकार
Fraternity	आत्मभाव, वन्धुभाव, वन्धुता
Fraud	कपट, घोखा
Fraudulent	सकृष्ट, छलपूर्ण, कपटपूर्वक, घोखा देने वाला
—conveyances	कपटपूर्ण अभिहस्तान्तरण
—transfer	कपटपूर्ण हस्तान्तरण
Fraudulently	कपटपूर्वक, घोखे से
Free	मुक्त, उन्मुक्त, स्वतंत्र, निश्शुल्क

—competition	उन्मुक्त प्रतियोगिता
—consent	स्वतन्त्र सहमति
—hold	उन्मुक्त भूस्थिकार, माफी
—from	
encumbrances	अभिभार सुकृत
—of charge	प्रभार सुकृत
—of tax	कर सुकृत
— will	स्वतन्त्र इच्छा, स्वेच्छा
Freedom of	
speech	वाक स्वातन्त्र्य
Freeze	निश्चलित करना, लड़ीकरण करना
Freezing	स्तम्भन, अन्तरावरोध, निश्चालन, लड़ीकरण
Freight	भाड़ा, भार, वरतु-भाड़ा
Fresh	नया, ताजा, नृतन
—deposit	नव निक्षेप
—receipt	नई प्राप्ति
Friction	संघर्ष, घर्षण, मनमुटाव
Frivolous	तुच्छ, अनर्थक, असार, चढ़ा
From	से
— generation to	
generation	परम्परागत

— the beginning	आरम्भत, आरम्भ से
— time to time	समय समय पर
— year to year	वर्षानुवर्ष
Frontier	सीमान्त
Frugal	मितव्ययी
Frustrate, to	हताश करना, भंग करना
Fulfil	पूरा करना, पालन करना, पूर्ण करना
Fulfilment	पूर्ति, पालन
Full	पूरा, पूर्ण
—age	पूर्ण वयस
—Bench	पूर्ण न्यायपीठ
— blood	सगापन, सौंदर्य
— time	पूर्णकालिक, पूर्णकाल
Fully and completely	परिपूर्णतया, सर्वांग पूर्णरूप से
Function	कृत्य, कार्य, काम, उत्सव, समारोह
Fund	निधि, कोष
—, depreciation	अवक्षय कोष, टूट-फूट निधि
—, sinking	निच्छेप निधि
Fundamental	मूलभूत, मौलिक
— rights	मूल अधिकार

— rules	मूल नियम, मूलभूत नियम
Funeral	अन्त्येष्टि, अन्तिम क्रिया, शवयात्रा
— ceremony	अन्त्येष्टि संस्कार
— rites	अन्त्येष्टि क्रिया
Furious	कुछु, उत्तम, प्रकुपित
Furnish	प्रस्तुत करना, प्रदान करना, सजाना, सुसज्जित करना
— information	जानकारी देना
Furniture	उपकरण, सामान, सज्जा, फर्नीचर
Further	अग्रेतर, आगे बढ़ाना, अधिक, और भी, और, आगे
— consideration	अग्रेतर विचार
— enquiry	अग्रेतर अनुशीलन, आगे जांच
Futile	निरर्थक, निस्सार
Future	भावी, भविष्य
— debt	भावी ऋण
— delivery	आगामी अभिदान
— maintenance	भविष्य भरण-पोषण
— property	भावी सम्पत्ति

# G

Gain	लाभ, अभिलाभ, अर्जित करना, प्राप्त करना
Gallery	दीर्घा, गैलेरी, दर्शकदृन्द
Gallows	बधस्तम्भ, फांसी का खंभा, बध
Gam	जुआ खेलना, जुआ
Gambler	जुआरी
Gambling	जुआ, दूत
Game	खेल, आखेट, जुआ
—preserve	आखेटोपवन, आखेट-शरण्य
Gang	गिरोह, दल, टोली
Garb	पोशाक, वेष
Garment	वस्त्र, कपड़ा
Garnishee	प्राधर्मण, ऋणी का ऋणी
Garrison	रक्षक-सेना, दुर्ग-सेना
Gas	घाति, गैस
Gasmask	गैस, कवच
Gate	फाटक, द्वार, कवाट
Gateway	प्रवेश द्वार, मुखद्वार
Gather	एकत्रित करना, अनुमान करना, इकट्ठा करना
Gauge	पैमाना, आंकना, अनुमान लगाना

Gazette	गजट, राजपत्र
— notification	राजपत्र-अधिसूचना
Gazetted	राजपत्रित, गजटकृत
— holiday	राजपत्रित छुट्टी
— officer	राजपत्रित अधिकारी
— post	राजपत्रित पद
— service	राजपत्रित नेवा
Gazetteer	विवरणिका, गजेटियर
Genealogical	वंश-वृक्ष
Genealogy	वंशावली
Geneocide	जातिसंहार
General	सामान्य, सर्वसाधारण, व्यापक
— administration	सामान्य प्रशासन
— character	साधारण लक्षण, मामान्य रूक्षाति
— Clauses Act	साधारण परिभाषा अधिनियम
— discussion	सामान्य चर्चा
— election	सामान्य निर्वाचन, साधारण निर्वाचन
— good	सार्वजनिक द्वित
— Manager	मद्दाप्रबंधक, सर्व-प्रबन्धक
— public	सर्वसाधारण
— Secretary	मद्दामचिव
Generalization	सामान्यकरण, सामान्यदर्शन
Generally	सामान्यत, साधारणतया, प्रायः
Generality	व्यापकता

Generate	पैदा करना, जनन, संतति
Generation	पीढ़ी, उत्पादन, जनन
Generator	जनक, जनित्र, उत्पादन- यन्त्र
Generosity	उदारता, दानशीलता
Genital	जननेन्द्रिय, जनन
Genius	प्रतिभा, प्रतिभाशाली
Gentry	सज्जनवर्ग, भद्र पुरुष
Genuine	अकृत्रिम, वास्तविक, यथार्थ, सही, असली
Genuineness	यथार्थता, असलीपन, विशुद्धता
Geologist	भूगर्भशास्त्री, भौमिकीविज्ञ
Geology	भूगर्भशास्त्र, भौमिकी
Germ	रोगाणु, कीटाणु
Gesture	चेष्टा, संकेत
Get	प्राप्त करना, पाना, लाना
— nipped	कटवाना
— rid of	छुटकारा पाना
Getup	सुसज्जा
Giant	अतिकाय, महा, भीम
Gift	उपहार, परिदान, भेट, दान
— made in contemplation of death	मरणोन्मुख परिदान

—of nature	प्रकृति की देन
Gigantic	अतिकाय, विराट
Girl Guide	बालचारिका, पंथशिका
Girth	परिधि, गोलाई
Gist	सारांश
Give	देना, उत्पन्न करना
— a blow	प्रहार करना
— an account	लेखा देना
— authority to	प्राधिकार देना
— effect	कार्यान्वित करना, प्रभावित करना
— up	परित्याग करना, छोड़ देना
Given under my hand	मेरे हस्ताक्षर से दिया गया
Glance	इष्टिपात
Glaring	भयकर, अतिस्पष्ट
Gloom	विपाद
Gold exchange standard	स्वर्ण विनियम प्रमाप
Good	अच्छा, समुचित, साधु, सु, सद्-हित, कल्याण
— and bad	अच्छा और बुरा, सद्-असद्
— behaviour	सदाचार, सद्-व्यवहार
— books in one's	की कृपा होना, का कृपापात्र होना

— cause	समुचित कारण, अच्छा कारण
— character	सुचरित्र
— conduct	
allowance	सदाचरण-भत्ता
— conscience	शुद्ध अन्त करण
— consideration	समुचित प्रतिफल
— faith	सद्भाव, सद्विवेक, सद्भावना
— government	सुशासन
— moral	
character	सच्चरित्र
— name	सुख्याति
— offices	मध्यस्थता, सौजन्य
— order	सुदर्शा, सुव्यवस्था
— reason	समुचित कारण
— reasons	
for transfer	स्थानान्तरण के लिये पर्याप्त कारण
Goods	वस्तुजात, वस्तुएं, माल
Goodwill	रव्याति, सद्भाव, सद्भावना, साख
— mission	सद्भावना मण्डल
— profit	रव्याति लाभ
Govern	शासन करना

Governance	शासन
Governed by	से शासित, के अधीन, नियन्त्रित
Governing body	शासी निकाय, शासक निकाय
Government	शासन, सरकार
—advocate	शासन अधिवक्ता
— agency	शासकीय असिकरण
— arms	सरकारी गौरवांक
— bill	शासकीय विधेयक, सरकारी विधेयक
— business	शासकीय कार्य, सरकारी कार्य
—land	शासकीय भूमि
—officer	शासनाधिकारी
— of India	भारत सरकार
—of State	राज्य शासन, राज्य की सरकार
—order	शासनादेश, शासकीय आदेश
—press	शासन मुद्रणालय, राजकीय मुद्रणालय
— publication	शासकीय प्रकाशन
— servant	शासकीय सेवक
— stamp	सरकारी मुद्रांक
Governor	राज्यपाल
Grace	अनुग्रह, अनुकर्मा, रियायती, देया
—, day of	अनुग्रह दिवस, अनुकर्मा दिवस
— marks	कृपाक, रियायती अंक
Gradation	क्रमवन्ध, क्रमनिर्धारण

—list	अनुक्रम सूचि, कोटिक्रम सूचि, क्रमसूची
Grade	कोर्टि तालिका, पद क्रम सूची
Gradient	कोर्टि, वर्ग, क्रम, पदक्रम, घेड़, श्रेणीकरण
Grading	उतार चढाव
Gradual	कोटिकरण, श्रेणीकरण, क्रमवन्धन
Graduate	क्रमशः, अनुक्रमिक, उत्तरोत्तर स्नातक, क्रमांकित करना
Graduation	उपाधि प्राप्ति, क्रमभाजन, अंकन
Grand	महान्, पूर्ण, महा—
Grant	अनुदान, स्वीकृत करना, मंजूरी देना
— in aid	प्रदान करना, प्रदाय सहायक अनुदान, सहायतार्थ अनुदान
— of gratuity	अनुग्रह धन का अनुदान
Graph	विन्दुरेखा
Grasp	पकड़ना, समझना
Grateful	आभारी, कृतज्ञ, अनुगृहीत
Gratification	परितोषण, तुष्टि
Gratis	नि शुल्क, मुफ्त, बिना मूल्य
Gratitude	एहसान, कृतज्ञता
Gratuitous	नि. शुल्क, निर्मूल्य
Gratuity	आनुतोषिक, अनुग्रह-धन, उपदान, निवृत्ति पारितोषिक

Grave	गम्भीर, भारी, कन्त्र, समाधि
— crime	घोर अपराध
— disorder	गम्भीर अव्यवस्था, घोर अव्यवस्था
— emergency	गम्भीर आपात
— provocation	गंभीर उत्तेजना
Grave-yard	कन्त्र-स्थान
Gravity	गभीरता, भारी, गुरुत्व
Graze	चरना, चराना
Grazing-ground	गोचर भूमि, चरागाह
Great	महत्, वृहत्, महान्
Greedy	लालची, लोभी
Greet	अभिवादन करना
Greeting	अभिनन्दन
Grief	शोक, दुःख, व्यथा
Grievance	कष्ट, विपत्ति, शिकायत, व्यथा
Grieve	शोकातुर होना
Grievous	घोर, गहरी, सख्त, गम्भीर
Grit	धूला, गर्द
Grocer	पंसारी
Gross	कुल, सकल, भारी, घोर, सम्पूर्ण

Ground	भूमि, आधार, कारण
Groundless	निराधार
Ground-nut	मूँगफली
Group	समुदाय, समूह, गुट, वर्ग, वर्गीकरण
Grouping and grading	वर्गीकरण तथा श्रेणीकरण
Groveland	उद्यान भूमि
Grow	वर्धन, बढ़ना, उगना
Growing crops	बढ़ती फसल, बढ़ती हुई खेती
Growth	वृद्धि, वर्धन, बाढ़
Guarantee	प्रत्याभूति, विश्वास दिलाना, प्रतिभूति
Guarantor	प्रत्याभू
Guard	प्रहरी, गार्ड, रक्षी, अनुरक्षक, रक्षण करना
— body	देहरक्षक
— book	रक्षी पुस्तक
— file	रक्षी नस्ती
— of honour	सम्मानाभिवादन
Guardian	संरक्षक, प्रतिपालक, अभिभावक
Guardianship	सरक्षकता, प्रतिपालकत्व
Guess	अनुमान करना, ताड़ना, ताड़लेना
Guidance	पथ प्रदर्शन, दिग्दर्शन, देखरेख, मार्ग दर्शन

Guide	पथ प्रदर्शन करना, पथ प्रदर्शक
Guild	श्रेणी, निकाय
Guile	धूर्तता
Guillotine	शिरच्छेद यंत्र, काटने का यंत्र, समायन
Guilt	अपराध
Guilty	दोषी, अपराधी, पापी
—intention	दूषित आशय
Gunner	तोपची
Gunney	बोरी
Gun powder	वास्तु
Gun-shot	छर्चा, गोली
Gutter	नाली, मोरी
Gymnasium	व्यायामशाला
Gynarchy	स्त्रीतंत्र, स्त्री राज्य
Gypsum	जिष्पसम
Gypsy	यायावर, भटकनेवाला

# H

Habeas-corpus	बन्दी प्रत्यक्षीकरण, सशरीर उपस्थिति
Habit	स्वभाव, आदत, अभ्यास
Habitable	निवास-योग्य, रहने योग्य
Habitant	निवासी
Habitation	निवास, बस्ती
Habitual	आभ्यासिक, आदी, अभ्यस्त, स्वाभाविक
— defaulter	अभ्यस्त अपराधी, आभ्यासिक बकायेदार
— offender	स्वभावत. अपराधी, अपराधशील
Habitually	स्वभावत, अभ्यस्त रूप से
Half	आधा, अर्ध
— average pay leave	आधे औसत वेतन पर छुट्टी
— blood	सौतेला
— brother	सौतेला भाई
— dead	मृतप्राय, अधमरा
— pay leave	आधे वेतन पर छुट्टी
— sister	सौतेली बहिन
— yearly	अर्द्ध-वार्षिक, छमाही

Halt	डेरा डालना, विश्राम, रात्रिवास करना, ठहरो
Halting	
allowance	विराम-भत्ता
Hamper	वाधा डालना, वाधक
Handbill	परचा, हस्तपत्रक
Handbook	पुस्तिका
Hand-cuff	हथकड़ी डालना
Handcuffs	हथकड़ी
Hand-grenade	हथगोला
Handicraft	हस्तशिल्प, दस्तकारी
Handloom	हाथ करघा
Handover	सौंपना, उत्तरदायित्व देना
Handspun	हाथ से कता हुआ
Handwriting	हस्तलेख, हस्ताक्षर
Hang	फांसी पर लटकाना
Hangar	वायुयान अड्डा
Hangman	जल्लाद
Happen	होना
Happiness	सुख, आनन्द
Harass	परेशान करना, हैरान होना, तंग करना
Harassment	परेशानी, सन्ताप

Harbour	वन्दरगाह, आश्रय देना
Hard	कठोर, कठिन
— and fast	अदिग, दृढ़ एवं कठोर
— cash	रोकड़, नगदी
— currency area	दुर्लभ-मुद्रा-क्षेत्र
—labour	कठिन श्रम
Hardness	कठोरता, दृढ़ता
Hardship	कठिनाई, कष्ट
Harm	अपहानि, धति
Harmony	एक-रूपता, सामंजस्य, मेल, अनुकूलता
Harsh	शुष्क, कठोर
Harvest	उपज, फसल
Harvesting	फसल काटना, कटाई
Hasten	शीघ्रता करना, जल्दी करना
Hate	घृणा, घृणा करना
Hatred	घृणा
Haulage	खींचना, डुलाई
Haversake	पिट्ठू
Haves and have-nots	अस्ति एवं नास्ति
Having regard to	ध्यान में रखते हुए

Hawker	फेरी वाला
Hay and forage	सूखा घास और चारा
Hazard	जोखिम, संकट
Hazardous	संकटमय, संकटास्पद
Head	प्रधान, अध्यक्ष, प्रमुख, शीर्ष
— accountant	मुख्य गणक, मुख्य लेखा कर्मचारी
— clerk	प्रधान लिपिक, मुख्य करणिक
— constable	मुख्य दण्डधार, जमादार, प्रधान कांस्टिबल
— line	शीर्ष पंचित
—, major	बहुत शीर्षक
— master	प्रधानाध्यापक, मुख्याध्यापक
—, minor	लघु शीर्षक
— mistress	प्रधानाध्यायिका
— of department	विभागाध्यक्ष
— office	प्रधान कार्यालय
— quarters	मुख्यालय, प्रधानास्पद
Heading	शीर्षक
Headman	मुखिया
Headway	प्रगति
Health	स्वास्थ्य, तन्द्रस्ती
— certificate	स्वास्थ्य प्रमाणपत्र
Heap	राशि, ढेर, संचय

Hear	सुनना	८५
Hearing	सुनवाई, श्रवणशक्ति, लोकवार्ता	८६
Hearsay	अनुश्रुत	८७
Heart burning	ईर्ष्या, जलन	८८
Heat	ताप, उषणता	८९
— of passion	आवेश की तीव्रता	९०
— stroke	लू, लगना	९१
Heed	मनोयोग, सावधानता	९२
Hegemony	प्रभावक्षेत्र	९३
Height	ऊँचाई, उच्चता	९४
Heinous	नृशंस, क्रूर	९५
Heir	उत्तराधिकारी, दायाद, वारिस	९६
Heir-apparent	युवराज, प्रत्यक्ष दायाद	९७
Heirless	अदायाद, अरिक्थी	९८
Heirship	दायाभागिता	९९
Held	धारित	१००
— in abeyance	आस्थगित रखी गयी	१०१
Help	मदद, सहायता, सहायता करना	१०२
Hemp	भांग, गांजा	१०३
Hence	अत, अतएव, इसलिए	१०४
— forth	अब से, आगे से	१०५

— forward	आगे से
Here	यहां
Hereafter	इसके पश्चात्, तत्पश्चात्, एतत्पश्चात्
Hereby	इससे, इसके द्वारा, अब, एतद्वारा
Hereditary	पैतृक, वंशानुगत, दायगत, मौरुसी
Herein	यहां, इसमें
Hereinafter	एतत्पश्चात्, इससे आगे
Hereinbefore	पूर्ववत्, एतत्पूर्व, इहपूर्व, इससे पहले
Herecontained	अत्रपूर्व अन्तर्विष्ट
Heretofore	एतत्पूर्व, इससे पूर्व, अद्यपर्यन्त
Hereunder	एतदधीन, नीचे
Herewith	इसके साथ, इस के साथ, अनुलग्न
Her Excellency	महामान्या, महामहिम
Heritable	दाययोग्य
Heritage	पैतृक संपत्ति, वपौती
Hesitate	हिचकिचाना, सकोच करना, झागा
	पीछा करना
Hesitation	हिचकिचाहट
Heterogeneous	विभिन्न जातीय, अन्तमोल, वेमेल, विजातीय
Hexagon	षट्कोण, पञ्चभुज
Hide	छिपाना, खाल

—industry	उद्योग
Homicide	नरहत्या, मानवहत्या
Homogenous	सजातीय, एकसा
Honest	ईमानदार, सच्चा, निष्कपट
Honesty	ईमानदारी, सत्यता, निष्कपटता
Honey	शहद, मधु
Honorarium	मानदेय, पुरस्कार
Honorary	अवैतनिक, मानसेवी, मानयोग्य
Honour	सम्मान, आदर, हुँडी सकारना, आदर करना
Honourable	माननीय
—, Most	परम माननीय
—, Right	महा माननीय
Hood	छतरी, ओढ़ना
Hook	कांटा, अकुश
Hooliganism	गुण्डापन, गुण्डागिरी
Hope	आशा
Hopeful	आशाजनक
Hopeless	निराशाजनक
Horizontal	क्षितिज, आङ्ग
Horoscope	जन्मपत्री, जन्मकुन्डली
Horse-power	अश्व-शक्ति

Horse racing	बुड़-दौड़
Horticultural	ओद्यानिक, उद्यान
Horticulture	उद्यानकर्म, ओद्यानिकी, उद्यानशास्त्र
Hospital	अस्पताल, चिकित्सालय, रुग्णालय
Hospitality	आतिथ्य
Host	आतिथेय, पोपिता
Hostage	ओल, सशरीर प्रतिमू
Hostel	छावावास, छान्त्रालय
Hostile	विरोधी, प्रतिकूल, शत्रुतापूर्ण
Hotel	आवासगृह, विश्रान्तिगृह, होटल
Hot pursuit	सर्वथा पीछा करना, लगातार पीछा करते जाना
Hour	घटा
House	भवन, घृह, सदन, सभा
—accommodation	आवासस्थान, घृह व्यवस्था
— breaker	सेध लगाने वाला, घृह भेदक
— breaking	घृह भेदन, सेध लगाना
—, Lower	अवर भवन, निम्न सदन
— rent	घृह-भाटक
— tax	घृहकर
—, upper	प्रवर भवन, उच्च सदन
Household	गार्हस्थ्य, घृहस्थी
Housing	घृह प्रवन्ध

— loans	गृह निर्माण ऋण
—schemes	गृह निर्माण योजनाएँ
However	तथापि, तोभी
Huge	अतिमात्र, बहुत बड़ा
Hue and cry	कोलाहल, दुहराई
Human	मानव, मानुषिक, माननीय
— beings	मानव प्राणी, मनुष्य
Humane	परोपकारी, मानवोचित, दयाशील
Humble	नम्र, विनीत
Humbly	नम्रतया
Humbug	अरेटशरट, अनापशानाप, ऊटपटांग
Humidity	आर्द्रता, तरी, सील
Humilitate	अपमान करना, दबाना
Humiliation	अपमान, मानहर, तिरस्कार
Humility	विनय, नम्रता
Humming	भन भनाता हुआ
Humorous	हास्यप्रिय, रसिक, विनोदी
Humour	रसिकता, विनोद
Hump	कूबड़, चिढ़ाना
Humpback	कुबड़ा
Hunger	भूख, छुधा

Hunger-strike	अनशन, भूख हड्डताल
Hungry	भूखा
Hunt	आखेट करना, शिकार करना
Hurry	शीघ्रता
Hurt	आवात, चोट पहुंचाना
Hurtful	घातक
Husband	पति
Husbandary	कृषि कर्म, खेती
Husband-man	कृषक, किसान
Hush	शान्त, चुप
Hydro	जल
Hydro-electric	जल विजली, जल-विद्युत
Hydrogen	उद्गृजन
Hygiene	आरोग्य शास्त्र, स्वास्थ्य विज्ञान
Hygienic	स्वास्थ्यकर, आरोग्य संबंधी
Hypocrisy	पाखण्ड, दम्भ, ढोंग
Hypocrit	पाखण्डी, दाम्भिक, ढोंगी
Hypothecate	कल्पना करना, बंधक रखना
Hypothecation	रहन की क्रिया, कल्पबन्ध, गिरवी

Hypothesis	अनुमान, कल्पना
Hypothetic	कल्पित
Hypothetical — proposition	अौपकल्पित, उपकल्पित काल्पनिक प्रस्थापना
Hysteria	वातोन्माद, बदहोशी, मूर्छा

# I

I am directed to	मुझे आदेश हुआ है कि
I am to add	मुझे यह भी लिखना है कि
Ibid	तदेव, उसी स्थान पर, वही
Idea	आशय, विचार, कल्पना
Ideal	आदर्श, काल्पनिक, ध्येय
Identical	अभिन्न, एक सा, एक समान, समरूप
Identification	अभिज्ञापन, पहचान
— mark	परिचय चिन्ह
Identified	अभिज्ञापित
Identify	पहचानना
Identity	समता, पहचान, अभिज्ञान
— card	परिचय-पत्र
Ideology	विचारधारा, विचार-पद्धति
Idiocy	मूढ़ता, पागलपन
Idiot	मूढ़, मूर्ख, निर्बुद्धि
Idleness	आलस्य
Idle time	बेकार समय, कार्यहीन काल
If	यदि
— any	यदि कोई

Ignition	उत्तापन, उज्ज्वालन
Ignoble	तुच्छ
Ignominy	अपकीर्ति, दुष्नाम
Ignorance	अज्ञान, अनभिज्ञता
Ignorant	अनभिज्ञ
Ignore	उपेक्षा करना, अवहेलना करना
Ill	बीमार, अस्वस्थ, रुग्ण
Illegal	अवैध, गैरकानूनी
—gratification	घृ स
— transaction	अवैध संव्यवहार
Illegality	अवैधता
Illegible	अस्पष्ट, अपाठ्य
Illegitimate	अवैधज, अनोरस, जारज
Ill-fame	अकीर्ति
Ill-gotten	अन्याय अर्जित
Illicit	अवैध, अनुचित, निषिद्ध
Illiteracy	निरक्षरता
Illiterate	निरक्षर, अपढ
Illjudged	अपनिर्णीत
Ill treatment	दुर्ब्यवहार
Ill-use	दुष्प्रयोग करना

Illusion	भ्रांति, भ्रम, माया
Illusory	भूठा, मिथ्या, भ्रांतिजनक
Illustrate	दृष्टान्त देना, उदाहरण देना, निर्दर्शन करना
Illustration	उदाहरण, दृष्टान्त, चित्र
Ill-will	दुर्भावना, द्वेष
Image	प्रतिमा, प्रतिबिम्ब, मूर्ति
Imaginary	काल्पनिक, अवास्तविक
Imagine	कल्पना करना
Imitate	नकल करना, अनुकरण करना
Imitation	प्रतिरूप, अनुसरण, अनुकृति, नकल
Immaterial	सारहीन, अनावश्यक, अभौतिक
Immature	अपरिपक्व, अप्रौढ़
Immediate	तात्कालिक, तुरन्त, अविलम्ब, निकटतम्
— action	तत्काल कार्यवाही
Immediately	तत्काल, तुरन्त,
Immemorial	स्मरणातीत
Immense	अपरिमित, अतिमात्र, अत्यधिक, विशाल
Immerse	झूबोना
Immigrant	आप्रवासी, अभिवासी
Immigrate	अभिवासित, देशान्तर्वासी
Immigration	अभिवासक, आप्रवासन, देशान्तरवास
Imminent	समुपस्थित, आसन्न, सन्त्रिक्ष

Immobile	अटल, अचल
Immoral	अनैतिक, दुराचारी
Immorality	दुश्चरित, पाप, अनैतिक
Immovable	अचल, स्थिर, स्थायी
Immune	प्रतिरक्षित, उन्मुक्त
Immunity	उन्मुक्ति, निर्वन्धता, विमुक्ति, क्षमा
Impair	विगड़ना, हानि पहुँचाना
Impartial	निष्पक्ष
Impartiality	निष्पक्षता
Impartible	अविभाज्य
Impeach	दोषारोपण करना; महाभियोग चलाना
Impeachable	दोषारोपण योग्य
Impeachment	महाभियोग, प्राभियोग
Impede	अवशाधन करना, अड़चन डालना, बाधा पहुँचाना
Impediment	बाधा, रुकावट
Impending	होनेवाला, आसन्न, सर पर आया हुआ
Imperative	अनिवार्य
Imperfect	अपूर्ण, अप्रवर्तनीय
Impersonation	छव्यव्यक्तिता, परनामधारण, व्यक्तिकरण
Impertinence	धृष्टता, उद्घृतपने, अविनय

Impervious	अप्रवेशनीय, अवेष्य
Implead	बाद चलाना
Implement	परिपालन करना, उपकरण, औजार कार्यान्वित करना
Implicate	आलिप्त करना, लपेटना, फँसाना
Implication	परिणाम, फल, फँसाव
Implicit	पूर्ण, अस्पष्ट
Implied	गमित, निहित, विवक्षित
Import	आयात, प्रवेश करना
Importance	महत्व, आवश्यकता
Important	महत्वपूर्ण, जरूरी
Importation	आयात करणा
Imported	प्रवेशित, आयात
Impose	आरोपित करना, अधिरोपित, लगाना, लादना, लागू करना
Imposition	आरोपण, लगाना, थोपना, दण्डारोप
Impossible	असम्भव, अशक्य
Impotence	दुर्बलता, नपुसंक्ता
Impotent	नपुसंक
Impound	रोध करना, जब्त करना, अवरुद्ध करना
Impracticable	अव्यावहारिक, अव्यवहार्य
Impress	प्रभाव डालना, छोपना, मोहर लगाना

Impressed	प्रभावित, मुद्रांकित
Impression	छाप, प्रभाव, प्रतिमुद्रा, चिन्ह
Imprest	अग्रिम देय, पेशारी
Imprison	वंदी करना, कारावास देना
Imprisonment	कारावास, कैद
—, rigorous	कठोर कारावास
—, simple	सामान्य कारावास
—, solitary	एकान्त कारावास
Improper	अनुचित, अनुपयुक्त
Improve	सुधार करना, सुधारना
Improved	उन्नत, सुधारा हुआ
Improvement	सुधार, उन्नति
— trust	सुधार प्रन्यास
Improvidence	अदूरदर्शिता, अमितव्ययिता
Imprudent	धृष्ट
Impugn	खण्डन करना, विरोध करना
Impulse	प्रेरणा, भावावेश, आवेग
Impunity	मुक्ति
Impurity	मिलावट, अशुद्धता, अपवित्रता
Imputation	अभ्यारोपण, दोपारोपण
Impute	अपराध लगाना, अभ्यारोप, आरोप करना
In abeyance	आस्थगित

Inability	अयोग्यता, असमर्थता, अशक्यता
Inaccessible	अगम्य
In accordance with	के अनुसार
Inaccuracy	अशुद्धता, अयथार्थता
In addition to	अतिरिक्त, से अधिक
Inadequate	अपर्याप्त
Inadmissible	अग्रह्य, अप्रवेश्य
In advance	अगाऊ
Inadvertence	असावधानी
Inadvertently	भूल से, असावधानी से, असावधानतया
Inalienable	अहस्तान्तरकरणीय, परादेय, असंक्राम्य
In an existing vacancy	विद्यमान रिक्ति में
In anticipation of	की प्रत्याशा में, उम्मीद में, पूर्वाशा में
In anticipation of sanction	स्वीकृति की प्रत्याशा में
In any case	किसी अवस्था में भी
Inapplicable	असंगत, अप्रयोज्य
Inappropriate	अनुपयुक्त
In as much as	जहाँ तक कि, इस कारण से कि
Inaugural	प्रतिष्ठापनिक

Inaugurate	उद्घाटन करना, प्रारंभ करना
Inauguration	उद्घाटन
In camera	बन्द कमरे में
Incapable	अयोग्य, असमर्थ
Incapacity	अयोग्यता, अक्षमता, असामर्थ्य
In case of	के संबंध में, के मामले में
Incendiary	दाहक, आग्नेय
Incentive	उत्तेजक, प्रोत्साहक
Inception	आरम्भ, आदि, सूत्रपात
Incessant	लगातार
Incharge	प्रभारी, भारसाधक
Incidence	आपात, अनुपात, भार, घटना
— of taxation	करापात, करानुपात
Incident	घटना, संयोग, प्रसंग
Incidental	
charges	आनुषंगिक व्यय
Incision	चीरा
Incite	उत्तेजित करना, उकसाना, भड़काना
Incitement	उद्विष्टन, भड़काव, दुरुत्साहन
Incline	ढाल, चढ़ाव-उत्तार, रुचि होना

Include	सम्मिलित करना, समावेश करना, अंतर्गत होना
Inclusion	समावेश, अन्तर्भुवि
Inclusive	मिलाकर, शामिल करके, सहित, समेत
Incognito	अज्ञात, गुप्त वेश में
Income	आय
— tax	आयकर
Incompatible	असंगत, विरुद्ध
Incompetence	अयोग्यता, अक्षमता
Incompetent	अक्षम, अयोग्य
Incomplete	अपूर्ण, अधूरा
In compliance with	का पालन करते हुए
Incomprehensible	अज्ञेय
Inconclusive	अनिश्चायक, अनिर्णायिक
In confirmation	पुष्टि के लिये
In conformity	के अनुरूप
— with	का अनुसरण करते हुए
In connection with	के संबंध में
In consequence of	के फलस्वरूप, फलत
Inconsistent	असंगत, विरोधी, विसंगत

In consultation

with से परामर्श करके

In continuation of के सिलसिले में, के आगे, की अनुवृत्ति में

In contravention

of के प्रतिकूल, का उल्लंघन कर

Inconvenience असुविधा, कष्ट

Incorporate निगमन करना, सम्मिलित करना, मिलाना

Incorporated संस्थापित, निगमित

Incorporation निगमन, प्रारम्भण, स्थापन

In course of time समयानुसार, कालान्तर से करना

Increase बढ़िया करना, बढ़ाना

Increment बढ़िया, बढ़ती

Incriminate अपराध लगाना

Inculcate समझाना, मनोगत करना

Incumbency पदधारणा, पदवारणा काल

Incumbent पदस्थ, पदधारक, वृत्तियोगी, अनिवार्य, आभार्य

— of an office पदधारी

Incumbrance ऋणभार, अभिभार

Incur <sup>1</sup>उठाना, अपने ऊपर लेना

Incurable असाध्य

Indebted ऋणी ऋण-ऋत्त

Indebtedness	ऋण भ्रस्तता, ऋणिता
Indecent	अशिष्ट, अश्लील
Indecisive	अनिर्णीत
Indeed	वस्तुत, सच्चमुच्च
In default of	नहेने के कारण, न करने पर
Indefeasible	अद्वय, अलोप्य
Indefinite	अनिश्चित, अनियत
Indemnify	क्षतिपूर्ति करना, तारण देना
Indemnity	क्षतिपूर्ति, तारण
Indemnity bond	क्षतिपूर्ति बंधकनामा
Indent	वस्तु सूची, मांगपत्र, मांगना
Indempire	प्रतिज्ञापत्र, करारनामा, अनुबन्ध-पत्र
Independence	स्वाधीनता, स्वतंत्रता
Independent	स्वतन्त्र, स्वाधीन
In detail	विस्तार से
Index	अनुक्रमणिका, सूची, निर्देशिका
Index-number	देशनांक
Indian	भारतीय
<b>— Administrative</b>	
Service	भारतीय प्रशासन सेवा
— Air Force	भारतीय नभ सेना
— Civil Service	भारतीय जानपद सेवा

— Medical	
Service	भारतीय भैपजिक सेवा
— Penal Code	भारतीय दंड विधान, भारतीय दंड संहिता
— Police Service	भारती आरक्षी सेवा, भारतीय पुलिस सेवा
Indicate	उपदर्शित करना, सूचित करना, निर्दिष्ट करना
Indication	संकेत, लक्षण, सूचना
Indict	अपराधी ठहराना, आरोपित करना, अपराध लगाना
Indictment	अपराध, आरोप
Indifference	असावधानता, उदासीनता
Indigent	गरीब, निर्धन
Indigenous	देशी, तत्स्थानीय
Indignity	अगौरव, अपमान, अशिष्टता
Indirect	अत्प्रत्यक्ष, परोक्ष
Indirectly	अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से
Indiscipline	अनुशासनहीनता
Indiscriminate	अविवेकपूर्ण, अविचारपूर्ण
Indispensable	अनिवार्य, अपरिहार्य, अत्यावश्यक
Indisposed	अस्वस्थ
Indisputable	निर्धिवाद, विवादरहित
In dispute	विवादास्पद, विवादग्रस्त

Individual	वैयक्तिक, व्यक्तिगत, व्यक्ति
Individually	व्यक्तिशः
Individuality	व्यक्तितत्व, एकत्व
' Indivisible	अविभाज्य
Indolence	सुस्ती, आलस्य
Indoor	अन्तर्वासी, अतरंग
Induce	प्रेरित करना, लालच देना, फुसलाना
Inducement	प्रलोभन, ब्रेरणा
Induction	प्रभाव, उत्पादन
In due course	यथाक्रम, यथासमय
Indulge	निरत होना, लगना
Industrial	औद्योगिक
Industrialisation	औद्योगीकरण
Industrialise	औद्योगीकरण करना
Industrialised	औद्योगीकृत
Industrialist	उद्योगपति
Industrious	परिश्रमी
Industry	उद्योग, परिश्रम
—, key	आधारोद्योग
Ineffect	प्रवृत्तन में, प्रवृत्त
Ineffective	प्रभावहीन, निरर्थक, अप्रभावी
Inefficiency	कार्य-अकुशलता, अदृक्षता, कार्य अपदुता

Inefficient	अयोग्य, अदक्ष
Ineligible	अपात्र, अयोग्य
Inequality	असमता, विप्रमता
Inequitable	असाम्यपूर्ण, अन्याय्य
In equity	साम्य में, साम्यता
Inevitable	अपरिहार्य, अवश्यंभावी, अनिवार्य
Inexact	अयथार्थ, अतथ्य
In exercise of the powers conferred	प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग में लाते हुए
Inexpedient	अनुपयुक्त, अवांछनीय
Inexperience	अनुभवहीनता
In fact	वस्तुत, वास्तव में, यथार्थत्
Iniancy	शैशव, वचपन
Infant	शिशु, बच्चा
Infanticide	शिशुहत्या
In fantry	पैदल सेना, पदाति सेना
In favour of	के हित में, के पक्ष में
Infected	सक्रमित
Infection	संक्रामण, छुट
Infectious	सक्रामक, सांक्रामिक

Infer	परिणाम निकालना, अनुमान करना
Inference	अनुमान, निष्कर्ष
Inferior	अवर, निम्न, घटिया, हल्का
— service	अवर सेवा, निम्रस्थ सेवा
Inferiority	
complex	हीन मनोभाव
Infestation	दूषण, पर्याक्रमण
Infinitesimal	अति सूक्ष्म
Infirm	अशक्त
Infirmary	आतुरालय, रुग्णालय, अपाहिजशाला
Infirmity	कमजोरी, असमर्थता, दौर्बल्य, अदृढता
Inflammable	ज्वलनशील, सुदाहू
Inflation	मुद्रास्फीति, मुद्रा विस्तार
Inflexible	कठोर, लचकहीन
Inflict	लगाना, आमद करना
Influence	प्रभाव, असर, प्रभावित करना
—, undue	अनुचित प्रभाव
Influential	प्रभावी, प्रभावकारी
Inforce	प्रवृत्त, लागू, प्रभावशील, प्रचलित
Inform	सूचना देना, सूचित करना
Informal	अरीतिक, अधिधीक, अनौपचारिक
In forma pauperis	अकिञ्चन रूप से

Information	सूचना, जानकारी
Infra	अधि, निम्न, नीचे
Infraction	खरेड़न, उल्लंघन
Infringe	भंग करना, उल्लंघन करना, अतिलंघन करना
Infringement	उल्लंघन, भग होना, अतिलंघन
In full	पूर्णतः
In furtherance of	को आगे बढ़ाने के लिए
In future	भविष्य में, आगे
Ingenious	प्रवीण, चतुर, पटु, प्रतिभा सम्पन्न
Ingenuity	पटुता, प्रतिभा
In good faith	सद्भावना से, सद्गृह्य से, सद्भावनापूर्वक
Ingredient	अश, अग
Ingress	प्रवेश छार, प्रवेशाधिकार
Inhabit	निवास करना, वसना
Inhabitable	निवास योग्य
Inhabitant	निवासी
Inherent	सहज, अन्तर्भूत, परम्पराप्राप्त, जन्मसिद्ध, पैतृक
Inherit	दाय पाना, वपौती में पाना, उत्तराधिकार में पाना
Inheritance	दाय, रिक्थ, उत्तराधिकार
Inhabit	निरोध करना, रोकना
Inimical	शत्रुतापुर्ण, वैरपूर्ण

Iniquity	अन्याय, असाम्य
Initial	प्रथमाक्षरित करना, आद्याक्षरित करना।
Initialled	प्रारम्भिक, प्राथमिक
Initiate	आरम्भ करना, सूत्रपात करना, उपक्रमण
Initiative	आरम्भिक, प्रोत्साहन, प्रेरणा, सूत्रपात
Injunction	निषेधादेश, निषेधाज्ञा
Injury	क्षति, आवात, जखम
Injury report	चोट रिपोर्ट
Injustice	अन्याय
Inland	अन्तर्देशीय
In law	विधिगत, विध्यनुसार
Inlets	प्रवेश द्वार
In lieu of	के बदले, के स्थान पर
Inmate	आवासी, रहने वाला
In matter of	के विषय में
Inmaditation	संशोधन करते हुए
Innate	अन्तरज, प्राकृत, जन्मजात
In near future	शीघ्र, जल्दी ही
Inner	आंतरिक, भीतरी
—most	अत्यन्त भीतरी, अन्तरतम
Innocence	निरपराध, निर्दोषिता, अकपटता, भोलापन
Innocent	निरपराधी, निर्दोष, अकपट, निश्छल

In obedience	आत्मा पालन करते हुए
Inoculation	टीका लगाना
In operation	क्रियाशील
In official capacity	आधिकारी रूप से
Inoperative	प्रभावहीन, प्रवर्तनहीन
In order	नियमानुकूल, यथाक्रम, व्यवस्थित रूप से
In order of merit	योग्यता क्रम में
In partial modification	आंशिक संशोधन करते हुए
In particular	विशेषत.
In proper form	उचित रूप में
In pursuance of	अनुसरण में, की अनुसरण करते हुए
Inquest	मरणान्वेषण, अकालमृत्यु विचारण
Inquire	जांच करना, पूछताछ करना
Inquiry	जांच, पूछताछ, परिशीलन
Inquisition	न्यायालंबी अन्वेषण, खोज
In regard to	के बारे में
Insane	विक्षिप्त, पागल, उन्मादी
Insanity	पागलपन, उन्माद, विक्षिप्तता
In satisfaction	चुकाने के लिए
Inscribe	अन्तर्लेखन

Inscribed	अन्तर्लिखित
Inscription	शिलालेख, पुरालेख
Insecticide	कीटनाशक
Insecure	अरक्षित
Insert	अन्तस्थापित करना, उल्लेख करना, निविष्ट करना, डालना
Insertion	अन्तन्यास, निवेश, प्रवेश
Insignificant	तुच्छ, महत्वहीन, उपेक्षणीय
Insist	आग्रह करना, हठ करना, जोर देना
In so far as	जहां तक, जितनी मात्रा तक
Insolvency	शोधाक्षमता, दिवाला, दिवालियापन
Insolvent	दिवालिया, शोधाक्षम
Inspect	निरीक्षण करना
Inspection	पर्यवेक्षण, निरीक्षण
Inspector	निरीक्षक
— general	महानिरीक्षक
— General of police	आरक्षी महानिरीक्षक
Inspectorate	निरीक्षण कार्यालय, निरीक्षकालय
Inspectress	निरीक्षिका
Inspiration	अन्त प्रेरणा, अन्त सफूर्ति
In spite of	के होते हुए, के बावजूद

Instal	प्रतिष्ठापित करना
Installation	प्रतिष्ठापन, अधिष्ठापन, स्थापना
Instalmet	किस्त, अंशाश, प्रभाग
Instance	उदाहरण, उपान्त, प्रेरणा, आप्रह, अनुरोध
—, as for	उदाहरणार्थ
—, on the first	प्रथम अवसर पर
Instant	तत्काल, तुरन्त, क्षण, वर्तमान
Instantaneous	तत्काल, तत्त्वगणिक
Instantly	तत्त्वण
Instead of	के स्थान पर
Instigate	भड़काना, अपोत्तेजित करना, उकसाना
Instigation	उद्यत, अनूत्तेजन, उकसाहट
Instigator	उत्तेजक, प्रोत्साहक
Instinct	सहज प्रवृत्ति, नैसर्गिक प्रवृत्ति
Institute	आरम्भ करना, संस्थापित करना, स्थाना;
	संस्था, विद्यालय
Institution	संस्था
Instruct	शिक्षादेना, हिदायत करना
Instruction	शिक्षा, अनुदेश, हिदायत
Instructor	निदेशक, शिक्षक
Instrument	विलेख, सलेख, अधिकारपत्र, यंत्र, औजार

Insubordination	अवज्ञा
In succession	लगातार, पूर्वानुपर
Insufficient	अपर्याप्त
Insult	मान भंग, अपमान करना
In supersession of	को निष्प्रभाव करते हुए, का अधिलंघन करते हुए
In support of	के समर्थन में, का समर्थन करते हुए, की पुष्टि में
Insurance	बीमा
Insure	बीमा कराना
Insurgency	राजद्रोह, विद्रोह
Insurgent	राजद्रोही, उपद्रवी
Insurrection	राजविद्रोह, विद्रोह
Intact	अक्षुण्ण, अविकल, सम्पूर्ण, जैसा का तैसा, अखंड
Intangible	अस्पर्शनीय, अमूर्त
Integrated	एकीकृत, सर्वतोमुखी
Integration	एकीकरण
Integrity	ईमानदारी, न्यायनिष्ठा, सत्यशीलता, प्रमाणिकता, पूर्णता, अखण्डता
--certificate	सत्यशीलता, प्रमाण पत्र
Intelligence	बुद्धि, गुप्त वार्ता
— department	चर विभाग, प्रणिधि विभाग, गुप्तवार्ता विभाग

Intelligent	वुद्धिमान, समझदार
Intend	विचार करना, अभिप्राय रखना
Intensity	प्रगाढ़ता, उग्रता, तीव्रता
Intention	अभिप्राय, उद्देश्य, विचार
Intentionally	अभिप्रायपूर्वक
Inter-alia	दूसरी बातों के मध्य में, आपस में, अन्यान्य विषयों में
Inter caste	अन्तर्जातीय
Intercede	मध्यस्थ होना
Intercept	बीच में रोकना, मार्ग में रोक लेना
Intercourse	समागम, गमनागमन, संभोग
Interest	व्याज, स्वार्थ, हित
Interfere	हस्तक्षेप करना, वाधा डालना
Interference	वाधा, हस्तक्षेप
Interim	अन्तरिम, अन्तर्वर्ती, मध्यवर्ती, अन्तकालीन
Intermediary	अन्त स्थायी, अन्तस्थ
Intermediate	अन्त स्थ, मध्यवर्ती
Intermittent	अन्तरित, क्रमानुगत, रुक रुक कर
Internal	आन्तरिक, अन्तस्थ
International	अन्तर्राष्ट्रीय
Interpellate	प्रश्न पूछना

Interpolate	मिथ्या, कल्पित करना, द्वेषक लगाना
Interpolation	मिथ्या, कल्पित, द्वेषक, प्रक्षेप
Interpose	बीचबाजाव करना, मध्यस्थ होना, बीच में आना
Interpret	व्याख्या करना, अर्थ करना, निर्वचन करना
Interpretation	व्याख्या, अर्थनिरूपण, भाषान्तर
Interpreter	निर्वचनकर्ता, द्विभाषिया
Inter-provincial	अन्तर्राज्यीय
Interrogate	प्रश्न करना, पूछताछ करना
Interrogatory	प्रश्नात्मक
Interrupt	विघ्न डालना, वाधा डालना
Interruption	वाधा, विघ्न
— in service	सेवा में टूट
Inter se	पारस्परिक, आपस में, परस्पर
Inter-university	अंतर्राष्ट्रीयविद्यालय
Interval	अन्तराल, मध्यान्तर, मध्यावकाश
Intervene	मध्य में आना, हस्तक्षेप करना, बीच में होना
Intervening	बीच का, अन्त स्थ
Intervention	हस्तक्षेप, मध्यस्थ
Interview	साक्षात्कार, समक्ष सेंट
Intestacy	इच्छापत्र-हीनत्व
Intestate	इच्छापत्र-हीन
In that behalf	उस विषय में, तत्सम्बन्धी

In that respect	उस विषय में
In the case of	के विषय में, की दशा में
In the circum stances	इस परिस्थिति में, परिस्थितियों में
In the event of	की दशा में, के होने पर
In the first instance	प्रथमत , प्रारम्भ में
In the interest of	के हित में
In the limit	सीमा में
In this behalf	इस सम्बन्ध में
Intimacy	घनिष्ठता, अवैव सम्बन्ध
Intimate	सूचना देना, घनिष्ठ गहरा, निकट
Intimation	सूचना, प्रज्ञापन
Intimidate	भयभीत करना, धमकी देना
Intimidation	धमकी, भय दिखाना
In token of	के प्रतीक स्वरूप, के प्रमाण स्वरूप
Intolerance	असहिष्णुता
In toto	बिल्कुल, पूर्णतया, सम्पूर्णत
Intoxication	नशा, मादकता
In transit	मार्गस्थ, मार्ग में
Intra vires	अधिकारान्तर्गत, शक्ति अंतर्गत
Intrigue	पड़यन्त्र, कपट

Intrinsic	यथार्थ, वास्तविक, अंगभूत
Introduce	पुर स्थापन करना, प्रस्तुत करना, प्रारम्भ करना, परिचय देना
Introduction	प्रस्तावना, प्राक्कथन; पुर स्थापन, परिचय, भूमिका
—, letter of	परिचय पत्र
Introductory	प्रारंभिक, प्रस्तावनात्मक, परिचायक
Intrusion	अनधिकार प्रवेश, अनाहृत प्रवेश
Inundation	बाढ़
Invoke	आक्रमण करना, चढ़ाई करना
Invalid	अवैध, अमान्य, निष्प्रभाव
Invalidate	अवैध करना, रद्द करना, अमान्य ठहराना
Invariable	अचल, सतत
Invasion	आक्रमण, धावा, चढ़ाई
Invent	आविष्कार करना, खोज करना
Invention	आविष्कार, खोज
Inventory	तालिका, सूची
Inverse	उलटा, विपरीत
Inversion	विलोमता, उलटना
Invert	उलटा करना
Invest	विनियोजन, लगाना, युक्त करना, देना

Investigation	अनुसन्धान, अन्वेषण, जांच
Investment	विनिहितकरण, विनियोग, लागत
Invidious	द्वे पजनक
In view of	को ध्यान मे रखते हुए, को दृष्टि मे रख कर, की दृष्टि से
Invigilate	अभिजागरण
Invigilator	अभिजागक, निरीक्षक
In virtue of	के सामर्थ्य से
Invisible	अदृश्य, अनभिलिखित
Invitation	निमन्त्रणपत्र, निमन्त्रण
Invite	आमंत्रित करना
— attention to	ध्यान दिलाना
In vogue	प्रचलित
Invoice	बीजक
Involuntary	अनैच्छक, अनिच्छापूर्वक
Involve	फँसाना, लपेटना, अन्तर्ग्रस्त, उलझाना
Involving	अंतर्ग्रस्त, लपेटे मे
Inward	आगामी, आने वाला, आवक
In writing	लेखबद्ध
Ipso facto	स्वतः सिद्ध, अपने आप, घटना से ही
Irksome	कठिन, अप्रिय, भारी, उकता देने वाला

Ironical	व्यंग्यात्मक
Ironically	व्यंग के रूप में
Irrebutable	अकान्त्र
Irrecoverable	वसूल न होने गोग्य, अप्रत्यादेय
Irredeemable	असोचनीय, अशोध्य
Irregular	अनियमित, अनियमी, विषम
Irregularity	अनियमितता
Irregularly	अनियमित रूप से, अनियमतः
Irrelevant	अप्रासादिक, असंगत, असंबद्ध
Irreparable	असाध्य, अपूरणीय
Irrespective	अनपेक्ष, असबद्ध
Irrespective of	विना इस बात के विचार के
Irresponsible	अनुत्तरदायी
Irrevocable	अनन्यथा, अकारणीय, अविवरणीय
Irrigation	सिंचाई, सिंचन
Irritate	चिढ़ाना, संताप करना
Isolate	अलग करना, पृथक्करण, पृथक करना
Isolation	पृथक्करण, पृथक्ता
Issue	निकालना, वाद-विषय, संतान
Item	मद, वस्तु, विषयक्रम
Itemwise	पदशा., पदक्रम से, क्रमानुसार
It is desirable	यह वांछनीय है

## J

Jail	कारागार, वन्दीगृह, जेल, कारावास
Jailor	कारापाल, काराध्यक्ष, जेलर
Jail warder	कारा प्रहरी
Jealousy	ईज्या, डाह
Jeep	जीप
Jeopardize	आपत्ति मे डालना
Jeopardous	आपत्तियुक्त
Jeopardy	विपद्, जोखिम, प्राणसंकट
Jerk	भटका देना, धक्का
Jest	हँसी, परिहास
Jewel	रत्न, जवाहिर
Jeweller	जौहरी
Job	काम, कर्म
Jobber	आढ़तिया, भ्रष्ट, कर्मचारी योजक, दलाल
Jobbery	स्वार्थचरण, अनाचार, भ्रष्टाचार, दलाली
Join	सम्मिलित होना, जोड़ना, पद् प्रहरण करना
Join duty	कार्यप्रहरण करना, पद् संभालना
Joining report	कार्यप्रहरण प्रतिवेदन
Joining time	कार्यप्रहरण काल, योगकाल

Joint	संयुक्त, जोड़, युक्त
— and several	संयुक्त और पृथक्, इकट्ठे और अलग
— estate	अविभाज्य सम्पत्ति, संयुक्त भूसम्पत्ति
— family	संयुक्त परिवार, अविभक्त कुटुम्ब
— liability	संयुक्त दायित्व
— owner	संयुक्त स्वामी
— Secretary	संयुक्त सचिव
— stock company	संयुक्त स्कन्ध समवाय
Jointure	विधवा की सम्पत्ति
Journal	रोजनामचा, पत्रिका
Journalism	पत्रकला, पत्रकारिता
Journey	यात्रा, देशाटन, स्थलयात्रा
Jubilee	जयन्ती, महोत्सव
—, diamond	हीरक जयन्ती
—, golden	स्वर्ण जयन्ती
—, silver	रजत जयन्ती
Judge	निर्णय करना, विचार करना, न्यायाधीश
Judgment	निर्णय, फैसला
— debtor	निर्णीतऋणी

Judge, small cause	अल्पवाद न्यायालय न्यायाधीश
Judicature	न्यायाधिकरण, न्यायपालिका
Judicial	न्यायिक, अदालती न्यायसम्बन्धी
— Department	न्याय विभाग
— enquiry	न्यायिक जांच, न्यायिक परिपृच्छा
— officer	न्यायिक पदाधिकारी
— order	न्यायिक आदेश
— proceeding	न्यायिक कार्यवाही
Judicially	न्यायनुसार, न्यायिक रूप से
Judiciary	न्यायाधीश वर्ग, न्यायपालिका, न्यायाधिकरण
Judicious	न्याययुक्त, विवेक संगत
Judiciously	न्यायपूर्वक, सविवेक
Juggle	इन्द्रजाल करना, धोखा देना
Juggler	वाजीगर, जादूगर
Juncture	सधि, घटनाक्रम, संकटवेता
Junior	अल्पवयस्क, अवर, कनिष्ठ
Juridical	न्यायिक, वैधिक
Jurisdiction	अधिकार क्षेत्र, न्याय क्षेत्र, क्षेत्राधिकार
Jurisdictional	
purposes	अधिकार-क्षेत्रीय प्रयोजन

Jurisprudence	विधिशास्त्र
Jurist	न्याय शास्त्री, विधिवेत्ता, विधि परिषद्दत
Juror	जूरर, न्याय सम्भ्य
Jury	जूरी, न्याय सम्भ्य, जूरी सम्भ्य
Just	न्यायी, यथोचित, न्यायपूर्ण, न्यायानुगत, न्याय्य, न्यायपरायण, ठीक
—and equitable	न्याय और साम्यपूर्ण
—as	जैसा कि
—now	अभी
Justa causa	न्याय्य कारण
Justice	न्याय, न्यायाधीश, न्यायाधिपति
Justifiable	उचित, न्याय्य, न्यायसंगत, न्यायक्षम्य, समर्थनीय
Justification	आौचित्य, दोषमुक्ति, समर्थन
Justified	न्यायानुसत, समर्थित, न्याय संगत, उचित
Justify	समर्थन करना, निर्दोष ठहराना, उचित ठहराना
Justly	न्याय्यत, न्याय रूप से
Justness	न्याय्यता, आौचित्य
Juvenile	तारुणिक, बाल
—delinquency	किशोरों की अपराध-प्रवृत्ति, किशोर कर्तव्य विमुखता

—employment	बाल सेवा योजन
— offender	बाल अपराधी
Juxtapose	निकट रखना, पास पास रखना
Juxtaposition	निकटता, सान्त्रिध्य

# K

<u>Kanungo</u>	कानूनगो
<u>Keen</u>	तीक्षण, तीव्र, प्रबल, प्रखर, कुशाग्र
<u>Keep</u>	अनुपालन करना, रखना, परिक्रमण
<u>— pending</u>	विचाराधीन रखी जावे
<u>— with</u>	नत्थी कीजिये
<u>Keeper</u>	रक्षक, पालक, रखने वाला
<u>Kept in abeyance</u>	आस्थगित
<u>Key-industry</u>	मूल उद्योग, आधार उद्योग
<u>Key-sentence</u>	मुख्य वाक्य
<u>Kidnap'</u>	बालापहरण, अपहरण करना
<u>Kidnapped</u>	अपनीत, अपहृत बाल
<u>Kidnapping</u>	अपहरण, अपनयन, बालापहरण
<u>Kill</u>	जान से मार डालना
<u>Killed and wounded</u>	हताहत
<u>Kiln</u>	भट्टा
<u>Kin</u>	सजातीय, संबंधी, सगोत्र, प्रजाति, जाति
<u>Kind</u>	प्रकार, किस्म, दयालु, कृपालु
<u>— hearted</u>	उपकारी, दयाद्वारा

Kindle	अज्ञवलित करना, उत्तोजित करना
Kindness	सहानुभूति
Kindred	सम्बन्ध, नाता, रिश्ता, सम्बन्धी, समान, तुल्य
Kine-house	पशु-निरोधालय
Kinsman	संवधी, वान्धव, वंशु, सकुल्य
Kith	सित्र, परिचित
— and Kin	निकट सम्बन्धी, कुटुम्बी
Knot	गाठ, गुच्छ
Knotted	गांठदार, गठीला
Know	जानना
Knowable	जानने योग्य
Knowingly	जानकर, जानते हुए, जानवूझकर
Knowledge	ज्ञान, विद्या, परिचय, जानकारी
Known	ज्ञान, विदित, परिचित
-- as	के नाम से ज्ञात होना
--, made	विदित कराया गया

# L

Label	लेबल, नामपत्र, नामपट्टी
Laboratory	प्रयोगशाला
Laborious	परिश्रमी, श्रमसाध्य
Labour	श्रम, श्रमिक, परिश्रम, प्रसव-वेदना
Lacerate	काटना, चीरना
Laches	उपेक्षा, सुस्ती
Lack	अभाव, न्यूनता
Lacuna	अभाव, छूट
Lading	लदाव, बहन
Laiddown	निर्धारित दिये हुए, निर्दिष्ट
Laissez faire	यथेच्छा-कारिता, “रामभरोसे” नीति
Land	भूमि
— acquisition	भूमि प्राप्ति, भू-अर्जन
— alienation	भू-अन्यक्रामण, भूमि हस्तान्तर
— arable	खेत, क्षेत्र भूमि
— fallow	अकृष्ण भूमि, बजरभूमि
— holder	भूधारक, भूमिधारी
— lord	भूस्थामी, जमीदारी

— records	भू-अभिलेख, भू-लेख्यसंग्रह
— revenue	भू-राजस्व, मालगुजारी, भूमि-कर
— survey	भूमापन, पैमाइश, भू-परिमाप
— tenure	भू-धृति, भूधारण
Landing ground	विमान अवतरण भूमि
Lane	गली
Language	भाषा
Lapse	कालातीत होना, समाप्त होना, चूक, व्यपगत होना
Larceny	चोरी
Larder	खाद्य सामग्री, भंडार
Large	विशाल, प्रचुर, बड़ा, बहुत
—, at	अनियन्त्रित
— scale	महानुमाप, बड़ा पैमाना, बृहद् परिमाण
Last	अंतिम, गत
—, at	अन्त मे
— pay	
certificate	अंतिम घेतन प्रमाणपत्र
— preceding	अन्तिम पूर्वमत, पूर्वगामी अन्तिम
Lasting	स्थायी, टिकाऊ
Latch	सिटकनी
Late	देर, विलम्ब, स्वर्गीय, भूतपूर्व

Latent	अव्यक्त, गूढ़, गुप्त, अद्वय
Later	आगे का, उत्तर, पिछला
— half	उत्तरार्द्ध, पश्चार्द्ध
Latest	नवीनतम्, सबसे बाद का
Lathe	खराद, लाठ
Latitude	अक्षांश, स्वच्छन्दता, छूत
Latter	अपर, पिछला, पश्चादुक्त, अपरवती
Laudable	प्रशसनीय
Launch	आरम्भ करना
Lavatory	पेशाबघर, मूत्रालय
Law	विधि, कानून
—,to prescribe by	विधि द्वारा विहित करना
— and order	शान्ति और व्यवस्था
— maker	विधिकर्ता
Lawful	विधिवत, विधिसंगत, विध्युत्सार
Lawfully	विधिपूर्णतया, विधिपूर्वक, विधिपूर्ण
Lawless	विधिविसञ्च, विधिहीन
Lawlessness	अराजकता
Lawyer	वकील, विधिवक्ता, विधिज्ञ
Lax	शिथिल, ढीला
Lay	रखना, लगाना, आगे रखना

— before	समक्ष, रखना
— Claim to	दावा करना
— down	उपनिशिचत करना, निर्दिष्ट करना, त्यागना रख देना
— hands on	पकड़ना, झड़पना
— on the table	पटल पर रखना
Layman	गृहस्थ, सामान्यजन
Layout	अभिन्यास, खाका, योजना
Lead	मार्ग दिखलाना, नेतृत्व करना, प्रारम्भ करना
— a witness	साक्षी को सूचक प्रश्न करना
Leader	नेता
Leading	प्रमुख, दृष्टान्ताव्यक
— article	अग्रलेख
Leaflet	पच्चा, पत्रक, पुस्तिका
League	संघ
Leak	चूना, प्रकट होना, खुल जाना
Leakage	टकपना, प्रकट होना
Leap year	अधिदिन वर्ष
Learn	जानना, सीखना
Learned	विज्ञ, विद्वान्
Lease	पट्टा, ठेका, भाड़ा
— area	पट्टे पर दिया जैत्र

— deed	पट्ट-लेख
— hold	पट्टावार पट्टमूमि, पट्टे पर ली हुई भूमि
— holder	पट्टाधारी
— hold system	पट्टे-दारी पद्धति
—, sub	अधि-पट्टा
Least	अल्प मत, न्यूनतम, कम से कम
— possible delay	शीघ्रातिशीघ्र, यथासम्भव न्यूनतम विलम्ब
Leave	अनुमति, अवकाश, छुट्टी, छोड़ना
— account	अवकाश लेखा
— and deputation	
reserve	अवकाश और प्रतिनियोजन आरक्षित
— application	अवकाश-आवेदन पत्र
—, casual	आकस्मिक अवकाश
—, earned	उपर्जित अवकाश, अर्जित अवकाश
—, extraordinary	असाधारण अवकाश
—, maternity	प्रसूति अवकाश
—, medical	चिकित्सकीय अवकाश
— no stone	
unturned	भरसक प्रयत्न करना
— of absence	अनुपस्थिति-अवकाश, अनुपस्थिति अनुमति
— on average pay	माध्य वेतन पर अवकाश

— on full pay	पूर्ण वेतन पर अवकाश
— on medical certificate	चिकित्सकीय प्रमाणपत्र पर अवकाश
— on medical grounds	भैषजिक कारण अवकाश
— on private affairs	निजी कार्यार्थ अवकाश
— preparatory to retirement	निवृत्ति पूर्व अवकाश
—, privilege	रियायती अवकाश
—, quarantine	स्पर्शवर्जन अवकाश
— reserve	अवकाशारक्षित
— salary	अवकाश वेतन
—, special	विशेष अवकाश
--, study	अध्ययन अवकाश
-- vacancy	अवकाश रिक्ति
— without pay	अवेतन अवकाश
Lecture	व्याख्यान
Lecturer	व्याख्याता, प्रवक्ता
Ledger	खाता, प्रपंजी, लेखावही
Left	वाम, वांया, छोड़ दिया

<b>Leftist</b>	वामपक्षीय, गरमदल का
<b>Left out</b>	छोड़ा हुआ
<b>Legacy</b>	रिक्तभाग, मृत्युपत्र, दायदान, बपौती
<b>Legacy duty</b>	रिक्तदाय शुल्क
<b>Legal</b>	वैधानिक, विधि संबंधी, वैध, कानूनी
<b>— action</b>	वैध क्रिया
<b>— adviser</b>	विधि-परामर्शदाता
<b>— aspect</b>	वैधानिक पक्ष
<b>— assesses</b>	विधिक परिसम्पत्
<b>— character</b>	वैध हैसियत
<b>— documents</b>	विधिक लेख्य
<b>— enactment</b>	विधिक विधायन
<b>— expenses</b>	न्याय व्यय, कानूनी खर्च
<b>— grounds</b>	विधिक कारण
<b>— necessity</b>	वैध आवश्यकता
<b>— practitioner</b>	अभिभाषक, विधि व्यवसायी
<b>— proceeding</b>	कानूनी कार्यवाही
<b>— remembrancer</b>	विधि-परामर्शी
<b>— Secretary</b>	विधि-सचिव
<b>— system</b>	विधि प्रणाली
<b>— tender</b>	विधि-प्राप्ति, विधि मान्य

Legality	वैधता
Lagalize	वैध करना
Legally	वैध स्पेष्ण, वैध रूप से
Legation	दूतावास, दूत
Legible	सुपाठ्य, सुवाच्य
Legislate	विधानकरण, विधि बनाना, व्यास्थापन करना
Legislation	विधान, विधान-निर्माण
Legislative	विधायिनी, विधान-निर्मात्री, विधायी
— assembly	विधानसभा
— council	विधान परिषद्
— Department	विधान विभाग
— power	विधायिनी शक्ति
— procedure	विधायी प्रक्रिया
Legislator	विधायक
Legislature	विधान-मण्डल
Legitimacy	वैधता, औरसता
Legitimate	औरस, न्याय-संगत, वैध, न्यायोचित, युक्त युक्त, यथार्थ
— dues	न्यायोचित प्राप्त्य
— duty	न्याय्य कर्त्तव्य
Legitimation	न्यायीकरण, वैधकरण

Leisure	अवकाश, फुरसत
Lender	ऋणदाता, उधारदाता
Lending	उधार देना
Leper	कोढ़ी, कुष्ठी
— asylum	कुष्ठालय
Leprosy	कुष्ठ
Lessee	पट्टेदार, पट्टाधारी
Lessen	न्यून होना, न्यून करना, कम करना
Lessor	पट्टादाता
Let	अनुमति देना, किराये पर उठाना, भाड़े पर देना
Letter	पत्र, चिट्ठी, अक्षर
— box	पत्र-पेटिका
—, forwarding	प्रेषणपत्र
— of adminis tration	प्रबंधाधिकार-पत्र
— of advice	प्रसूचना पत्र
— of allotment	आवंटन-पत्र
— of apology	क्षमा-याचना पत्र
— of attorney	नियुक्तक पत्र, अधिकार पत्र, मुख्तारनामा
— of credit	प्रत्ययपत्र, साखपत्र
— of introduction	परिचय पत्र

Level	स्तर, तल, समतल, चौरस
Leviable	लगाये जाने योग्य, उद्गृहीत किए जाने वाले
Levied	लगाया हुआ, आवस, आरोपित
Levy	लगाना, आरोपण, उगाइना, आवसि उद्ग्रहण करना
Lex	विधि
— domicilli	निवासाधिकार विधान
Lexicon	शब्दकोष
Lex loci	स्थानीय विधि
Liable	उत्तरदायी, दायित्वाधीन, भागी
Liability	दायित्व, देयवन
— limited	परिमित दायित्व
Liaison	संवध, सम्पर्क, सहकार
— officer	सम्पर्क अधिकारी
Libel	अपमान लेख, निन्दात्मक लेख
Libellous	निन्दात्मक, अपमानजनक
Liberal	उदार
Liberation	मुक्ति, छुटकारा
Liberty	स्वतन्त्रता, स्वाधीनता
Library	पुस्तकालय
License	अनुज्ञापत्र, अनुज्ञासि, लाइसेंस

—holder	अनुज्ञाप्राही
Licensing	
authority	अनुज्ञापत्रदायक प्राधिकारी
Licensee	अनुज्ञाधारी, अनुज्ञापिती
Licensor	अनुज्ञाता, अनुमतिदाता
Lie	असत्य, भूउ, पड़ती रहना, स्थित रहना, होना
Lien	प्रहणाधिकार, पदाधिकार, पूर्व स्वत्व भार सम्बन्ध, संधारणाधिकार, पूर्वाधिकार
— suspended	स्थगित प्रहणाधिकार, स्थगित पूर्वाधिकार
Lieu	स्थान, बदला
Lieutenant	
Governor	उपराज्यपाल
Life	आयु, जीवन, प्राण
— annuity	आजीवन वार्षिक वृत्ति, आजीवन वार्षिकी
— assurance	जीवन बीमा
— convict	आजीवन कैदी
— grant	आजीवन अनुदान
— imprisonment	आजीवन कारावास
— less	निर्जीव
— like	सजीव, ज्यों का त्यों, जीति जागती

— long	आजीवन
— policy	जीवन बीमापत्र
— time	जीवन काल
Lift	लिफ्ट, उठाना
Ligature	वेष्टन, युक्ताक्षर
Light	प्रकाश, हल्का
Like	पसंद, समान, सदृश
Likelihood	सभावना, शक्यता
Likely	सम्भाव्य, सम्भव
Likewise	उसी प्रकार, वैसे ही
Limit	सीमा, मर्यादा, अवधि, परिसीमित करना
Limitation	अवधि, परिसीमन, प्रतिबंध, परिसीमा, मर्यादा
Limited	सीमित मर्यादित
— company	सीमित समवाय
Liability	सीमित, देय
Line	रेखा, पक्षित, वंशान्त्रम
Lineage	परम्परा, वंश, कुल
Lineal	परम्परागत, पैतृक
Linear	रेखा वद्ध, रेखीय
Linger	देर लगाना, हिचकिचाना
Linguist	भाषा विज्ञ, भाषाशास्त्रज्ञ

Linguistic	भाषा विज्ञान, भाषाशास्त्र
Link	सम्बन्ध, मिलाना, कड़ी, शृंखला
Linked	सम्बद्ध
Liquid	तरल, द्रव
Liquidate	अवसायन करना, समापन करना, समाप्त करना, निस्तारण, परिशोधन करना
Liquidation	परिसमापन, निस्तारण, अपाकरण, अवसायन, परिनिर्धारण, विघटन
Liquidator	परिसमापक अधिकारी, निस्तारक, अवसायक
Liquor	मदिरा
Lis pendens	विचाराधीन वाद
List	सूची, सूची बनाना
— concurrent	समवर्ती सूची
Listed	सूचीगत, सूचीबद्ध
List of business	कर्म सूची
Literacy	साक्षरता
Literal	शब्दश , शाब्दिक
Literate	साक्षर, शिक्षित
Literary	साहित्यिक
Literature	साहित्य
Litigant	विवादी

Litigate	विवाद करना, सुकदमेवाजी करना
Litigation	विवाद, सुकदमेवाजी, वादकरण
Livelihood	जीविका, अजीविका
Liver	यकृत, जिगर
Livery	वर्दी, पोशाक, अर्पण
Livestock	पशुधन, जीवधन
Living	निर्वाह, जीवित, सजीव
Load	भार, बोझा, भरना, लादना
Loading	लदाई, भराई
Loan	ऋण उधार
Loans and advances	ऋण, और अग्रग्रहण, ऋण एवं अग्रिम
Loathsome	घृणोत्पादक
Lobby	समा कक्ष, उपकक्ष
Local	स्थानीय, स्थानिक
— board	स्थानीय मण्डली
— body	स्थानीय निकाय
— cesses	स्थानीय कर
— custom	स्थानीय रिवाज
— fund	स्थानीय निधि, स्थानीय प्रणीति
— Self Government	स्थानीय स्वशासन

— tax	स्थानीय कर
— usage	स्थानीय प्रथा
Localisation	स्थान-सीमन, स्थानीकरण
Localised	स्थान-सीमित
Location	स्थान, स्थान-निर्धारण
Lock	ताला
Lockout	तालाबन्दी
Lockup	हवालात, बन्दीखाना
Locomotive	स्वयंचल, चलित्र
Locus standi	वैध स्थिति, स्थिति आधार
Lodge	रहना, करना, प्रस्तुत करना
Log	लट्ठा, काष्ठ-खण्ड
Logbook	रोजनामचा
Logical	तर्कपूर्ण, तार्किक
Long	लम्जा, दीर्घ, दीर्घकाल
— standing	बहुकालिक, पुराना
Longevity	दीर्घ जीवन, आयु
Longitude	देशग्रन्थ र रेखा, रेखांश
Loop-hole	सुराख, रोशनदान
Loose	ढीला, शिथिल, मुक्त, व्यभिचारी, असंयत, खुला

Lop	छाल निकालना
Lord	स्वामी, सामन्त, सरदार
Lordship	श्रीमान्, भवान्, आधिपत्य
—, Your	अत्रभवान्
Lose	खोना, हारना, वंचित रहना
Loss	हानि, घाटा, हार
Lost	लुप्त, खोया
Lot	ढेरी, भाग्य, भाग्यपत्रक, अंश
Lottery	लाटरी, भाग्यदा
Loud-speaker	ध्वनि प्रसारक, ध्वनि विस्तारक
Lounge	आराम करना
Low	निम्न, नीचा, शुद्र, अधम, नीच, मन्द
Lower	अधर, निचला, निम्नतर
—court	निम्न न्यायालय, निचला न्यायालय
— Division clerk	निम्न श्रेणी लिपिक
— House	प्रथम सदन
Loyal	भक्त, अनुरक्त, निष्ठ, राजभक्त
Loyalty	भक्ति, निष्ठा, राजभक्ति, स्वामिभक्ति
Lucid	स्वच्छ, देवीयमान, स्पष्ट
Lucid interval	स्वेच्छ मध्यावकाश
Lucidity	शोभा, स्पष्टता

Luck	संयोग, भाग्य
Luckily	दैवयोग, से भाग्यवश
Luggage	असवाव, सामान
Lukewarm	कुनकुना, मन्दोत्साह
Lump	समूह, पिण्ड, गोला
Lump sum	थोक कम, पिंड राशि, एक मुक्त राशि
Lunacy	उन्माद, मति-विभ्रम, पागलपन
Lunar	चन्द्रग्रह
— Eclipse	चन्द्र ग्रहण
Lunatic	विक्षिप्त, उन्मत्त, पागल
Lunatic asylum	पागलखाना, विक्षिप्तालय
Lunch	मध्याह्न भोजन
Lure	प्रलोभन, फुसलाना
Lurk	छिपे रहना, घात मे रहना
Lurking	लुका हुआ, छिपा हुआ, प्रछन्न, छिपकर
Lust	काम वासना, लालगा
Luxurious	विलासी, सुखभोगी
Luxury	विलास, विप्यसुख
Lying about	बिखरे हुए
Lymph	लिम्फ

# M

Machination	पड्यन्त्र, कुकल्पना, कुटवन्ध
Machine	मशीन, कल, यंत्र
—, numbering	सख्याकन्यन्त्र
Machinery	मशीनरी, यन्त्रकला, साधन, यंत्रजात
Madam	श्रीमती
Made	निर्मित, कृत
— in that behalf	तद्विषयक
— known	विदित कराया गया
— or executed	बनाया अथवा किया गया
— to order	आदेशानुसार निर्मित
Magazine	भण्डार, संचयनिका, शस्त्रागार, पत्रिका
Magisterial	द्रेडाधिकारीय, इण्डनायकीय
-- powers	द्रेडाधिकारीय शक्तियां
Magistrate	द्रेडाधिकारी, मजिस्ट्रेट, द्रेडन्यायाधिकारी
--, City	सिटी मजिस्ट्रेट,
—, District	जिला द्रेडाधिकारी
Magna Charta	महाधिकार-पत्र
Magnet	चुम्बक
Magnetic	चुम्बकीय

Magnification	विशालन, विशालीकरण
Magnificence	वैभव, शोभा, गौरवश्री
Magniloquence	शब्दावधनता
Magnitude	परिमाण, विस्तार, मात्रा, महत्ता, आकार, विशालता
Mail	डाकगाड़ी, डाक
Mailing-list	प्रेषण सूची
Maim	अपांग करना, विकृत करना, अगंहीन करना
Main	मुख्य, मूल, प्रधान
Maintain	बनाए रखना, पोषण करना, स्थिर रखना, भरण-पोषण, संधारण
Maintenance	बनाये रखना, ठीक रखना, भरण-पोषण संधारण
— charges	भरण-पोषण व्यय
— of order	व्यवस्था बनाये रखना
Major	मुख्य, प्रमुख, प्रधान, बड़ा, वयस्क
—head	प्रधान शीर्ष
Majority	बहुसंख्या, बहुमत, अधिकांश, वयस्कता
Make	बनाना, करना, प्रकार, देना
— a contract	संविदा करना
— a false entry	सिद्ध्या प्रविष्टि करना
— out	पता लगाना, समझाना
— up	पूरा करना, पूर्ति करना, बनावट, सजाना

— over	सौंपना, दे देना
Maladjustment	कुव्यवस्था
Mal-administra-	
tion	कुप्रशासन
Malafide	दुर्भाव, अवास्तविक
Malaria	शीतज्वर, मलेरिया
Malconduct	कदाचार, कदाचरण
Maldistribution	कुवितरण
Male line	पितृ-परम्परा
Malice	दुर्भावना, द्वेष
Malicious	दुर्भावनापूर्ण, द्वेषपूर्ण
Malign	दुष्ट, घातक
Malignant	द्वेषपूर्ण, कपटी, कष्टदायक, दुराशयी
Malignantly	द्वेष से
Malingering	रोग का वहाना करना
Malleable	कूटने योग्य, लचीला, कांट छांट कर बढ़ाये जाने योग्य
Malnutrition	अपर्याप्त पोषण
Malpractice	कदाचार, दुष्कर्म, दुराचरण
Maltreatment	कुव्यवहार, दुर्भवहार

Man	पुरुष, मानव, नर, मनुष्य
— at arms	सैनिक
— of letters	साहित्यिक, विद्वान्, साहित्यकार
Manage	प्रबन्ध वरना, संभालना
Management	प्रबन्ध, व्यवस्था
Manager	प्रबन्धक, व्यवस्थापक, प्रबंध कर्ता, कर्ता
Managing	प्रबन्ध
— agency	प्रबन्धाभिकरण
— Agent	प्रबन्धाभिकर्ता, प्रबन्धक प्रतिनिधि
— Body	प्रबन्धक निकाय
— Committee	प्रबन्ध समिति, प्रबन्धकारिणी समिति
— Director	प्रबन्ध संचालक
Mandamus	परमादेश
Mandate	अधिदेश
Mandated	नियोजित, अधिदिष्ट
Mandatory	आदेशात्मक, अधिदेशक
Manhole	मोरीद्वार, मनुष्यविवर
Manhood suffrage	पुरुष मताधिकार
Mania	सनक, उन्माद
Manifest	व्यक्त, स्पष्ट करना, प्रकट करना
Manifestation	प्रकटीकरण, प्रव्यक्ति

Manifesto	संघोषणापत्र, घोषणापत्र, लोक घोषणा
Manifold	विविध वहुगुण
Manipulate	छलयोजन करना, कुशलता से काम लेना, चतुराई से चलाना
Manipulation	छल साधन, हस्त कौशल
Mankind	मानव जाति
Manlike	नररूप, पुरुषोचित
Manly	पुरुषोचित
Manner	रीति, प्रकार, शिष्टाचार
Mannerless	अशिष्ट
Manners	शिष्टाचार
Manoeuvre	दाव पेंच, चाल, कपट प्रयोग
Manor	जागीर, जमींदारी
Mansion	महल, प्रासाद, भवन
Manswear	भूठी शपथ लेना
Manual	मैनूअल, नियमावलि, सार संग्रह, पुस्तिका, हस्त, वास्तविक
— labour	हस्तश्रम, शारीरिकश्रम
— training	हस्तकला, शिक्षण
Manufacture	निर्माण करना, अभिनिर्माण
Manufactured	निर्मित

Manufacturer	निर्माता
Manufacturing	निर्माण, निर्माणकारी
Manure	खाद, उर्वरक
Manuscript	पांडुलिपि, हस्तलेख
Many	अनेक, बहुत
Map	मानचित्र, नकशा
Mappist	मानचित्रकार
Marble	संगमरमर
March	अभियान करना, प्रयाण करना
Margin	पाश्व, सीमान्त, मात्रा अन्तर
Marginal	औपानिक, सीमांत, पाश्व, न्यूनतम
— notes	पाश्व टिप्पणी
— utility	सीमान्त उपयोगिता
Marine	सामुद्रिक नाविक
Marital	वैवाहिक, दास्पत्य
Maritime	सामुद्रिक
Mark	चिन्ह, निर्दिष्ट करना, अंकित करना
Market	बाजार, हाट, मन्डी
Marsh	दलदल, कीचड़
Martial	सैनिक, सामरिक, लड़ाऊ
— law	सैनिक-विधि, सैनिक विधान

Martyr	हुतात्मता, शहीद
Martyrdom	हुतात्मता
Mask	सुखावरण, कवच
Mason	राज, मिस्त्री
Masonry	चिनाई, जुड़ाई
Mass	पुंज, मात्रा, विराट, जनता
— contact	जन-सम्पर्क
Massacre	सामूहिक हत्या
Masses	जनता, जनसाधारण
Master	गुरु, आचार्य, मालिक, स्वामी
Mast°piece	ग्रंथरत्न, उत्कृष्ट कृति
Match	जोड़, मेल, प्रतियोगिता, खेल
Material	सामग्री वास्तविक, सारवान
	सारभूत, आर्थिक
Materialise	कार्यान्वित होना, कार्य मे परिणत होना
Maternal	मातृक, मातृसम्बन्धी
Maternity	मातृत्व, प्रसूति
Matrimonial	वैवाहिक
Matrimony	परिणय, विवाह
Matron	उपचार-निरीक्षका, अधीक्षिका
Matter	विषय, प्रयोजन

---

— in issue	वाद् विन्दु प्रस्तुत विषय
— of course	साधरणत
— of fact	तथ्यात्मक, यथार्थ मे
Mature	परिपक्व, वयस्क, परिपक्व
Maturity	परिपक्ता परिपाक
Maxim	सूत्र, सिद्धान्त, अनुभवोक्ति, नीतिवचन
Maximum	अधिकतम, महत्तम
May be	हो सकता है
— informed accordingly	एतदनुसार सूचना दी जाए
— obtained	प्राप्त किया जाए
— passed for payment	शोधन के लिये पारित किया जाए
Mayor	निगमपति, निगमाध्यक्ष
Meagre	क्षीण, अल्प, थोड़ा
Mean	तुच्छ, नीच, अधम, मध्यक
Meaning	अर्थ
Means	साधन, क्रियापथ, मध्यपद
—, by all	नि सन्देह
—, by any	किसी सी प्रकार से, कैसे ही
—, by no	कभी नहीं

— of communication	संचार-साधन
— of livelihood	जीविका साधन
Meanwhile	इसी बीच में
Measure	माप, नाप, मात्रा, उपाय, तौल
Measurement	माप, नाप
Mechanic	यांत्रिक, यंत्री, शिल्पी
Mechanical	यांत्रिक, कल सम्बन्धी
Medal	पदक
Meddle	हस्तक्षेप करना
Media	माध्यम
Mediate	मध्यस्थ होना, मध्यस्थता करना
Mediation	मध्यस्थता
Mediator	मध्यस्थ
Medical	चिकित्सा-संबंधी, डाक्टरी, स्वास्थ्य
— and Public Health	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
— attendance	चिकित्सक परिचर्या, चिकित्सा
— attendant	चिकित्सक
— Board	चिकित्सा परिषद्
— Certificate	चिकित्सक प्रमाणपत्र, स्वास्थ्य प्रमाणपत्र

— College	चिकित्सा महाविद्यालय
— Department	चिकित्सा विभाग
— examination	चिकित्सीय परीक्षा, स्वास्थ्य परीक्षा
— expenses	चिकित्सा व्यय
— facilities	चिकित्सा संबंधी सुविधाएँ
— grounds	स्वास्थ्य-कारण
— Institution	चिकित्सीय संस्था
— leave	चिकित्सा अवकाश
— man	चिकित्सक
— Officer	चिकित्साधिकारी
— Officer-Incharge	प्रभारी चिकित्साधिकारी
— Practitioner	चिकित्सा-व्यवसायी, चिकित्सक
— relief	चिकित्सीय सहायता
— Report	चिकित्सक-विवरण, चिकित्सक प्रतिवेदन
Medically	स्वास्थ्यतया
— unfit	स्वास्थ्यतया अनुपयुक्त, स्वास्थ्य-दृष्टि से अयोग्य
Medicine	आौपधि, भेषज
Medieval	मध्यकालीन
Meditate	ध्यान करना, विचार करना
Meditation	ध्यान
Medium	माध्यम, साधन, वाहक

Meet	मिलना, मैट करना, अनुरूपहोना, पूर्ति करना, सामना करना
Meeting	अधिवेशन, वैठक, सभा
Melt	पिघलना, पिघलाना
Member	सदस्य, सभ्य, पुरुष, अंग, भाग
— of council	परिषद्य
Memo	ज्ञाप
Memorir	अनुसन्धान लेख, अनुस्मरण लेख, विवरण
Memorandum	ज्ञापन, पत्र, चिट्ठी, स्मारपत्र, संक्षेप लेख, सीमानियम
— of association	संस्था का स्मरण पत्र, संथा ज्ञापन
Memorial	स्मारक, यादगार, अभ्यावेदन
Memory	स्मृति, स्मरण शक्ति
Menace	डराना, कट्टक, भय
Mend	सुधारना, संस्करण
Menial	निम्न, चाकर, भूत्य, घरेलू
— establishment	भूत्य वर्ग
— service	दास्ययोग
— staff	भूत्य वर्ग, निम्नवर्ग, नौकरवर्ग
Men srea	अपराधी मन, पापी मन
Mental	सानसिक

— deficiency	मनोवैकल्प, मानसिक न्यूनता
— hospital	पारगत खाना, मानसिक चिकित्सालय
— weakness	मनोदौर्बल्य, मानसिक दुर्बलता
Mention	उल्लेख, जिक्र, वर्णन
Mentioned	वर्णित, उल्लिखित, उक्त
Mercantile	वाणिज्यिक व्यापारिक
Mercenary	भाड़ीती
Merchandise	पण्य, माल, सौदा
Merchant	वर्णिक, व्यापारी
Merciful	दयालु
Mercy	दया, करुणा
Mere	मात्र, केवल
Merge	विलीन करना, संविलीन करना
Merged	संविलीन, विलीन
Merger	सविलीयन, विलीनकारी, विलिनीकरण, समन्वय
Merit	गुण, पात्रता, कुशलता, औचित्य, योग्यता
—, according to	गुणानुक्रम से, गुणदोपानुसार
Merits	गुण, गुणदोप, गुणावगुण
Mesne	अन्तःस्थ, अन्तःकालीन, मध्यवर्ती
-- profits	मध्यवर्ती लाभ, अन्तःकालीन लाभ

Message	संदेश
Messanger	दूत, संदेश-वाहक, संदेशदार
Messers	सर्वश्री, श्रीयुता
Metal	धातु, रोड़ी, गिट्टी
Metallurgy	धातु विज्ञान
Meteorological	अंतरिक्ष सर्वधी, ऋतु सर्वधी
— office	ऋतु कार्यालय
Meteorolgy	ऋतु विज्ञान
Meter	मान, विद्यु न्मान, मापदण्ड
Method	पद्धति, प्रणाली, रीति
Methodical	यथारीति, रीत्यनुसार
Methylated	प्रोटीनित
Microphone	ध्वनि विस्तारक
Microscope	अणुवीक्षण यंत्र, सूक्ष्म दर्शक यंत्र
Middleman	मध्यजन, दलाल
Midwife	दाई, प्रसाविका
Midwifery	दाई कर्म, धात्री विद्या, प्रसावन कर्म
Might	शक्ति, सामर्थ्य
— is right	जिसकी लाठी उसकी भैस
Mighty	प्रवल
Migrant	प्रत्राजी

---

Migrate	प्रवृजन करना, प्रवसन करना
Migration	प्रवृजन, देशान्तरगमन, प्रवसन
Mild	कोमल, मुखायम, मन्दा, मृदु, सौम्य
Mile	मील
Mileage	मील भत्ता दूरी, प्रति मील व्यय
Military	सैनिक, सेना, सेना सम्बन्धी
Mill	मिल, निर्माण, निर्माण करना, पीसना, लूटना
Milling	पिसना, सिक्के के किनारे, धारी बनाना
Mine	मेरा, खान, सुरंग
Mineral	खनिज
Miniature	लघुस्वरूप, छोटा, सूक्ष्मचित्र
Mining	खनन, खनिकर्म
Minimum	न्यूनतम, कम से कम
Minister	मन्त्री, अमात्य
Ministerial	अनुसचिवीय, लिपिक वर्गीय, प्रशासी, मन्त्रा- लयिक, मन्त्री सम्बन्धी
— party	मन्त्रीपक्ष
Minister in- charge	प्रभारी मन्त्री
Ministry	मन्त्रालय, मन्त्र सभा, मंत्रीगण, मंत्रीत्व

Minor	अवर, लघु, अवयस्क
Minority	अल्पसंख्यक वर्ग, अल्पमत, अवयस्कता
Mint	टकसाल
Mintage	टकन
Minute	टिपणी, मिनट, वृतांश, सूक्ष्म, कार्य-विवरण
— book	कार्यवाही पुस्तक, कार्य-विवरण पुस्तक
Misadventure	अनिष्ट, दुर्गति
Misapplication	दुरुपयोग
Misapprehension	सञ्चम, मिथ्याञ्चम, दुर्भेम
Misappropriate	दुरुपयोग करना, गबन करना, अपाहरण करना
Misbehaviour	दुर्व्यवहार, कदाचार
Miscarriage	गर्भपात, विफलता
Miscellaneous	विविध, फुटकर, प्रकीर्ण
Mischief	कुचेष्टा, आरिष्ट, दुष्कृत्य
Mischievous	शरारती, कुचेष्ट
Misconception	भ्रान्त धारणा, मिथ्या धारणा
Misconduct	दुर्व्यवहार, दुराचार, अवचार, कुसंचालन
Misconstrue	मिथ्या-निष्कर्ण, अशुद्ध अर्थ लगाना
Miscreant	खल, दुष्ट, अधम
Misdemeanour	दुर्वृत्ति, उपअपराध, असदाचरण

Misdirect	विमार्गदर्शन, अपनिदेशन
misfeasance	अधिकार दुरोपयोग, अपकरण
Misfortune	दुर्भाग्य
misjoinder	दु संयोजन
Mislead	बहकाना, पथभ्रष्ट करना, भुलावा देना
Misleading	आमक, भुलावा देना
Mis manage ment	कुप्रबन्ध, घोटाला
Misnomer	सिध्यानाम, अयथार्थनाम, अपनाम
Mispleading	अशुद्धाभिवचन, अभिवचन अशुद्धि
Misprint	मुद्रणदोप, छपाई की भूल
Mis-representa tion	सिध्या वर्णन, भ्रान्त कथन
Miss	चूकना, कुमारी, अपरिणीता
Missing	खोया हुआ, लुप्त
Mission	शिष्ट मन्डल, प्रचारक मन्डल, उद्देश्य
Mistake	त्रुटि, भूल, चूक, अशुद्धि
Mistaken	भ्रमित, आमक, अशुद्धि
Mistress	रखैल, अध्यापिका, गृहिणी, गृहस्वामिनी
Mistrust	सदेह करना, अविश्वास करना
Misunderstanding	भ्रम, गलतफूमी
Misuse	दुरुपयोग, कुप्रयोग करना, दुरुपयोग करना

Mitigate	कम करना, हल्का करना
Mitigation	शमन, कसी, अल्पीकरण
Mix	मिलाना, मिश्रण करना
Mixture	मिश्रण, मिलावट
Mob	भीड़, जमाव, जनसमूह, जनता
Mobile	चलता फिरता चलनशील,
Mock	आभासी, उपहास करना, कृत्रिम
Mode	ढग, रीति, प्रणाली, पद्धति
Model	प्रतिमान, आदर्श, नमूना
Moderate	साधारण, मध्यम, मर्यादित
Modern	आधुनिक, नूतन, अर्वाचीन
Modesty	सतीत्व, शील, नम्रता, लज्जा
Modification	रूपान्तर, संशोधन, परिवर्तन, रूपभेद
Modified	संशोधित, परिवर्तित
Modify	परिवर्तन करना, संशोधन करना, रूपभेदित करना
Modus operandi	कार्य-प्रणाली
Moharrir	मोहर्रिर, लेखक
Moiety	अर्धभाग, आधा भाग, अर्धांश
Moisture	नमी, तरी, अर्द्रता, सील
Molest	सताना, छेड़छाड़ करना

Molestation	अर्द्धन, पीड़ा, बाधा
Moment	क्षण, आवश्यकता, महत्व
Momentary	क्षणिक, अस्थायी
Momentous	महत्व का
Momentum	वेग, गति
Monarch	राजा
Monarchy	राजतन्त्र
Monetary	आर्थिक, मौद्रिक
Money	मुद्रा, धन, द्रव्य
— bill	धन विधेयक
Moneyed	सम्पत्तिवान
Moneylender	साहूकार
Money order	धनप्रेप
Monogamy	एकपत्नीत्व
Monometalism	एक धातुवाद
Monopoly	एकाधिकार एकाधिपत्य
Monotony	एकश्रुति, नीरसता, अभिन्नता
Monsoon	वर्षा ऋतु, वर्षाकालिक वायु
Month	मास, महीना
Monthly	मासिक
Monument	स्मारक

Mood	चित्तवृत्ति, मनः स्थिति
Moor	रजुवन्धन करना
Moot	विवादास्पद
Moral	नैतिक, आचार, सदाचार
Morale	नैतिकस्तर, मन. स्थिति
Morality	नैतिकता, शील, सदाचार
Moratorium	विलम्बकाल
Morbid	विकृत, अस्वस्थ, दूषित
More	अधिक ज्यादा
— or less	लगभग, कम-ज्यादा, न्यूनाधिक
— than once	एक बार से अधिक
Mortal	घातक, नश्वर, मृत्युकारक
Mortality	मरण, मृत्यु
Mortar	चूना, ऊखल
Mortgage	वन्धक, वन्धक रखना
-- Bank	वन्धक अधिकोष
-- bond	वन्धक पत्र
--deed	वन्धक पत्र, वन्धक विलेख
Mortgagee	वन्धकी, वन्धक ग्राही, वन्धकग्रहीता
Mortgagor	वन्धककर्ता, वन्धकदाता
Mortis causa	मृत्युकालिक
Mortuary	मृतगृह, शवरक्षणालय
Mosque	मस्जिद

Mosquito net	मशहरी
Most	सर्वाधिक, अधिकतम, अधिकांश, अत्यन्त
— essential	अत्यन्त आवश्यक
— immediate	सर्वथा तुरन्त, अति तत्काल
— respectfully	सादर
— urgent	अतिशीघ्र, अत्यन्त जरूरी
Mostly	बहुधा, बहुश
Motion	गति, चाल, प्रस्ताव, समावेदन
— for consideration	विचारार्थ प्रस्ताव
— of confidence	विश्वास प्रस्ताव
— of no-confidence	अविश्वास प्रस्ताव
— picture	चल चित्र
Motive	प्रेरणा, प्रयोजन, हेतुक, उद्देश्य
Motor	मोटर, वहिन्द्र
— vehicle	वहिन्द्र वाहन, मोटर गाड़ी
Mould	सांचा, सांचे में ढालना
Moulder	ढालने वाला
Moulding	सुकाना, ढालना
Mount	आरोहण, चढ़ना, पहाड़ी

Movable	चल, अस्थायी
Move	चलाना, हटाना, प्रस्ताव करना, प्रस्तुत करना प्रस्तावित करना, प्रचलित करना
Movement	गति, आनंदोलन, गतिविधि, आना जाना
Mull	नरम करना सुस्त करना, मलमल
Multi	वहु
Multifarious	अनेकार्थ, वहुरूप, विविध, नानारूपी
Multilateral	वहुपक्षीय, वहुदेशीय, वहुपार्श्वीय
Multiple	वहु, वहुविध, वहुगुण, गुणित
Multiplicity	वहुविधता, वाहुल्य, वहुलता
Multiply	गुणन, गुणा करना, संरकावृद्धि करना
Multi-purpose	वहुप्रयोजन, वहुमुखी
— project	वहुमुखी परियोजना, वहुप्रयोजन परियोजना
— scheme	वहुमुखी योजना, वहुप्रयोजन योजना
Mummy	चिरशब, परिरक्षित अव
Municipal	नगरपालीय
— Board	नगर समिति, नगरपालिका
— Committee	नगर समिति, नगरपालिका समिति
— Corporation	नगर निगम
— Council	नगरपालिका परिषद, नगरपालिका निगम
Municipality	नगरपालिका

Manition	युद्ध सामग्री
Murder	बध, हत्या, खून
Murderer	हत्यारा, बधकारी, खूनीं
Muscular	पेशी, पैशीक
Museum	अजायबघर, संग्रहालय, कौतुकालय
Music	संगीत, गान, गायन
Musician	संगीतज्ञ
Musk	कस्तूरी
Musket	बन्दूक
Muster	हाजिरी, उपस्थिति, जुटाना, एकत्र करना
— roll	उपस्थितिवर्ति, उपस्थिति नामावली
Mutation	नामान्तरण, फेरफार
Mutatis mutandis	आवश्यक परिवर्तनों सहित, यथोचित परिवर्तन कर के, यथापरिवर्तित रूप में
Mute	मूँक, मोन, चुप, गूँगा
Mutilated	विकृत, छित्रांग, बिगड़े हुए
Mutilation	अंग भंग, कांट छाट
Minty	गदर, बलवा, सैन्यद्रोह
Mutual	पारस्परिक, परस्पर, आपसी
— consent	पारस्परिक सम्मति
Mutually	परस्पर

-- agreed to	परस्पर संमत
Myself	मैं, स्वयं, स्वतः
Mysterious	रहस्यमय
Mystery	रहस्य
Myth	कल्पना, पुराणकथा, कल्पित कथा

# N

Naib-Tehsildar	नायब तहसीलदार
Naked	अनावृत, नग्न, नंगा, खुला
Name	नाम, नाम रखना, व्याप्ति
Named	नामांकित, निर्दिष्ट
Namely	नामतः, अर्थात्
Narcotic	मादक
Narrate	वर्णन करना
Narration	कथन, वर्णन, कथा, व्याख्या
Narrative	व्रतान्त, विवरण
Narrow	तग, सकुचित, संकीर्ण, सकरा
-- mind	संकीर्ण मनोवृत्ति
Nasty	गंदा, नीच, अरुचिकर
Nation	राष्ट्र, देश
National	राष्ट्रिय
— airways	राष्ट्रिय वायुपथ
— bank	राष्ट्रिय अधिकोष
— Cadet Corps	राष्ट्रिय छात्र सेना
— debt	राष्ट्रियऋण

— Extension

Service Block राष्ट्रिय विस्तार सेवा खण्ड

— highway राष्ट्रिय राजपथ

— Sample Survey राष्ट्रिय न्यादर्श-समधीक्षण

— Savings

Certificate राष्ट्रिय वचत प्रमाणपत्र

Nationality राष्ट्रियता

Nationalization राष्ट्रियकरण

Nationalized राष्ट्रियकृत

Native आदिवासी, मूल निवासी, देशी, स्वेदेशीय, प्राकृत, स्थानीय

Natural

प्राकृतिक, स्वाभाविक, सहज

Naturalisation देशीयकरण

Nature

प्रकार, स्वरूप, प्रकृति

— of work कार्य का स्वरूप

Naval

नाविक, नौ-सेना संबंधी

— force

नाविक बल, नौ-सेना

Navigation

नौ-चालन करना, नौवहन

Navy

नौसेना

Near

निकट, समीप

Nearer

निकटतर, समीपतर

Nearly

लगभग

Neat

स्वच्छ, निर्मल, शुद्ध

**Neatly and clearly स्वच्छ और स्पष्ट रूप से**

<b>Necessaries</b>	आवश्यकताएँ
<b>Necessary</b>	आवश्यक, जरूरी, अनिवार्य
<b>— action</b>	आवश्यक कार्यवाही
<b>Necessity</b>	आवश्यकता, जरूरी
<b>Need</b>	आवश्यकता
<b>—, do the</b>	जो आवश्यक हो सो करे
<b>Needful</b>	आवश्यक, उपयुक्त
<b>Needless</b>	अनावश्यक
<b>Needy</b>	दरिद्र, अभावग्रस्त
<b>Negative</b>	नकारात्मक, नकार, प्रतिचित्र
<b>Neglect</b>	उपेक्षा, प्रमाद करना
<b>Negligence</b>	प्रमाद, असावधानता
<b>Negligent</b>	असावधान, प्रमादी
<b>Negotiable</b>	परक्राम्य, विनियम साध्य
<b>Negotiate</b>	परक्रामण, बातचीत करना
<b>Negotiation</b>	बार्ता, बातचीत, संधि-बार्ता
<b>Neighbour</b>	पड़ौसी
<b>Neighbourhood</b>	पड़ौस
<b>Neighbouring</b>	पास का समीप का, पड़ौसी
<b>Nepotism</b>	स्वजन-पक्षपात, बन्धु-पक्षपात
<b>Nervous</b>	अधीर, धैर्यहीन

Net	जाल, शुद्ध, वारतविक
— advantage	वास्तविक लाभ
— amount	शुद्ध राशि
— Circulation	शुद्ध परिचलन
— cost	शुद्ध परिव्यय
— gain	शुद्ध लाभ
— income	शुद्ध आय
— price	सुद्ध मूल्य
— value	शुद्ध मूल्य
— work	वास्तविक कार्य, जाल
Neutral	मध्यम, तटस्थ, उदासीन, निष्पक्ष
Neutrality	तटस्थता, निष्पक्षता, उदासीनता
Neutralization	तटस्थीकरण
Never	कम नहीं
Nevertheless	तथापि, तो भी, अपितु, फिर भी
New	नव नवीन नया
— fallow	नई पड़ती
— series	नई माला
News	समाचार
— agency	समाचार समिति, संचाद संस्था
— agent	समाचारदाता

— commentary	समाचार समीक्षा, संवाद आलोचना
— correspondent	संवाददाता, समाचारदाता
Newsmonger	गपोड़ा, गप्पीदास
Newspaper	समाचार पत्र
Newsprint	समाचार-सुदृश पत्र
Next	आगला, आगामी, निकटतम
— following	आगे का दूसरा
— friend	वाद प्रतिनिधि
— of kin	निकटतम सम्बन्धी
— working day	आगामी कार्य दिवस
Nice	उत्तम, अच्छा
Nicely	अच्छी प्रकार से, भली भाँति
Nickname	उपनाम
Nil	कुछ नहीं, शून्य
Nip	दबा देना, समाप्त करना, आगे न बढ़ने देना
Nipped in the bud	प्रारम्भ मे दबा देना
No	नहीं
— admission	प्रवेश निपिछ, प्रवेश वर्जित
— admission without permission	बिना अनुज्ञा के प्रवेश निपिछ, बिना अनुज्ञा के अन्दर नहीं आ सकते

— bar	कोई रोक नहीं
— confidence motion	अविश्वास प्रस्ताव
— man'sland	अराजक भूमि
— objection certificate	अनापत्ति प्रमाणपत्र
— throughfare	आम रास्ता नहीं है, जनमार्ग नहीं है
Noble	अभिजात
Noes	“ना” पक्ष, ‘ना’ वाले
Nomenclature	नामपद्धति, नामावलि, परिभाषा
Nominal	नाममात्र, किञ्चित्, साधारण, अवास्ताविक
Nominate	नामीकरण करना, नामनिर्देशन, मनोनीत करना
Nominated	मनोनीत, नामनिर्दिष्ट
Nomination	मनोनयन, नामीकरण, नामनिर्देश
— paper	नामकरण पत्र, नामनिर्देश पत्र
Nominee	मनोनीत व्यक्ति, नामनिर्दिष्ट, मनोनीत
Non	अ, अन्, नहीं, भिन्न, न
— acceptance	अस्वीकृति
— aggression	अनाक्रमण
— agricultural	अकृषिजीवी, कृषि-मिन्न
— agriculturist	अकृपक
— ancestral	अपैतृक
— apparent	अप्रत्यक्ष, परोक्ष

— cognisable	हस्तक्षेप अयोग्य, अहस्तक्षेप्य
— commissioned	अनायुक्त
— compliance	अ-पालन, अननुपालन
— consent	विपक्षी मत
— cooperation	असहयोग, असहकार
— cumulative	असंचयी
— delivery	अप्रदान, अनर्पण, अपरिदान
— divisible	अभाज्य
— effective	असमर्थ
— fulfilment	अपालन, अपूर्ति
— gazetted	अराजपत्रित
— officer	अराजपत्रित अधिकारी
— Hindi speaking areas	अहिन्दी भावी क्षेत्र
— interference	अहस्तक्षेप, निर्बाध, तटस्थता
— intervention	निर्यस्तक्षेप, अहस्तक्षेप
— joinder	असंयोजन
— liability	दायित्वहीन
— observance	अनुपालन, अपालन
— occupancy right	अनाधिपत्य अधिकार, अनाभोगाधिकार, गैरदखली अधिकार
— appearance	अनुपस्थिति
— bailable	जामिन, प्रतिभूति अयोग्य

— official	अशासकीय, अशासनिक, गैरसरकारी,
	अराजकीय
— payment	न चुकाया जाना, न चुकाना
— performance	अपालन
— petitioner	अप्रार्थी
— porous	असोख
— productive	अनुत्पादी
— qualifying	अनहंकारी
— recurring	अनावर्ती, अनावर्तक
— residence	अनिवास
— resident	अनिवासी
— technical post	अप्रावैधिक पद
— testamentary	इच्छापत्र भिन्न, निर्वसीयती
— training period	प्रशिक्षणेतर अवधि
— transferable	अपरावर्तनीय, अन्हस्तान्तर्य
— use	अनुपयोग, कुप्रयोग
— vegetarian	मांसाहारी, सामिप
— violence	अहिंसा
— violent	अहिंसक, अहिंसात्मक
— votable	अमतदेय
— voted	अदृतमत

— working day	अकार्य-दिवस
Noon	मध्याह, दोपहर
Normal	प्रसामान्य, प्राकृतिक, यथाक्रम
— School	अध्यापक-शिक्षालय
Normally	सामान्यता, सामान्यतया, प्रसामान्यता
Not	न, नहीं
—effected	अप्रभावित
—at all	सर्वथा नहीं, कदापि नहीं
— available	अप्राप्य, प्राप्य नहीं
—bearing interest	ज्याज रहित
—below the	
rank of	के पद से कम न हो
— competent	अज्ञम
— contemplated	में अनपेक्षित
— due	द्वितिरिक्त
— enclosed	अनावृत
— exceeding	से अधिक नहीं
— existing	अविद्यमान, अभाव
— guaranteed	अप्रत्याभूत
— guilty	निर्दोष, निर्दोषी

— inconsistent	
with provisions of	के उपवन्धों से असंगत नहीं
—less than	से कम नहीं, कम से कम
—necessarily	अनावश्यक
—otherwise	
provided	अन्यथा अनुपवन्धित, जिसके संबंध में दूसरे उपवन्ध न हो
— otherwise	
specified	अन्यथा उल्लिखित न हों
— proved	अप्रमाणित, सिद्ध नहीं किया गया
— relative	निरपेक्ष
— replied	अनुतरित
—subject to	के अनधीन
—traceable	अप्राप्य, पता नहीं लग रहा
—transferable	अहस्तान्तरणीय
Note	टिप्पणी, रुक्का, नोट, आलोकन
—book	आलोक-पुस्तिका
— cover	टिप्पणी पृष्ठ
—for consideration	विचारार्थ टिप्पणी
Noted	सूचित हुआ, प्रसिद्ध, लिखित, आलोकित
—against	के सामने लिखित

—sheet	टिप्पण पत्र
Notice	सूचना, सूचनापत्र, नोटिस
— Board	सूचना फलक, सूचना पट, नोटिस बोर्ड
—, bring to the	का ध्यान दिलाना, का ध्यान आकृष्ट करना
— of motion	प्रस्ताव की सूचना
— period	सूचनाविधि
Notification	अधिसूचना, विज्ञाप्ति
Notified	असूचित, विज्ञापित
Notify	अधिसूचित करना, अधिसूचना देना
Noting	टिप्पण लिखना
— and drafting	टिप्पण लिखना और प्रारूप बनाना
Notion	भाव, विचार
Notoriety	कुख्याति, विख्याति
Notorious	कुख्यात, विख्यात
Notwithstanding	के होते हुए भी, भले ही चाहे
— anything	किसी बात के होते हुए भी
— anything con-	
tained in the rules	चाहे नियमों में कुछ भी निहित न हो
— anything	
contrary to law	किसी बात के अन्यथा विपरीत होते हुए भी
Nought	शून्य
Nourishment	पौष्टिक आहार, पोषाहार

Novation	नवीन करण
Novel	नया, नवीन, उपन्यास
Novelty	अनूठापन, नूतनता, नवीनता
Now	अब, इस समय
— and then	कभी कभी
— included in	इस समय अन्तर्गत
Noxious	हानिकर
Nucleus	सार, नाभि
Nuisance	कष्टदायक, उपद्रव, अपकृत्य, क्लेश, पीड़ा
Null	शून्य, निरर्थक
— and void	प्रवृत्तिहीन, निष्प्रभाव और निरर्थक, व्यर्थ और शून्य
Nullification	शून्य करण, रद्द करना
Nullity	रद्द करना, निरर्थक करना, निष्प्रभावन
Nullify	शून्यता
Number	संख्या, क्रमांक
— and date	क्रमांक और दिनांक
Numbered	संख्याकृत, क्रमांकित
Numbering	संख्याकरन, क्रमांकन
Numerical	संख्यात्मक
Numerical — data	अंक-सामग्री

---

— order	संख्माक्रम
Numerically	संख्यानुसार
Numerous	बहुत से, अनेक
Numismatics	मुद्रा विज्ञान, मुद्राशास्त्र
Nuncio	पोपदूत, दूत
Nurse	उपचारिका, धाय, धात्री, परिचारिका, पोषण करना, परिचर्या करना
Nursery	शिशुगृह, बीजोद्यान
Nutrition	आहार-पोषण, पोषाहार
Nutritious	पोषक, पुष्टिकारक
Nutritive	पोषक, पौषिक, पौष्टिक

---



Oath	शपथ
—, Commissioner	शपथ-आयुक्त
— of office	पद-शपथ
— of secrecy	गूढ़ता शपथ
—, to administer	शपथ देना, शपथ दिलाना
—, to take	शपथ लेना
Obedience	आज्ञा पालन, आज्ञाकारिता, पालन
Obedient	आज्ञाकारी, आज्ञा पालक
Obey	आज्ञापालन करना, आज्ञा मानना
Obituary	मृत्यु वृतान्त, मृत-नामावलि, मृत्यु संबंधी
Object	उद्देश्य, लक्ष्य, प्रयोजन, आपत्ति करना, अभिप्राय , आक्षेप करना, विषय
— and reason	उद्देश्य एव कारण
Objection	आपत्ति, आक्षेप
Objectionable	आपत्तिजनक
Objective	उद्देश्य, लक्ष्य, वैपरिक, वास्तविक
Obligation	आभार, दायित्व, अनुग्रह ऋण
Obligatory	अनिवार्य, अपरिहार्य, बाध्यकर
Oblige	अनुग्रहण, आभारी बनाना, अनुग्रह करना, बाध्य करना

Oblique	तिरछा
Obliterate	बिगड़ना, मिटाना, अभिलोपन करना
Oblivion	विस्मृति, विस्मरण, भूलजाना
Oblong	आयताकार
Obnoxious	हानिकर, घृणित, वर्जित, कुत्सित
Obscene	अश्लील
Obscenity	अश्लीलता
Obscure	अस्पष्ट, धुंधला, अप्रचलित
Observance	पालन, अवलोकन
Observation	पालन, अवलोकन, वर्णन, निरीक्षण
Observatory	वैधशाला
Observe	पालन करना, देखना सत व्यक्त करना, अवलोकन करना
— punctuality	समय पालन करना
Observed	पालन किया गया, अवलोकित
Observer	अवलोकक, देखने वाला, पालन करने वाला
Obsolescence	अप्रचलन, प्रयोग से हटना
Obsolete	अप्रचलित, निष्प्रयोग, पुराना
Obstacle	बाधा, रोक, रुकावट, अड़चन
Obstruct	बाधा उपस्थित करना, बाधा डालना, रुकावट डालना
Obstruction	बाधा, रुकावट, विघ्न
Obtain	प्राप्त करना, पाना, लेना

Obtainable	प्राप्य
Obtained	प्राप्त, प्राप्त किया
Obviate	दूर करना, हटाना
Obvious	स्पष्ट, प्रत्यक्ष
Occasion	अवसर, मर्योग, प्रसंग
Occasional	आकस्मिक, प्रामुखिक, कभी कभी होने वाला
Occasionally	कभी कभी, यत्र नन्तर
Occidental	पारचात्य
Occupancy	आभोग, दखलकारी, परिसीमा
— right	आभोग अधिकार, अधिवासाविकार, सौहस्री हक
-- tenant	अभिवारिता भाटकी
Occupant	रहने वाला, अधिवासी
Occupation	धन्धा, व्यवसाय, उपजीविका, अधिकार जमाना, अधिवास, आधियत्य
— tax	उपजीविका कर
Occupied	अधिवासित, अधिकार में की गई
Occupier	दखलकार, आभोगी, कब्जेदार, अधिवासी
Occupy	अधिवासित करना, अधिकार करना, घरण करना, दखल करना, वस जाना
Occur	घटित होना, होना, घटना, पाया जाना
Occurrence	घटना, होना

—of a vacancy	पदरिक्ति होना
Octagon	अष्टकोण, अष्टभुज
Octopus	अष्टबाहु
Octroi	चुंगी
Odd	विपम, असाधारण, अयुगम
Odious	घृणाजनक, घृणित, कुत्सित, कलंकास्पद
Odium	घृणा
Offence	अपराध, दोष
—, capital	मृत्युदण्ड योग्य अपराध
Offend	तोड़ना, अपराध करना, भंग करना
Offender	अपराधी
Offensive	घृणोत्पादक, रोषजनक, घृणास्पद, वीभत्स
Offer	प्रस्ताव, प्रस्ताव करना, समर्पण करना
Offered	प्रस्तावित
Offering	बलिदान, भेट, प्रस्ताव, आहुति
Off-hand	तत्काल, हाथोंहाथ, तुरन्त
Office	पद, कार्यालय
—accommodation	कार्यालय-स्थान
—bearer	पदधारी
—copy	कार्यालय-प्रति
—hours	कार्यालय-समय
—manual	कार्यालय-नियमावलि

—note	कार्यालय-टिप्पणि, कार्यालयीन टिप्पणी
—of profit	लाभ-पद्
—of fruit	विश्वास-पद्
—order	कार्यालय-आदेश
—record	कार्यालय-अभिलेख
—Superintendent	कार्यालय अधीक्षक
—to note	कार्यालय नोट करे
Officer	अधिकारी, पदाधिकारी
—, Accounts	लेखाधिकारी
—concerned	सम्बन्ध अधिकारी
—on Special Duty	विशेष कार्याधिकारी
—, Special	विशिष्ट अधिकारी
—subordinate	अधरिक अधिकारी
—Incharge	प्रभारी अधिकारी
Official	शासकीय, सरकारी, राजकीय, पदाधिकारी
—address	कार्यालय का पता
—benches	मन्त्र-वर्ग
—capacity, in	अधिकारी रूप में, पदिय हैसियत से, पद के नाते
—function	अधिकारीय कृत्य
—gazette	राज पत्र
—language	राजभाषा

---

— letter	शासकीय पत्र
— party	मंत्री-पक्ष, अधिकारिक मण्डली
— report	अधिकृत प्रतिवेदन
— residence	पदावास, शासकीय, निवास
-- secret	शासन-गुह्य
— status	अधिकारी स्थिति
— use	शासकीय उपयोग, राजकीय उपयोग
— visit	अधिकारीक आगमन, सरकारी भेट
— work	अधिकारिय काम
Officially	अधिकृत रूप से, शासकीय तौर पर
Officiate	स्थापनापत्र होना
Officiating	स्थानापत्र, कार्यवाहक
— allowance	स्थानापत्र भत्ता
— appointment	स्थानापत्र नियुक्ति, कार्यकारी नियुक्ति
— arrangement	स्थानापत्र प्रबन्ध
— charge	स्थानापत्र प्रभार
— pay	स्थानापत्र वेतन
— post	स्थानापत्र पद
— salary	स्थानापत्र वेतन
Offset	प्रतिसाद, अनुलम्ब
Offspring	सन्तान, प्रसूति



— all occasions	सर्वदा
— an average	माध्यतः
— approval	अनुमोदनार्थ
— arrival	पहुँचने पर
— bail	लग्नक्रमिकत
— behalf of	की ओर से, ..... के लिये
— call	मांग पर
— contract basis	संविदा आधार पर
— deputation	प्रतिनियुक्ति पर, प्रतिनियोजन पर
— duty	कर्तव्यस्थ, काम पर
— grounds of	के आधार पर, के कारण
— his behalf	उसकी ओर से
— inspection	निरीक्षणार्थ
— medical	
grounds	स्वास्थ्य कारणों से
— merits	गुणानुसार, गुणदोष पर, योग्यतानुसार
— oath	शपथपूर्वक, सशपथ
— or about	को अथवा लगभग
— or before	को अथवा पहले
— payment	शोधन पर
— probation	परिवीक्षाधीन, परिवीक्षा पर

- production प्रस्तुत करने पर
- reasonable युक्ति संगत आधार पर
- grounds के मिलने पर
- receipt of के द्वारा भारावमुक्त किए जाने पर, जब श्री...  
भारावमुक्त करें
- relief by मार्ग में
- route
- such terms and  
conditions as ऐसे निवन्धनों और प्रति बन्धों पर जिन्हे वह  
he thinks fit उचित समझे
- the advice of की मन्त्रणा पर
- the contrary इसके प्रतिकूल
- the floor of the  
House सदन में
- the line of की शैली पर, के समान
- the perusal of के परिशीलन पर
- the plea of के वहाने से
- the recommen-  
dation of के अभिस्ताव पर
- the under-  
standing that इस प्रतिवन्ध पर कि
- the whole सामान्यत.

— tour	पर्यटन पर
— transfer	स्थानान्तर पर
Onus	भार, दायित्व
Onward	
transmission	आगे भेजना
Open	खुला, खोलना, आरम्भ करना, प्रारम्भ करना, उद्घाटन करना
— an account	खाता खोलना
— court	खुला न्यायालय
— mind	निष्पक्ष मन
— place	खुला स्थान
— sale	खुली बिक्री
— the case	वाद आरम्भ करना
Opening	प्रारम्भिक, उद्घाटन, छिद्र, मार्ग
Operate	चालू रहना, प्रभाव ढालना, शल्य-क्रिया करना, कार्यान्वित होना, चलाना
Operation	क्रिया, कार्य, शल्य-क्रिया, प्रयोग करना, प्रभावशीलता, प्रभाव में आना
-- of law	विधि का प्रभाव में आना
Operative	सप्रभाव, चालू, क्रियाशील, प्रभावशील
Operator	प्रवर्तक, चालक, प्रचालक

Opinion	मत, अभिमत, विचार, सम्मति, अभिप्राय
— of court	न्यायालय-अभिमत
Opponent	विरोधी, प्रतिद्वन्द्वी, प्रतिपक्षी
Opportunity	अवसर, संयोग
Oppose	विरोध करना
Opposed to public policy	लोक नीति के विरुद्ध
Opposite	सम्मुख, प्रतिकूल, विपरीत, विरुद्ध
Opposition	विरोध, प्रतिपक्ष, विपक्ष
Oppression	पीड़न, अत्याचार
Oppressive	दमनात्मक, अत्याचारी, असह्य
Optimism	आशावाद, श्रेष्ठतावाद
Optimist	आशावान, आशावादी, श्रेष्ठतावादी
Option	विकल्प, पसन्द, इच्छा
Optional	वैकल्पिक, ऐच्छिक
Or	या, अथवा
Oral	मौखिक, जवानी
Orator	सुवक्ता
Orchard	फलोद्यान
Ordeal	कठिन परीक्षा
Order	व्यवस्था, आज्ञा, आदेश, क्रम, शान्ति

—book	आदेश पुस्तक
—, in	यथाक्रम, उचित
— in Council	परिषदाज्ञा, परिषदादेश
— in writing	लिखित आदेश
—, Law and	विधि एवं व्यवस्था
— of censure	प्रतिनिन्दन-आदेश
— of discharge	विमुक्ति आदेश
— of merit	योग्यतानुसार, योग्यता क्रम
— of removal	अपनयन-आदेश
— of seniority	ज्येष्ठता-क्रम
— of suspension	स्थगन-आदेश
—, Standing	स्थायी आदेश
Orderly	अर्दली, व्यवस्थित स्पष्ट में, क्रमबद्ध, आदेशवाहक
Ordinance	अध्यादेश, विशेषाज्ञा
Ordinarily	साधारणतया, साधारणत, सामान्यतया
Ordinary	साधारण, सामान्य
— course	सामान्य क्रम
— leave	साधारण अवकाश
— prudence	साधारण बुद्धि, साधारण प्रब्रता
Ordnance	शस्त्रास्त्र
Ore	कच्ची धातु, अयस्क
Organ	अंग, इट्रिय, साधन, मुख्यपत्र

Organic	प्राणिक, सुधारित, संघटनात्मक
Organisation	संघटन, संगठन, संस्था
Organise	संगठन करना, व्यवस्था करना, आयोजन करना
Organised	संघटित, आयोजित, संगठित
Organiser	आयोजक, संघटन कर्ता
Orient	पूर्व, प्राच्यदेश
Oriental	प्राच्य, पूर्वी
Origin	मूल, उद्गम,
Original	मूल, मौलिक, नवीन, प्रारम्भिक, असल
— copy	मूल प्रति
— draft	मूल प्रारूप
— jurisdiction	मूल अधिकार-देश, मूल ज्ञेत्राधिकार
Originality	मौलिकता
Originally	मूलतः
Originate	आरम्भ करना, उद्भूत होना
Ornamental	अंलंकारिक, शोभा
Ornamentation	अंलंकार
Orphan	अनाथ
Orphanage	अनाथालय, अनाथावस्था
Orthodox	सनातनी, कट्टर रुद्धिवादी
Ostensible	दर्शनार्थ, प्रत्यक्ष, प्रकट, दिखावटी, आडम्बरी
Other	अन्य, दूसरा, अतिरिक्त

— than	के अतिरिक्त, को छोड़कर
— things being	
equal	अन्य बातें समान होने पर
Otherwise	अन्यथा, अन्य प्रकार से
— provided	अन्यथा निवेशित
— specified	अन्यथा उल्लिखित
Oust	निकालना, अपसारण
Ouster	अपसूति, सम्पत्ति अपहरण, निकालना
Out	बाहर
—and out	सम्पूर्ण, पूरा, निशेष
— of date	गतकाल, अप्रचलित, पुराना
— of income	आय में से
— of stock	समाप्त, नहीं है
— of use	उपयोग में नहीं
—to day	आज ही जाना चाहिये
Outbreak	आरम्भ, फैलना, शुरू होना
Outcaste	जातिच्युत करना, जाति भ्रष्ट, जाति बहिष्कृत
Outcome	फल, परिणाम
Outcry	आर्तनाद, हाहाकार
Outdoor	बाह्य, बाहरी
Outflank	पीछे से हमला करना

Outgoing	बाहर जाना, व्यय
Outhouse	उपगृह
Outlaw	अपराधी, विधि वहिष्कृत
Outlay	लागत, व्यय
Outlet	निकास, तिर्गम स्थान
Outline	रूपरेखा
Outlook	दृष्टिकोण
Outlying	दूरस्थ
Outpost	चौकी
Output	उत्पाद, उपज
Outrage	शीलाघात, बलात्कार
—modesty	शील भग करना, लज्जा भंग करना
Outright	पूर्णतया, सम्पूर्ण, पूर्ण रूप से
Outset	आरम्भ मे, प्रारम्भ मे
Outside	बाहर, बाहरी
Outstanding	शेष, प्रदत्त, अप्राप्त, उत्कृष्ट
Outstay	अधिक ठहरना
Outturn	उत्पत्ति, उपज, पैदावार
Outward	निगमी, जाने वाला, बाह्य
Outweigh	से अधिक भारी होना
Oval	अणडाकार
Oven	चूल्हा, तन्दूर

Over	अति, अधि, से ऊपर, से अधिक
— and above	से अधिक, के अतिरिक्त
Overall	समस्त
Overawe	आतंकित करना
Overcome	पार करना, जीतना
Overcrowded	बहुत धना
Overdraft	अधिविकर्ष
Overdraw	अधिक लेना, अधिक निकालना
Overdrawn	अधिकृष्ट
Overdue	कालातीत
Overemphasize	अधिक बल देना
Overestimate	अधिक आंकना
Overflow	ऊपर से बहजाना, परिहार
Overhand	हाथ उठाये हुए
Overhang	ऊपर ढक्कन
Overhaul	सर्वांगीण जांच, जीर्णोद्धार पूर्णपरीक्षण
Overhead	उपरि, ऊपरला
— charge	उपरिव्यय
Overlapping	एक के ऊपर एक
Overleaf	पृष्ठ के दूसरी ओर
Overload	अतिभार

Overlook	ध्यान न देना, उपेक्षा करना
Overpayment	अधिक भुगतान
Over population	अतिजनसंख्या
Override	कुचल देना, आगे चले जाना
Overrule	उलटना अस्वीकार करना
Overrun	पददलित करना
Overseas	समुद्र पार
Oversee	देखभाल करना, पर्यवेक्षण करना, उपेक्षा करना
Overseer	ओवरसीयर, अधिदर्शक, कार्य निरीक्षक
Oversight	भूल, दृष्टि दोप, अनवेक्षा, नज़र चूक
Oversize	अधिपरिमाण
Overstay	अधिक ठहरना
Overstock	अधिक संचय
Oversupply	अधि प्रदाय
Overtime	अधिक समय
Overturп	उलटना, पलटना
Overvalue	अति मूल्यांकन
Overweight	अतिभार
Overwhelm	विहृल करना, व्याकुल करना
Overwhelming	प्रचुर, अत्यधिक
Overwrite	ऊपर लिखना

---

Owe	धारण करना, ऋणी होना
Owing to	के कारण से
Own	स्वामी होना, स्वामित्व होना, स्वीकार करना, अंगीकार करना
Owner	स्वामी
Owner's risk	स्वामी दायित्व
Ownership	स्वामित्व

— — —

# P

Pace	गति, पद
Package	वर्णडल, पुलिन्दा, गट्टा
Packet	पेकेट, पुड़ा
Pact	समझौता, सधि
Paid	बैतनिक, भुगतान
— up	प्राप्त
Pain	पीड़ा, कष्ट, वेदना
Painstaking	उद्योगी
Paint	रंग, रंगना
Pair	युग्म, जोड़ा
Palm	करतल, हथेली, ताड़
Pamphlet	पुस्तिका, पर्चे
Panel	तालिका, क्रमसूची, पटिया
Panic	आतंक, भगदड़, भयभीति
Panicky	भयभीत
Paper	पत्र, कागज
— currency	पत्र-चलार्थ, कागदी चलन
— under consideration	विचाराधीन पत्र, विचारार्थ पत्र

— under disposal	निर्वत्तनाधीनपत्र, व्यवस्थाधीन पत्र
Par	सम
—, above	अधिमूल्य पर
—, at	सममूल्य पर
—, below	अवमूल्य पर
Para	पैरा, अनुच्छेद
Parade	प्रदर्शन, सैनिक व्यायाम, आडम्बर
Paragraph	प्रकरण, परिच्छेद
Parallel	समानान्तर, तुल्य, सदृश, समान
Paralysis	लकवा रोग
Paralyze	गतिहीन कटना, ठप्प करना, स्तम्भित करना
Paramount	सर्वभौम, परम, सर्वोपरि
Paramour	जार, जारिणी, प्रेमी
Paraphernalia	साधसज्जा, लवाजमा, कपड़ालत्ता, वसनभूषण
Parasite	परजीवी, परोपजीवी
Paravion	वायु द्वारा
Parcel	पोटली, पार्सल, खण्ड, अंश, भाग
Parcener	साझी, अशहारी, संदायद
Pardon	क्षमा, क्षमा करना
Parentage	वंश, पिता का नाम
Parents	माता पिता

Parity	समतुल्यता, साम्य, समानता
Park	उद्यान, पड़ाव, खड़ा करना
Parliament	संसद
Parliamentary	संसदीय
Parole	कारावाकाश, बचनबन्ध, प्रतीति
Parricide	गुरुजन हत्या, पितृहत्या, गुरुजन घातक, पितृघातक
Part	अंश, खण्ड, भाग
— and parcel	आवश्यक अंग
— paid	भागत चुकाये गये
— payment	अंशतः शोधन
— performance	अंशतः पालन
Partial	आंशिक, अपूर्ण, भागत, पक्षपाती
Part-time	अंशकाल, अंश-कालिक
Participate	भाग लेना
Particular	विशिष्ट, विशेष
Particular	विवरण, व्यौरा
Partisan	पक्षपोषी, पक्षपाती
Partition	विभाजन, बंटवार
Partly	अंशतः, आंशिक रूप से
Partner	साझेदार, भागीदार
—, active	सक्रिय भागीदार

---

--, dormant	निष्क्रिय भागी
—, nominal	नाममात्र
Partnership	भागिता, साझेदारी
— at will	इच्छाधीन भागिता
— deed	सामीपत्र
Party	पक्षकार, गोष्टी, जलपान
— in power	अधिकारारूढ़ पक्ष
Pass	पारित होना, उर्त्तीण होना, गुजरना, पार करना, प्रवेश-पत्र, पास
Passage	मार्ग, रास्ता, पारण, लेखांश
— allowance	यात्राधिदेय
Pass-book	पास बुक, प्रवेशपत्र-पुस्तक, निजेप-पुस्तिका, ग्राहक-पुस्तिका
Passed	पारित, स्वीकृत
Passenger	यात्री, पथिक
Passion	आवेश, विकार
Passionate	भावुक
Passive	उदासीन, निश्चेष्ट, अकर्मण्य
Passport	पारपत्र, पासपोर्ट
Past	गत, पूर्व, भूतपूर्व
Paste	लेप, लेई

Pasturage	चराई, चराई का अधिकार
Pasture	गोचर, चरागाह, चरना
Patch	टुकड़ा
Patent	एकस्व, स्वाधिकार, प्रकट
Paternal	पैतृक
Path	पथ, मार्ग
Pathology	विकारविद्या, व्याधि-विद्या
Pathologist	विकारशास्त्री, रोगचिकित्सक
Patience	धैर्य
Patient	रोगी, सहनशील, शांत
Patriot	देश भक्त
Patriotism	देश मन्त्रित
Patrol	गश्त लगाना, पहरा देना, परिभ्रमण, परिपक्षी, प्रहरी
Patron	संरक्षक, आश्रयदाता
Patronage	अधिपालन, संरक्षकता, संरक्षण, आश्रय
Pattern	प्रतिरूप, नमूना, प्रतिकृति, आदर्श
Pauper	अकिञ्चन
Pavilion	दर्शक मण्डप
Pawn	आधि, गिरवी रखना, आड़ रखना
Pawnee	आधिमान, गिरवीदार, आड़ग्रहीता

---

Pawner	आधिकर्ता, आडकर्ता, गिरवी रखने वाला
Pay	वेतन, चुकाना, देना, भुगतान करना
—, advance	अग्रिम वेतन
— and allowances	वेतन और भत्ते
— attention	ध्यान देना
— bill	वेतन देयक, पे बिल
— day	शोधन दिन
- of establishment	कर्मचारियों का वेतन
— order	शोधन आदेश
—, personal	वैयक्तिक वेतन
—, presumptive	सम्भावी वेतन
—receipt	वेतन प्राप्ति
— roll	वेतन नामावलि
— slip	वेतन-पर्णी
—, special	विशेष वेतन
—, substantive	मौलिक वेतन
Payable	देय, दिया जाने वाला
—at sight	दर्शने देय
—, in advance	अग्रिम देय
— monthly	मासिक देय
— on demand	मांगने पर देय

— to	को देय
Payee :	आदाता, प्राप्तिकर्ता, पाने वाला
Payer	देने वाला, चुकाने वाला, शोधक
Payment	भुगतान, शोधन
Peace	शान्ति, मंधि
Peak	चरमसीमा, पराकाष्ठा, शिखर
Peasant	किसान, कृपक
Peasantry	कृपक-वर्ग
Peculiar	विचित्र, विशिष्ट, विलक्षण
Peculiarity	विरोपता, वैशिष्ट्य
Pecuniary	आर्थिक, धनस्त्रय
Peddler	फेरीवाजा
Pedigree	वंशावली
Penal	दण्ड विपक्षक, दारिंडक
— Code	दण्ड संहिता
Penalize	दण्ड देना दण्डित करना, शास्ति देना
Penalty	दण्ड, शास्ति
Pend	रोकना
Pendency	लम्बन
Pending	विचाराधीन, लम्बित, ······ पर्यन्त
Pendown strike	लेखनी-हड्डताल

---

Pending	विचाराधीन, के होने तक, तक
— confirmation	पुष्टि तक
-- for disposal	निर्वर्तन के लिये विचाराधीन
- orders	आदेश होने तक
— references	विचाराधीन निर्देश
Penetrate	अन्त, प्रवेश करना, पुसना, बींधना
Penology	दण्ड शास्त्र, कारावास-प्रबन्ध
Pension	निवृत्तिवेतन, पेन्शन
Pensionable	सनिवृति वेतन, निवृत्ति वेतन देय
Pensioner	निवृत्ति वेतन मोगी
Peon	चपरासी
Per	द्वारा, प्रति
— annum	प्रति वर्ष
-- capita	प्रति व्यक्ति
— cent	प्रतिशत
— contra	दूसरी ओर
— diem	प्रतिदिन, दैनिक
— head	प्रति व्यक्ति
— mensem	प्रति मास
— unit	प्रति एकक
Percentage	प्रतिशत, प्रतिशतता

Percept	संवेध, प्रतिवेध
Perennial	चिरजीवी, सदा, वारहमासी
Perfect	सम्पूर्ण, पूर्ण, आदर्श, प्रवीण, सर्वगुण
Perfectly	पूर्णत, पूर्णतया, सर्वथा
Perforate	निच्छिद्रण
Perforated	निच्छिद्रित
Perform	पालन करना, करना
Performance	पालन, अभिनय, प्रयोग, सम्पादन
Perhaps	कदाचित
Period	अवधि, काल, समय
— of grace	अनुग्रहावधि
— of lease	पट्टावधि
— of limitation	अवधि-काल
— of probation	परिवीक्षावधि, परिवीक्षा काल
— of retention	प्रतिधारणावधि, रोकने की अवधि
— of suspension	निलम्बनावधि
— of training	प्रशिक्षण अवधि
Perish	नष्ट होना, क्षय होना, विगड़ना
Perishable	नश्वर, विगड़ने वाली, शीघ्रनाशी
Perjure	कूट शपथ लेना, भूठी शपथ लेना
Perjurer	कूट साक्षी

Permanency	स्थायिता
Permanent	स्थायी
—servant	स्थायी सेवक
— staff	स्थायी कर्मचारी
— transfer	स्थायी स्थानान्तरण
— vacancy	स्थायी रिक्ति
Permissible	अनुज्ञेय, स्वत्कार्य
Permission	अनुज्ञा
Permit	अनुमति देना, अनुज्ञा देना
Perpendicular	लम्ब
Perpetual	सर्वकालिक, निरन्तर, चिरस्थायी, शाश्वत
Perplex	हतबृद्धि करना, घबरा देना
Perquisite	परिलिंग्धि, पुरस्कार
Persist	हठ करना, बना रहना
Persistence	स्थायी, निरन्तर, बारबार, लगातार
Personal	वैयक्तिक, व्यक्तिगत, निजि
— assistant	निजि-सहायक
— file	वैयक्तिक नस्ती
— hearing	वैयक्तिक सुनवाई
— interview	वैयक्तिक भेट, समक्ष भेट
Personality	व्यक्तित्व

Personally	स्वयं, व्यक्तिशः
Personation	परस्परधारण
Personnel	सेवि-वर्ग
Perspective	स्वरूप, दृष्टिकोण
Perspiration	पसीना, स्वेद
Persuade	फुसलाना, मनाना
Persuasion	मनाना, समझाना, वहकाना
Pertaining to	ममत्वन्धी, से संबद्ध
Pertinent	संगत
Perusal	अवलोकन, परिशीलन, वाचन
—, for	अवलोकनार्थ
Peruse	अवलोकन करना, पढ़ना
Pessimism	निराशावाद
Pessimist	निराशावादी
Pessimistic	निराशावादी
Petition	याचिका, याचना करना, आवेदन-पत्र, प्रार्थना पत्र
Petitioner	याचिका-कार, अर्जदार, प्रार्थी
Petrology	शिला-विज्ञान
Petty	छुद्र, लघु, छोटा सोटा
— expenses	छुद्र व्यय

Pharmaceutical	भैप्ज्य
Pharmacopoeia	औषध शास्त्र, भैषज शास्त्र
Pharmacy	भैषजिकी, भैषजालय
Phase	अवस्थाविशेष, रूप, प्रकार
Phenomenon	घटना, दृश्य
Philosopher	दार्शनिक
Philosophy	दर्शन शास्त्र
Phrase	वाक्यांश, शब्द समूह, पदावलि
Phraseology	शब्द रचना
Physic	औषध, भिषविज्ञान, भौतिक शास्त्र
Physical	प्राकृतिक, भौतिक, शारीरिक
— examination	शारीरिक परीक्षण
— features	भौतिक रूपरेखा, शारीरिक आकृति
— fitness	स्वस्थता
— training	व्यायाम, शारीरिक प्रशिक्षण
Physically	शरीर से, शारीरिक रूप से, शरीरत.
— unfit	शरीरतः अयोग्य
Physician	चिकित्सक
Physiology	दैहिकी, शरीर-शास्त्र
Physique	शारीरिक-गठन
Picket	धरना देना, बांधना, टुकड़ी, खूंटा

Pick-pocket	जेब-कतरा
Pick-up weir	काम चलाऊ बन्ध
Picnic	उद्यान-गोष्ठी, गोठ, वन भोजन
Piece	टुकड़ा, अंश
Piecemeal	खरण्डशः, टुकड़ों में
Pier	घाट, पुलिया, खम्भा
Pierce	वींधना
Pigmy	बामन, छुद्र
Pilferage	छोटीमोटी चोरी
Pilgrim	तीर्थयात्री
Pilgrimage	तीर्थ यात्रा
Pillar	स्तम्भ, खम्भा
Pilot	विमान-चालक, कर्णधार, पथदर्शक, संचालन करना
Pioneer	आग्रणी, अगुआ, आविष्कर्ता, मार्गदर्शक
Pious	धर्मशील, धार्मिक, धर्मात्मा
Pirate	समुद्र-डाकू, जलदस्तु
Pit	गड्ढा, गड्ढे में रखना
Pitch	राल, शिखर, उच्चतम, अधिकतम परिमाण, लगाना
Pith	सार, मज्जक

Pity	दया, करुणा
Pivot	खूंटी, केन्द्रविन्दु
Placard	फलक, भिति-पत्र, स्वायपन-पत्र
Place	स्थान, रखना
— and date	स्थान और दिनांक
— and time	स्थान और समय
— before	सामने रखना
— of amusement	विनोद-स्थान
— of birth	जन्म स्थान
— occurrence	घटनास्थल
— of public entertainment	सार्वजनिक मनोरंजन का स्थान
Plague	महामारी, प्लेग
Plain	समतल, सरल, मैदान, कोरा, निरंक, अलिखित, अमुद्रित
Plainant	वादी
Plaint	वाद पत्र, अभियोग
Plaintiff	वादी
Plan	योजना, परियोजना, मानचित्र, रेखाचित्र
Planned	योजनाबद्ध
Planning	योजना बनाना

— and Develop-

ment Department योजना तथा विकास विभाग

Plant पौधा, यन्त्रजाल, पौधा लगाना

Plantain केला

Plantation रोपण, वृक्षारोपण, रोपस्थली, वर्गीचा

Platform भापण मंच, प्लेटफार्म

Plea प्रतिपाद, कारण, तर्क, युक्ति

Plead प्रतिपादन करना, समर्थन करना, वकालत करना

Pleader अभिवक्ता, वकील

Please कृपया

— clarify कृपया स्पष्ट कीजिए

— discuss आपसे बात करनी है. चर्चा करने आइए

— do the needful यथावश्यक कीजिए

— expedite

disposal कृपया निर्वर्तन शीघ्र कीजिए

— find herewith

a copy साथ में प्रति लगी है

— put up with

previous papers पूर्व पत्रों के साथ प्रस्तुत कीजिए

-- refer to को देखिए

-- speak कृपया मिलिए

-- verify and report	सत्यापित कर प्रतिवेदन कीजिए
Pleasure	प्रसाद, प्रमोद
--, at the	के प्रसाद मे
Plebiscite	जनमत, लोकमत
Pledge	प्रतिज्ञा, वंधक रखना, वचन देना
Pledgee	वंधकधारी, गिरवीग्रहीता, वंधकी
Pledger	वंधक दाता, वंधककर्ता
Plenary	सम्पूर्ण, पूर्ण
Plight	दुर्दशा, दीनता
Plinth	निचला भाग, पाया, चबूतरा, कुरसी
Plot	भूखण्ड, स्थल, पड़यंत्र, कपट प्रबन्ध, कथानक
— holder	भूखण्ड धारी
Plough	हल, हल चलाना
Plunder	लूटना, लूटमार
Plural	बहुल, अनेक
— vote	अनेक सख्त्या मत
Ply	झुकना, चलाना
Point	नोक, प्रश्न, विषय, बात, मुद्दा, स्थान
— at issue	विवाद वस्त प्रश्न
— of order	औचित्य प्रश्न, नियमापत्ति

— of view	दृष्टिकोण
Poison	विष, जहर, विष देना
Poisoned	विपाक्त
Pole	वांस, खम्भा, ध्रुव
Police	पुलिस, आरक्षक, आरक्षी
—Department	आरक्षी विभाग
—Station	थाना
Policy	नीति, वीमा-पत्र
Politic	सार्वजनिक, कूटनायिक, नीतिकुशल
Polite	विनीत
Political	राजनैतिक
Politician	राजनीतिज्ञ
Politics	राजनीति
Polity	राज्यपद्धति
Poll	मतदान, मतलेखन, मतसंख्या, मतदान स्थान
— tax	प्रति पुरुष कर, प्रति व्यक्ति कर
Polling	मतदान
Pollute	कलुपित करना, दूषित करना
Polygamy	वहुविवाह
Polygeny	वहुपत्रत्व
Pool	समूह, तलैया, कुँड,

---

Poor	गरीब, दरिद्र, अल्प हीन
Popular	लोकप्रिय, सर्वप्रिय
P. M.	अपराह्न
Population	जनसंख्या, आवादी
Porch	द्वार मण्डप
Port	बन्दरगाह, पतन, छिद्र, द्वार
Portable	सुवाहनीय, हस्तवाह्य, बाल्य
Porter	द्वारपाल, हसाल
Portfolio	विभाग
Portion	प्रभाग, अंश, हिरसा
Portrait	चित्र, तस्वीर
Position	स्थान, स्थिति, पद, दर्जा
Positive	निरपेक्ष, निश्चयात्मक, सकारात्मक, निश्चित, साक्षात्
Positively	अवश्य, निश्चित रूप से
Possession	अधिकार, कब्जा, दखल, धारण, स्ववश
Possibility	सम्भावना, शक्यता
Possible	सम्भव, शक्य
Possibly	कदाचित्, शक्यतया, सम्भवत्
Post—	पद, स्थान, डाक, प्रेप, चौकी, स्तम्भ, उत्तर,— पश्च

— and Telegraph	डाक और तार
— audit	लेखापरीक्षोत्तर
— card	पोस्टकार्ड
— date	उत्तर दिनांक
— dated	उत्तर दिनांकित
— facto sanction	घटनोत्तर सम्मोदन
— factum	घटनोत्तर, घटना-पश्चात्
— graduate	स्नातकोत्तर
— man	डाकिया, पत्र वाहक
— martem	मरणोत्तर, शव परीक्षा
— natal	जन्मोत्तर, प्रसवोत्तर
— office	डाकघर
— pone	विस्थिति करना, स्थिति करना
— script	पश्च-लेख, पुनर्श्चय
— war	युद्धोत्तर
Postage	डाक व्यय, प्रैष शुल्क
Postal	प्रैष, प्रैष, डाक
— address	डाक पता
— guide	डाक पुस्तिका
— order	प्रेणादेश
Posted . .	प्रविष्ट, चढ़ाया हुआ
Poster	विज्ञापनपत्र, विज्ञाप्ति

Posterity	संतति, भावी संतति, संतान
Posthumous	मरणोत्तर, मरणोपरान्त
Posting	प्रेपण, भेजना, चढ़ाना, पद-स्थापना
-- and transfer	का पद-स्थापन और स्थानान्तरण
Posts borne on the cadres of	के संवर्ग पर धृत पद
Potent	शक्तिशाली
Potential	गुप्त, संभावित, सम्भावी, शक्य
Potentiality	क्षमता, शक्ति, संभाविता
Pottery	मिट्टी के वर्तन
Pouch	थैला, धान, शिशुधान, अस्त्रधान
Poultry	मुर्गीखाना, कुम्कुट पालन
Pound	पौड़, मवेशीखाना, कांजीहौस
Poundage	निरोध शुल्क, निरोधालय शुल्क
Powder	पाउडर, चूर्ण, बारूद
Power	शक्ति, विद्युत, अधिकार, क्षमता
-, conferment of	शक्ति का प्रदान किया जाना
--, exercise of	शक्ति का प्रयोग
--, of attorney	प्रतिनिधि पत्र, प्रतिनिधि अधिकार पत्र
-- of authority	प्राधिकार शक्ति

— of propulsion	चालक शक्ति
—, to assume	अधिकार ग्रहण करना, सत्ता रुढ़ होना
— to exempt	मुक्त करने की शक्ति
— to relax rules	नियम शिथिल करने की शक्ति
Practicable	व्यावहारिक, साध्य, यथा साध्य, व्यवहार्य
Practical	व्यावहारिक, व्यवहारात्मक, क्रियात्मक
Practice	व्यवहार, आचार, आचरण, प्रथा, प्रयोग, अभ्यास, व्यवसाय
Practise	प्रयोग करना, अभ्यास करना, करना
Praise	प्रशसा स्तुति
Pre	पूर्व, अग्र
— audit	पूर्व लेखा परीक्षा
Preamble	प्रस्तावना, प्राक्कथन, भूमिका
Precarious	पराधीन, अनिश्चित, संश्यात्मक
Precaution	पूर्व सावधानी, सावधानी
Precedent	पूर्व निर्णय, पूर्व पालनीय, दृष्टान्त
Precede	पहले आना, पहिले होना
Precedence	पूर्वता, आदिता, पूर्ववर्तिता, पूर्वस्थान, अग्रमान्यता
Precedent	पूर्वस्थान, पूर्वता, अग्रगामी, पूर्वभावी, पूर्वोदाहरण, दृष्टान्त

Preceding	पूर्ववर्ती, पूर्वगत, पूर्वगामी, पहला
Percept	अनुज्ञा, आदेशिका, उपदेश
Precious	वहुमूल्य, अनमोल, किमती
— stones	जवाहिरात, मूल्यवान पत्थर
Precise	स्पष्ट, यथार्थ, ठीक ठीक
Preclude	प्रतिवारित करना
Pre-conception	पूर्वधारणा, पूर्वचिन्तन
Predecessor	पूर्वाधिकारी, पूर्ववर्ती, पूर्वानुवर्ती
Pre-determine	पूर्व निश्चय करना
Predict	भविष्यवाणी करना
Pre-dominant	प्रबल, प्रभावी, प्रचुर, बहुत
Pre-emption	हक्कशाफा
Preface	प्रस्तावना, भूमिका, प्राक्कथन, अमुख
Prefect	अधिकारिक, प्रशासक, नायक
Prefer	पसंद करना, अधिक चाहना, दायर करना
Preferable	अधिमान्य, श्रेष्ठतर
Preference	अधिमान, पूर्वाधिकार, अधिक पसन्दी
Preferential	अधिमान्य, विशेष
Preferred	अधिमत
Prefix	पूर्वस्थापन करना, आगे जोड़ना, उपसर्ग
Pregnancy	गर्भावस्था

Pregnant	गर्भवती, सारगर्भित, अर्थगर्भित
Prehistoric	प्रागैतिहासिक
Prejudge	पूर्वनिरणेय करना
Prejudice	प्रतिकूल प्रभाव, विपरीत प्रभाव, प्रतिकूलता
Prejudicial	प्रतिकूल, हानिकारक
Preliminary	प्रारम्भिक, प्राथमिक
Prelude	प्रस्तावना, आमुख
Pre-mature	असमय, अकालिक, समय पूर्व, कालपूर्व
Premeditate	पूर्वविचार करना, पूर्वचिन्तन करना
Premier	प्रधान मंत्री, महा मन्त्री
Premises	भू-गृहादि, पक्ष, मकान, परिसर, स्थान
Premium	प्रव्याजि, अधिशुल्क, प्रीमियम
Preoccupied	तल्लीन, मग्न, अन्यमनस्क
Preparation	तैयारी, निर्मित पदार्थ
Preparatory	प्राथमिक, प्रारम्भिक
 — to retirement,	
leave	निवृत्ति-पूर्व अवकाश
Prepare	तैयार करना, बनाना
Pre-plan	पूर्वयोजन करना
Pre-planned	पूर्वयोजित
Preponderance	प्रवलता, प्रधानता, वाहुल्य, अधिकता

Prerogative	परमाधिकार
Prescribe	निर्धारित करना, विहित करना, नियत करना
Prescribed	विहित, निर्धारित, विधियत
Prescription	परम्पराधिकार चिरकालिकी, चिरभोगाधिकार, औषधनिदेश
Presence	उपस्थिति, वर्तमानता, समक्ष
Present	विद्यमान, उपहार, उपस्थित
Presentation	प्रस्तुति, उपस्थान, उपहार, भेंट
Presented	प्रस्तुत किया, उपस्थित किया गया
Preservation	सुरक्षणा, परिरक्षण
Preserve	सुरक्षित रखना, परिरक्षण करना
Preserved	परिरक्षित
Preside	सभापतित्व करना, अध्यक्षता करना, पीठासीन होना
President	प्रधान, राष्ट्रपति, सभापति
Presiding —officer	अध्यासीन, पीठासीन
Press	अधिप्राप्ता, अध्यासीन अधिकारी
Pressing	दबाना, जोर देना, प्रे स, मुद्रणालय
Pressure	अनुरोध, भारी, अविलम्ब
Prestige	दबाव, भार
	प्रतिष्ठा, गौरव

Presume	अनुमान करना, उपधारणा करना
Presumption	उपधारणा, अनुमान
Presumptive	सम्भावी, अनुमानिक, धारणात्मक
—pay	सम्भावी वेतन
Presupposition	पूर्व कल्पना
Pretence	वहाना, अपदेश
Pretend	वहाना करना
Pretext	वहाना
Prevail	प्रवल होना, प्रभावित होना, प्रचलित होना, अभिभावी होना
Prevalent	प्रचलित, प्रवल, प्रवृत्त
Prevent	रोकना, निवारण करना, वाधा डालना, रुकावट डालना
Prevention	निवारण, रोक, प्रतिवन्ध
Preventive	निवारक, निरोधक, प्रतिवन्धक, निप्रहात्मक, रोधात्मक
—check	निवारक अवरोध
—detention	निवारक निरोध, निरोधात्मक नियन्त्रण
--measure	निवारणात्मक उपाय
—relief	निवारणात्मक अनुरोध
Previous	पूर्वतन, गत, पहिले की गई, पिछला

Previously	पहिले से
Price	मूल्य, कीमत, दाम
Prima facie	प्रथमावलोक, प्रथम हष्टया, प्रत्येक्षतः
Primarily	मुख्यतः, प्रथमतः
Primary	प्राथमिक, मौलिक, मूल, प्रारम्भिक
Prime	प्रथम, प्रधान, मुख्य
Primitive	आदिम, असभ्य, प्राचीन
Primogeniture	अग्रजाधिकार, ज्येष्ठाधिकार
Principal	मूलधन, प्रधान, मुख्य, मूल, प्राचार्य
Principle	सिद्धान्त, तत्त्व, नियम
Print	छापना, सुद्धित करना
Printed	सुद्धित
Printing	सुद्धण, छपाई
Prior	आग्रिम, पूर्व
Priority	पूर्वता, प्राथम्य, प्राथमिकता, पूर्ववर्तिता
Prison	कारागार, बन्दीगृह, जेल
Prisoner	बन्दी, कैदी
Privacy	गोपनीयता एकान्तता
Private	निजी, व्यक्तिगत, वैयक्तिक, गैरसरकारी, गुप्त

Privilege	विशेषाधिकार आशासकीय, गैरसरकारी, रियायती, उपर्जित
— leave	विशेषाधिकृत अवकाश
Privy	गुप्त, शौचालय, संडास, निजी, व्यक्तिगत
— Council	अन्त परिषद्
— purse	निजी थैली
Prize	पारितोषिक, पुरस्कार
Probable	संभाव्य, समाची
Probably	समवतः:
Probate	मृतलेख प्रमाण, इच्छापत्र प्रमाण, प्रमाणित इच्छापत्र, प्रोबेट
Probation	परिवीक्षा
Probationary	परिवीक्षा, परिवीक्षाधीन
Proactioner	परिवीक्षाधीन, परीक्षाधीन, परिव्याप्तमाणार्थी
Problem	समस्या, प्रश्न
Procedure	कार्य-पद्धति, कार्यप्रणाली, प्रक्रिया
Proceed	आगे बढ़ना, कार्यवाही करना
Proceedings	कार्यवाही
Proceeds	आय, आमदनी, आगम
Process	आदेशिका, विधा, प्रक्रिया, रीति
Procession	जुलूस, सवारी
Process-Server	आदेशिका वाहक
Proclamation	उद्घोषणा

Proclaim	उद्घोषणा करना
Procure	प्राप्त करना, वसूल करना
Procurement	समाहार, प्राप्ति, जमा करना, अन्न संग्रह
Prodigal	अतिव्ययी
Produce	पैदा करना, उत्पादन करना, उपस्थित करना प्रस्तुत करना, पेश करना, उपज, आगम
Production	उत्पादन,
Productive	उत्पादक, उपजाऊ
Proem	उपभूमिका, अवतरणिका
Profess	विश्वास करना, मानना, अंगीकार करना, व्यवसाय करना
Profession	व्यवसाय, धंधा, वृत्ति, पेशा
Professional	व्यावसायिक, वृत्ति कल
Professor	प्राध्यापक
Proficiency	प्रबीणता, विशेष योग्यता, निपुणता
Proficient	प्रबीण
Profit	लाभ
Profitable	लाभदायक, लाभप्रद, लाभकारी
Profiteer	अतिलाभ उठाना, मुनाफाखोर
Profiteering	अतिलाभ, अनुचित लाभ

Professor	ग्राध्यापक
Proforma	क्रमिक, नियमानुसूप, दर्शनार्थी
Progeny	संतति
Programme	कार्यक्रम
Progress	प्रगति, उन्नति
Progressive	प्रगतिशील, प्रगतिवादी, उन्नतिशील
Prohibit	प्रतिषेध करना, निषेध करना, रोकना
Prohibition	मन्दनिषेध, प्रतिषेध, निषेध
Project	परियोजना, परियोजन बनाना
Prolong	लम्बा करना, बढ़ाना
Prolonged	दीर्घकालीन
Prominent	प्रमुख, प्रधान
Promise	प्रतिश्व, प्रतिज्ञा वचन
Promisee	प्रतिज्ञाति, प्रतिज्ञामाही
Promissory note	प्रतिज्ञापत्र, वचन पत्र
Promote	पदावृद्धि करना, पदोन्नति करना, चढ़ाना, बढ़ाना, उन्नति करना, प्रोत्साहन देना
Promoter	संस्थापक, प्रवर्तक
Promotion	पदोन्नति, तरक्की, पद वृद्धि, उन्नति, बढ़ती, प्रोत्साहन
Prompt	सत्त्वर, त्रुन्त, शीघ्र, झटपट, अविलम्ब
Promulgate	प्रकाशित करना, प्रख्यापन करना

Promulgated	प्रचारित किया गया, प्रख्यापित
Promulgation	प्रख्यापन, प्रकाशित करना
Pronounce	उच्चारण करना, घोषित करना सुना देना
Pronouncement	अधिघोषणा, सुनाना
Pronunciation	उच्चारण
Proof	प्रमाण, सबूत, सिद्धि, प्रूफ, शोध्य
Propaganda	प्रचार
Propagate	प्रचार करना
Proper	उचित, यथोचित, ठीक, उपयुक्त, समुचित
— channel	उचित मार्ग
Properly	उचित ढंग से, अच्छी तरह, यथोचित
Property	सम्पत्ति, धन, गुण, स्वभाव
Proportion	अनुपात
Proportionate	आनुपातिक, अनुपाती
Proposal	प्रस्ताव, प्रस्थापना
Propose	प्रस्ताव करना, प्रस्थापित करना
Proposed	प्रस्तावित, प्रस्थापिन
Proposition	प्रस्ताव, प्रस्थापना, प्रमेय
Proprietary	स्वामित्वपूर्ण,
Proprietor	स्वामी, अधिस्वामी, मालिक, स्वत्वधारी
— right	स्वामित्वाधिकार

Propriety	आौचित्य, योग्यता
Pro rata	अनुपाततः
Prorogation	संस्थगन, विसर्जन, सत्त्रावसान, अवसान
Prorogue	- सत्त्रावसान करना, विसर्जित, करना
	समावसान करना
Pros and cons	- पक्ष-विपक्ष, साधक-वाधक
Proscribe	जप्त करना, अवैध-घोषित करना
Prosecute	अभियोग चलाना, अभियोजित करना
Prosecution	- अभियोजन, पैरवी, अभियुक्ति
Prosecutor	अभियोक्ता, अभियोजक
Prospect	अपेक्षा, आशा, प्रत्यासा, भविष्य
Prospective	अपेक्षी, भावी
Prospectus	विवरण-पत्रिका, नियमावली, उद्देश्य पत्रिका
Prosperity	वैभव, समृद्धि, उत्कर्ष, सम्पन्नता
Prosperous	समृद्ध
Prostitute	वेश्या
Prostitution	वेश्यावृत्ति, वेश्याकर्म
Protect	- रक्षा करना, रक्षण
Protected	रक्षित, संरक्षित
Protection	- संरक्षण, संरक्षा
Protector	संरक्षक

Protective	रक्षित
Protest	विरोध करना, प्रत्यापत्ति,
Prove	सिद्ध करना, प्रमाण देना
Proved	प्रमाणित, सिद्ध
Provide	प्रावधान करना, व्यवस्था करना, उपबन्ध करना, देना
Provided	उपबन्धित, परन्तु, ही
—that	किन्तु साथ ही, वशते कि, परन्तु
—further that	परन्तु यह और भी
Providence	भाग्य, विधाता
Provident fund	भविष्य निधि
Province	प्रान्त, प्रदेश,
Provincial	प्रान्तीय, प्रादेशिक
Provision	उपबन्ध, प्रावधान, संभार, रसद, प्रबन्ध, व्यवस्था
—to the contrary	प्रतिकूल उपबन्ध
Provisional	अस्थायी, अन्तःकालीन, काम चलाऊ,
	व्यवस्थात्सक, कार्य निर्वाहिक
Proviso	प्रतिबंध, शर्त, परन्तुक
Provocation	उत्तेजना, प्रकोपना, भड़काव
Provocative	उत्तेजक
Provoke	प्रकोपित करना, उत्तेजित करना, भड़काना

Proximo	आगामी, आगामी मास का
Proxy	प्रतिपत्री, प्रतिहस्त, प्रति पुरुष
Prudent	दूरदर्शी, मितव्ययी, जागरूक, सतक
Psychology	मनोविज्ञान, मनोवृत्ति
Puberty	यौवन, वयस्कता, तारुण्य
Public	जनता, सार्वजनिक, जनसाधारण, लोक
—accounts	लोक लेखा
—affair	सार्वजनिक मामले, लोक कार्य
—conduct	लोकाचरण
—debt	लोक ऋण
—demand	सार्वजनिक अभियाचना
—health	जन स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य
—holiday	सार्वजनिक छुट्टी
—interest	लोकहित, सार्वजनिक हित
—meeting	सार्वजनिक सभा
—notice	सार्वजनिक सूचना
—notification	लोक अधिसूचना
—nuisance	सार्वजनिक कलंक, लोक अपदूषण
—opinion	लोकमत, जनमत
—order	सार्वजनिक व्यवस्था
—prosecutor	सरकारी अभियोक्ता
—resort	सार्वजनिक समागम

— servant	लोक सेवक
— service	लोकसेवा, जनसेवा
— Service	लोक-सेवा आयोग

## Commission

— Works	लोक-कर्म
Publication	प्रकाशन, प्रचार
Publicity	सूचना, प्रचार, प्रसिद्धि
Publish	प्रकाशित करना
Publisher	प्रकाशक
Puisne	अवर, उत्तरवर्ती
Punctual	यथा समय, समय निष्ठ, समय पालक
Punish	दंड देना
Punishment	दंड
Punitive	दण्डात्मक, दण्डरूप
Puppet	कठपुतली
Purchase	खरीदना, क्रय करना, खरीद, क्रय
Purchaser	क्रेता, मोल लेने वाला, ग्राहक
Pure	शुद्ध, अमिश्रित, निर्मल, निर्दोष
Purge	दोपमार्जन
Purport	भावार्थ, अभिप्राय, आशय, सारांश
Purpose	प्रयोजन, उद्देश्य, आशय
Purposely	जानवृभकर

Purse	बटुवा, थैली
Pursuance	अनुसार, अनुसरण, अनुरोध
Pursue	पीछा करना
Purview	व्याप्ति, क्षेत्र, दृष्टिकोण, पर्यवलोकन
Push	ढकेलना
Put	रखना
—an end to	समाप्त करना
— off	टाल देना, स्थागित करना
Put up	प्रस्तुत करना, निवास करना, सामने रखना
— draft	प्रारूप प्रस्तुत कीजिए
— for approval	अनुमोदनार्थ प्रस्तुत कीजिए
— herewith	इसके साथ प्रस्तुत हैं
— immediately	तुरन्त प्रस्तुत कीजिए
— personally	स्वयं प्रस्तुत करे
— previous papers	पूर्वपत्र प्रस्तुत कीजिए

—:—

# Q

Quack	ढाँगी वैद्य
Quadrangle	चतुष्कोण
Quadrilateral	चतुभुज
Qualification	अर्हता, योग्यता
—of candidate	अभ्यर्थी की अर्हता
Qualified	अर्ह, अर्हताप्राप्त, योग्य
Qualify	विशेषण, अर्ह होना, योग्य होना
Qualifying	अर्हकर, योग्यकर
—examination	अर्हकरी परीक्षा
—service	अर्हकरी सेवा
—test	अर्हता परीक्षा
Quality	गुण, लक्षण, श्रेणी
Quantity	मात्रा, परिणाम, राशि
Quantum	मात्रा, परिणाम
Quarantine	निरोधा, करन्तीना
—leave	निरोवा अवकाश
Quarrel	झगड़ा, कलह करना
Quarry	खदान, शिकार

Quarter	चतुर्थांश, चौथाई भाग, शिविर, वास-गृह,
	त्रैमासिक
Quarterly	त्रैमासिक
Quash	खंडित करना, अभिखण्डन
Quasi	अर्थ, प्रतिमानित, आभास
—contract	आभास, संविदा
—permanent	आभास-स्थायी, स्थायी सा, स्थायि कल्प स्थायी-तुल्य
Quell	दमन करना
Query	प्रश्न, पृच्छा, पूछताछ
Quest	अन्वेषण, खोज
Question	प्रश्न, समस्या, आपत्ति करना, प्रश्न करना पूछना
—mark	प्रश्न-चिन्ह
—of fact	तथ्य प्रश्न
—of law	विधि प्रश्न
—papers	प्रश्न पत्र
—to call	शका करना, प्रश्नास्पद करना
Questionnaire	प्रश्नावालि, प्रश्न सूची, प्रश्न माला
Queue	कतार, पक्कित
Quick	शीघ्र, झट से, तेज, आशु

—with child	गर्भिणी, स्पन्दन गर्भा
Quiet	शान्त, निर्विघ्न
Quinquennial	पच वर्षीय
Quintuplicate	पांच प्रतियाँ
Quire	दस्ता
Quisling	घरभेदी, शत्रुपोषी, देश द्रोही
Quit	उन्मोचन, छोड़ना, खाली करना, त्यागना
Quite	विलक्ष्य
Quittance	उन्मोचन, छुटकारा, उन्मुक्ति
Quiz	कूटप्रश्न
Quorum	कोरम, गण-पूर्ति, कार्यवाहक-संख्या
Quota	नियत परिमाण, कोटा, निर्धारित संख्या अभ्यंश, नियत मात्रा
Quotation	उद्धरण, मूल्यांक, कथित मूल्य, अवतरण, मूल्य-तालिका, भाव
Quote	उद्धरण देना, उद्धृत देना, भाव बतलाना
Quoted	उत्कथित, उद्धृत
Quotient	लन्धि, भागफल
Quo warranto	अधिकार पृच्छा

# R

Rabies	जलांतक रोग
Race	जाति, मूलवश्शा, दौड़, स्पर्धा
Racial	जातीय
Rack	अत्यधिक, यातना, यातना देना
—rent	अत्यधिक भाड़ा
Radiant	उज्ज्वल
Radical	अतिवादी, आमूल, मौलिक, महत्व पूर्ण
Radio	आकाशवाणी, नमवाणी
Radiology	क्ष-रश्मि विद्या
Radius	अर्धव्यास, घेरा
Raft	बेड़ा
Rage	क्रोध
Raid	धावा, छापा, आक्रमण, हमला
Rail	रेल की पटरी, रेल
Railing	जगला
Railway	रेल, रेल्वे
Raiment	बस्त्र
Rain	वर्षा
Rainfall	वर्षा, वर्षापात, वारिश

Rain-gauge	वर्पा-मापक
Raise	उपर उठाना, बृद्धि करना, बनाना, उठाना, इकट्ठा करना
Rampant	उदास, उत्र, प्रचण्ड
Random	अव्यवस्था, यों ही, बिना सौचे, निरुद्देश्य
Range	श्रेणी, पंक्ति, विस्तार, परिक्षेत्र, सीमा
Ranger	बनपाल, रेंजर, क्षेत्रपाल
Rank	पंक्ति, श्रेणी, कोटि, पद, पद-स्थिति
—and file	सामान्य जन, जनसाधारण
Ransom	निष्क्रय, बन्दी मोचन, धन देकर छुड़ाना
Rape	बलात्कार
Rapid	द्रुत, शीघ्र, वेगवान
Rare	अप्राप्य, विरल, विरला, दुष्प्राप्य
Rarely	कभी कभी
Rascal	दुर्जन, धूर्त, पाजी
Rash	उतावला, जल्दवाज, दु साहसी
Rate	दर, गति, स्थानीय कर, अनुपात, उपशुल्क
Rateable	आनुपातिक, कर योग्य
Ratification	अनुमोदन, अनुसमर्थन, समर्थन
Ratify	पुष्टि करण, अनुमोदन करना, अनुसमर्थन करना, पुष्टीकृत

Ratio	अनुपात, निष्पत्ति
Ration	अन्न व्यवस्था, अन्न मात्रा, सीधा, बांट, समभाजन
Rational	परिमेय, युक्ति युक्त, युक्ति मूलक विचार शील
Rationalisation	नवीनीकरण, वैज्ञानिकीकरण
Ravage	अवमार्दन, मटियामेट, विघ्वस
Ravish	बलात सभोग करना
Raw	कच्चा, अनिर्मित, अनुभव रहित
Ray	किरण, रश्मि
Raze	विघ्वस करना, धराशायी करना, भूमिसात करना, ढाना
Reach	पहुँचाना, पाना, पहुँच
Reaction	प्रतिक्रिया
Reactionary	प्रतिक्रियावादी, प्रतिक्रियात्मक
Reader	पाठक, पाठ्यपुस्तक, प्रस्तुतकार
Readily	सहर्ष, तुरन्त, सरलता से
—available	सुलभ, सुभाष्य
Reading	पढना, वाचना, पठन
Readjust	पुनर्व्यवस्थापन फरना
Readjusted	पुन समायोजित, पुनर्व्यवस्थापित
Readmission	पुनः प्रवेश

Ready	तैयार, उपस्थित, उद्यत
— money	नकद
— reckoner	संचो-गणक, शीघ्रगणक
Reafforestation	पुनर्वनरोपण
Real	वास्तविक, यथार्थ, असली
Realisation	वसूली, उगाही अनुभव, समझ
Realistic	याथार्थिक
Ream	रीम
Realm	प्रदेश, द्वेरा
Re-appointment	पुर्वनियुक्ति
Re-apprehend	फिर से पकड़ना
Re-appropriation	पुनर्विनियोजन, पुनर्विनियोग
Re arrange	पुनर्विन्दात करना, फिर से लगाना
Reason	कारण, युक्ति, हेतु
— to believe	विश्वास करने का कारण, सप्रमाण विश्वास होना
Reasonable	यथोचित, युक्तियुक्त, युक्तिसंगत, उचित
Reassemble	पुनर्सम्बैठ होना
Reassessment	पुनर्निधारण
Rebate	अवहार, रिवेट, कमी, घटाना, छूट
Rebel	विद्रोही

Rebellion	विद्रोह
Rebuke	डांट-फटकार, धमकाना
Rebut	खंखड़न करना
Recall	फिर बुलाना, प्रत्याह्रान करना, वापस मंगाना
Receipt	प्राप्तिका, पावती, रसीद, आय
— register No.	प्राप्ति पंजी सख्त्या
Receive	स्वागत करना, आदान, प्राप्त करना, पाना
Receiver	पाने वाला, लेने वाला, प्राप्तक, धारक
Recent	नया, हाल का, अभी का, तात्कालिक
Reception	स्वागत, सत्कार, प्रवेश, प्राप्ति
Recess	विश्रान्ति, अल्पावकाश, विराम
Reciprocal	परस्पर, पारस्परिक
Reciprocate	आदान प्रदान करना
Recital	उद्घरण, आख्यान, समनुवर्णन
Recission	विखण्डन
Recitation	अनुवाचन, पठन
Recite	सुनाना, उल्लेख करना
Reckless	निशंक, विना विचारे
Reckon	प्रतिगणना करना, गिना जाना
Reclaim	पुनरोद्धार करना, कृषियोग्य बनाना, सुधारना
Reclamation	पुनरोद्धार, पुनर्प्राप्ति, कृषियोग्य बनाना, सुधार

Reclassification	पुनर्वर्गीकरण
Recognisance	स्वीकृति, मुचलका, प्रतिबन्ध-पत्र
Recognise	पहिचानना, मान्यता देना, अभिज्ञात करना
Recognised	प्रस्वीकृत, मान्यता प्राप्त, अभिज्ञात
Recognition	मान्यता, पहिचान, अभिज्ञान
Recollect	स्मरण करना
Recollection	संस्मरण
Recommend	सिफारिश करना, अभिस्ताव करना, अनुरोध करना
Recommendation	अनुरोध, अनुशंसा, सिफारिश, अभिस्ताव
Recommit	पुनर्प्रेरणा
Reconcile	मेज़ कराना, समझौता करना, समाधान करना, संतुष्ट करना
Reconciliation	समाधान, समझौता
Re-consider	पुनर्विचार करना
Re-consideration	पुनर्विचार
Re-constituted	पुनःसंघटित, पुन स्थापित, पुनर्गठित
Reconstitution	पुनर्गठन
Re-construction	पुनर्निर्माण, पुन सञ्चिरण
Record	अभिलेख, प्रलेख, लेखबद्ध करना
Recorded	अभिलिखित

Recorder	अभिलेखक
Record-keeper	लेख्य-रक्षक, अभिलेखपाल
Record-room	अभिलेखागार, लेख्यागार
Recoup	हानि पूरण करना, पूर्ति करना, भरपाई करना
Recourse	शरण, आश्रय, आसरा
Recover	पुन व्राप्त करना, स्वस्थ होना, वसूल करना, अच्छा होना, संभलना
Recoverable	पुन. प्राप्य
Recovery	आरोग्य लाभ, प्राप्ति, वसूली
Recreation	विनोद, मनोरंजन
Recruit	रंगरूट, भरती करना
Recruitment	भर्ती
Rectangle	आयत
Rectification	परिशोधन, सशोधन
Rectify	शोधन करना, सुधारना, ठीक करना
Rector	अधिष्ठाता, अधिशिक्षक, प्राचार्य
Recurring	आवर्तक, आवर्ती, पुन २ होने वाला, पुनरावृत्त होना
Recusant	दुशील
Redeem	बन्धक मोचन, विमोचन करना, उद्धार करना
Redeemable	विमोच्य, मोचनीय
Red-handed	हाथोंहाथ, रंगे हाथ

Red-letter day	स्वर्ण-दिवस, मगल-दिवस
Redraft	पुन. प्रारूप बनाना
Redress	निवारण करना
Red-tapism	लालफीताशाही, नौकरशाही, दीर्घतंत्रता, दीर्घ सूत्रता
Reduce	कम करना, घटाना
Reduction	कमी, घटना, पदावनत, घटाना
Reelection	पुनर्निर्वाचन
Re-employ	पुनः नौकरी पर लगाना, पुन सेवायुक्त करना
Re-entry	पुन व्रेश
Re-examination	पुर्णपरीक्षा, पुन पृच्छा
Refer	निर्देश करना, संकेत करना, अर्पण करना, भेजना
Referee	निर्देशक, निर्णयिक, पंच
Reference	निर्देश, प्रसंग, सदर्भ, हवाला, उल्लेख
Referred	निर्दिष्ट, अभिदिष्ट
— to above	उपरि-निर्दिष्ट
Refine	परिष्कार करना, शुद्ध करना, परिष्करण
Refinery	परिष्करणी, शुद्ध करने का कारखाना
Refix	फिर से निश्चित करना
Refixation	पुनर्निश्चय

Reflection	प्रतिविम्ब, दोष, कटाक्ष
Reform	सुधारना, सुधार करना
Reformation	सुधार
Reformatory	सुधारालय
Reformer	सुधारक
Refrain	अलग रहना, दूर रहना, विरत रहना
Refresh	प्रत्यास्मरण, जागृत करना
Refresher course	प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम, नवीकरण पाठ्यक्रम
Refreshment	उपाहार, जलपान, अल्पहार
Refrigerator	शीतक, रेफ्रिजरेटर
Refugee	शरणार्थी
Refund	प्रतिदान करना, लौटाना, प्रतिदान
Refundable	प्रतिदेय, लौटाने योग्य
Refusal	अस्वीकृति
Refuse	अस्वीकृत करना, इन्कार करना, कूड़ाकरकट, कचरा
Refutation	निराकरण
Refute	खण्डन करना, निराकरण करना
Regain	पुन प्राप्त करना, वापस पाना
Regal	राजकीय
Regalia	राजचिन्ह

Regard	सम्मान, मानना
Regarding	विषय से, के सम्बन्ध में, के बारे में
Regards, as	के विषय में
Regency	राजप्रतिनिधि मण्डल
Regeneration	पुनर्जन्म, पुनर्जीवन
Regime	रेजीमेन्ट, सेना संवंधी
Regiment	शासन-विधि
Region	प्रदेश, क्षेत्र
Regional	प्रादेशिक, क्षेत्रिक
Register	रजिस्ट्री करना, पंजीयन, पंजी, पंजीबद्ध करना
Registered	रजिस्ट्रीकृत, पंजीयत, पंजीकृत, पंजीबद्ध
— A. D.	प्राप्ति-स्वीकृति
Registrar	रजिस्ट्रार, पंजीयक, निबन्धक, पंजीकार
Registration	रजिस्ट्रीकरण, पंजीयन, निबन्धन, पंजीबन्धन
Regression	प्रतीपायन
Regressive	प्रतिगामी
Regret	खेद् प्रकट करना, खेद्, संताप
Regular	नियमित, नियमशील, नित्य, नियत
Regularity	नियमपूर्वकता, नियमितता
Regulate	विनियमन, व्यवस्थित करना, विनियमित करना
Regulation	नियमन, विनियमित

Regulator	नियामक, गतिव्यवस्थापक
Rehabilitate	पुनर्स्थापित करना, पुनर्वासन
Rehabilitation	पुर्णस्थपन, पुनर्वास, पुनः प्रतिष्ठापन
Re-hearing	पुनः सुनवाई
Rehearsal	पूर्वाभिनय, पूर्व-प्रयोग
Reign	राज्यकाल, राज्यत्व
Reimburse	प्रतिशोधन करना, भरपाई करना पूर्ति करना
Re-imbursement	भरपाई, पूर्ति
Re-instate	पुनराधिष्ठापित करना, पुन स्थापित करना पुनर्नियुक्ति करना, फिर से लगाना
Re-instatement	पुनर्नियुक्ति, पुनराधिष्ठापन
Reiterate	बार बार कहना, दुहराना, फिर से कहना
Reject	अस्वीकार करना, अस्वीकृत करना, खारिज करना
Rejected	अस्वीकृत,
Rejection	अस्वीकृति, अस्वीकरण, खारिजी
Rejoin	उत्तर देना
Rejoinder	प्रत्युत्तर, उत्तरोत्तर
Relate	वर्णन करना, संबंधित होना
Related	सम्बद्ध
Relating to	विषयक, संबद्ध, से संबंधित
Relation	संबंध, नातेदार

Relative	संबंधी, संबंधित, सापेक्ष
Relax	शिथिल करना ढीला करना
Relaxation	शिथिलता, फ्लाई, विश्रान्ति
Relay	प्रवाहित करना, पुनः प्रसारित
Release	समोचन, मुक्ति, छुटकारा, मुक्त करना, छोड़ना
Relevancy	सुसंगति, संबद्धता
Relevant	प्रासंगिक, सुसंगत सम्बद्ध, एतत्संबद्ध
Reliability	विश्वसनीयता
Reliable	विश्वसनीय
Reliance	विश्वास, भरोसा
Relic	अवशेष
Relief	अनुतोप, निवारण, सहायता, अवसोचन पदावसोचन, भारावमुक्ति, मुक्त करना
Relieve	परिमोचन करना, छुड़ाना, सहायता पहुँचाना निवारण करना, हल्का करना, पदावमुक्त करना कार्यमुक्त करना
Relieved officer	भारावमुक्त अधिकारी
Relieving officer	भारावसोचक अधिकारी
Religion	धर्म
Religious	धार्मिक
Relinquish	त्याग करना छोड़ना

Relinquishment	छोड़ना, परित्याग, अवत्याग
Reluctance	हिचक, अनिच्छा, भिमक
Rely	भरोसा रखना
Remain	बच रहना, पडे रहना, पीछे रहना
Remainder	शेष, अवरोप, शेषभोग
Remains	अवशेष
Remand	लौटा देना, प्रतिप्रेषण करना
Remark	टिप्पणी, अभ्युक्ति
Remarkable	अद्भुत, विलक्षण
Remarriage	पुनर्विवाह
Remedy	उपचार, साधन, उपाय, सुधारना, उपचार करना
Remembrancer	परामर्शी, उद्बोधक
Reminder	स्मरण पत्र, अनुस्मारक
Remission	परिहार, छूट
Remissness	शिथिलता
Remit	परिहार करना, छोड़ना, छूट देना, भेजना
Remittance	विप्रेषण, छूट
Remote	दूरस्थ, सुदूर, दूर
Removal	अपनयन, हटाना, अपसारण, निष्कासन

---

Remove	हटाना, निकालना, निष्कासन
Remunerate	पारिश्रमिक देना
Remuneration	पारिश्रमिक, मेहनताना
Renaissance	पुनरुत्थान, नवजागृति
Render	देना, लौटाना, करना, छोड़ देना
Renew	नया करना, नवकरण
Renewal	नवीनीकरण
Renewed	नवकृत
Renounce	त्यागना, छोड़ना, अस्त्रीकार
Renown	कीर्ति, प्रसिद्धि
Rent	भाटक, किराया, लगान
Rental	भाटकीय
Rent free	भाटक मुक्त, माफी
Renunciation	छोड़ देना, त्याग, वैराग्य, सन्यास
Re-organisation	पुनर्संगठन, पुनर्गठन
Repair	मरम्मत, जीर्णोद्धार
Reparation	क्षतिपूर्ति, हानिपूर्ति, भरपाई
Repatriation	पुनर्देशावर्तन, लौटा भेजना
Repay	प्रतिशोधन करना, लौटाना
Repayable	प्रतिदेय
Repeal	निरसन करना, रद्द करना

Repealed	निरसित
Repeat	दोहराना, पुनरावृति करना
Repeatedly	बार बार, पुन
Repel	पीछे हटाना, नकारना, अपास्त करना
Repentance	पश्चात्याप
Repercussion	प्रतिक्रिया, प्रतिप्रभाव
Repetition	पुनरावृति, आवृति
Replace	प्रतिस्थापित करना, के स्थान पर रखना बदल देना, हटा देना
Replacement	प्रतिस्थापना
Replica	प्रतिकृति, प्रतिरूप
Reply	उत्तर देना, उत्तर
Report	रिपोर्ट, प्रतिवेदन, प्रसूचना, प्रतिवेदन देना विवरण देना, सूचित करना, उपस्थित होना
Reporter	सम्बाददाता, प्रतिवेदक
Represent	प्रतिनिधित्व करना, निरूपण करना प्रदर्शित करना, निवेदन करना
Representation	प्रतिनिधित्व, निरूपण, प्रत्यावेदन, अभिवेदन
Representative	प्रतिनिधि
Represented	प्रतिनिधानित, प्रतिनिहित
Repress	हमन करना

Repression	दमन
Rerieve	प्रविलम्बन
Reprimand	भर्त्सना, फटकारना, डांटना
Reproach	उलाहना देना, भर्त्सना करना
Reprobate	अस्वीकार करना
Reproduction	पुनरुत्पादन, प्रतिरूप, पुनरुत्पत्ति
Republic	गणराज्य, गणतंत्र
Republican	गणतन्त्रात्मक
Repudiate	त्यागना, अस्वीकार करना, प्रत्यादिष्ट करना
Repugnance	विरोध, अस्विच्छा
Repugnant	प्रतिकूल, विरुद्ध, अस्विच्छिकर
Repulse	हटाना, घृणा होना, अपर्कपण करना
Repurcussion	प्रतिक्रिया, प्रतिभावना
Reputation	ख्याति, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा
Request	निवेदन करना, प्रार्थना करना, प्रार्थना, निवेदन, आदिष्ट
Require	अपेक्षा करना
Required	अपेक्षित, चाहा गया, आवश्यक
Requiring	आदेश देते हुए, अपेक्षण करते हुए
Requirement	आवश्यकता, अपेक्षा
Requisite	आवश्यक, अपेक्ष्य, अधियाचित
Requisition	अधियाचन, अधियहण, मांग, अर्थना

Rescind	अपखण्डन करना, रद्द करना, काट देना, विखण्डित करना
Rescue	बचाना, मुक्त करना, उद्धार करना, बचाव, उद्धार, छुड़ाना
Research	अन्वेषण, अनुसन्धान, गवेषणा, शोध
Resemble	समान होना, सहश द्वारा होना, मेल खाना
Resemblance	समानता, साहस्र
Resentment	क्रोध, जुब्यता, रोप
Reservation	सुरक्षण, रोक, आरक्षण, पूर्वरक्षण, सकोच
Reserve	आरक्षित, आरक्षित करना, पूर्वरक्षित करना, सकोच
Reserved	संचित, सुरक्षित, रक्षित, पूर्वरक्षित
Reservoir	जलाशय
Reside	निवास करना, रहना
Residence	निवास-स्थान, निवासगृह, निवास
Residency	दूतावास
Resident	अधिवासी, निवासी
Residential	निवासार्थी
Residual	अवशिष्ट, बचा हुआ
Residuary	अवशिष्ट
Residue	अवशेष, अवशिष्ट

Resign	त्यागना, इस्तीफा देना, पदत्याग करना
Resignation	त्यागपत्र, पद त्याग
Resist	प्रतिरोध करना, रोकना, अड़ना
Resistance	प्रतिरोध, विरोध, सहिष्णुता
Res judicata	पूर्वनिर्णीत, निर्णीत विषय प्राड़न्याय,
Resolute	दृढ़संकल्पी, दृढ़निश्चयी
Resolution	प्रस्ताव, सकल्प, निश्चय
Resolve	संकल्प करना, प्रस्ताव करना
Resort	आश्रय, समागम
Resources	साधन, संसाधन, सम्पत्ति
Respect	आदर, प्रतिष्ठा, सम्बन्धी
Respectable	आदरणीय, सम्माननीय
Respective	तत्संबन्धी, क्रमशः, सद्वितीय
Respectively	यथाक्रम, क्रमशः.
Respiration	श्वास लेना, श्वासोच्छ्वास
Respite	प्रास्थगन, विराम
Respond	उत्तर देना, जवाब देना
Respondent	प्रत्युत्तरदाता, प्रतिपक्षी, उत्तरवादी, उत्तरदाता
Response	प्रत्युत्तर, अनुक्रिया
Responsibility	उत्तरदायित्व, जवाबदारी
Responsible	उत्तरदायी, जवाबदार

Rest	शेष, विश्राम, आश्रय, विश्राम करना, आराम करना अवलम्बित करना
Rest-house	विश्राम गृह, विश्रामशाला
Restitution	प्रत्यास्थापन, पुन स्थापन, लौटाया जाना
Restore	पुन. स्थापित करना, लौटाया जाना, प्रत्यावर्तित करना, लौटाना
Restrain	नियन्त्रित करना, अवरुद्ध करना
Restraint	अवरोध, नियन्त्रण, रोक
Restrict	सीमित करना, रोकना संकुचित करना नियन्धित करना
Restriction	प्रतिबन्ध, रोक, निर्बन्धन
Restrictive	प्रतिबन्धक
Resubmit	पुनः प्रस्तुत
Result	परिणाम, फल
Resultant	परिणामी, परिणामस्वरूप, फलस्वरूप
Resume	पुनर्ग्रहण, सारांश, प्रत्यादान करना, फिर से लेना फिर से आरम्भ करना, संचेप
Resumption	पुनर्ग्रहण, पुनरारम्भ, पुनरावृत्ति
Re-survey	पुन. भूमापन
Retail	फुटकर, खुदरा
Retailer	फुटकर व्यापारी

Retain	रखे रहना, रोक रखना, प्रतिधारण करना, अधिकार में रखना
Retainer	सहचर, अनुरक्षण, प्रतिवारक
Retaliate	बदला लेना, प्रतिकार करना, प्रतिशोध करना
Retaliation	बदला, प्रतिशोध, प्रतिकार
Retaliatory	प्रतिकारात्मक
Retard	गति रोकना, धीमा करना
Retardation	प्रतिरोध, मन्दता, विलम्बन
Retention	प्रतिधारण, रोक रखना
Retire	निवृत होना सेवा निवृत होना
Retired	सेवानिवृत्त, निवृत्ति पाप्त
Retirement	निवृत्ति, सेवा निवृत्ति
Retrace	पीछे हटना
Retract	पीछे को हटना
Retraction	प्रतिसंहार
Retransfer	प्रति हस्तान्तरण करना, पुनर्हस्तान्तरण
Retreat	पीछे हटना, मैदान छोड़ना
Retrench	अपवर्तन करना, कमी करना, छटाई करना
Retrenchment	छंटनी, काट छांट, कमी, अपवर्तन
Retribute	फेर देना, पलट देना
Retribution	प्रतिकार, बदला

Retributive	प्रतिकारी
Retrospective	पूर्वलक्षी, भूतलक्षी, भूतप्रभावी, अतीतगमी
Return	वापसी लौटना, फल, लाभ
Returned	प्रत्यावृत्त, लौटाया
—duly endorsed	यथावत् पृष्ठांकन करके लौटाया
Returning officer	निर्वाचन अधिकारी
Returns	विवरणियां, प्रत्यावृत्त, प्रत्याय
Retyped	पुनर्मुद्रित्वित
Revaluation	पुनर्मुल्यन
Reveal	खोलना, उद्घाटित करना, प्रकट करना
Revenge	वद़ला, वैरशोधन
Revenue	राजस्व, आगम
— Board	राजस्व मण्डल
— year	कृषि वर्ष
Revered	सम्मानित
Reverence	सम्मान
Reverse	उलटना, विपरीत, प्रतिकूल, विपर्यय
Reversion	प्रत्यावर्तन, लौटना, विपर्यय, उत्तरभोग
Revert	प्रत्यावर्तन होना, वापिस होजाना, पूर्वपद पर लौटना, प्रतिवर्तन

Reverted	प्रतिवर्तित
Review	समालोचना, आलोचना, समीक्षा, पुनर्विलोक्न
Revise	पुनरावृत्ति करना, दोहराना, पुनरीक्षण करना
Revised	पुनरीक्षित, संशोधित
Revision	पुनरावृत्ति, संशोधन, पुनरीक्षण
Revival	पुनर्जीवन, पुन प्रवर्तन
Revive	पुनर्जीवित करना, पुन प्रवर्तित करना, जबीभूत करना
Revocable	खण्डनीय, निरसनीय
Revocation	खण्डन, निरसन, प्रतिसंहरण
Revoke	खण्डन, निरसन, रद्द करना, प्रतिसंहृत करना
Revolt	विप्लव, विद्रोह, विरोध
Revolution	क्रांति, विद्रोह
Revolutionary	क्रांतिकारी, क्रांतिकारक
Revolve	परिक्रमण करना, चक्कर खाना, धूमना
Revolver	रिवाल्वर, पिस्तौल
Reward	पारितोषिक, इनाम, पुरस्कार
Re-written	पुन लिखित
Rex	राजा
Rhythm	लय, ताल
Rich	समृद्ध, धनी

Rid	मुक्त करना, छुड़ाना
Ridge	किनारा
Ridiculous	अवहास्य, हास्यकर, हास्यास्पद
Rifle	राइफल, बन्दूक
Right	अधिकार, ठीक, सही, न्यायोचित, दाहिना
—, divine	दैवी अधिकार
—, fundamental	मूलभूत अधिकार
— Honourable	महामाननीय, सम्माननीय
Rigid	कड़ा, दृढ़, न लचकने वाला
Rigidity	दृढ़ता, कड़ापन
Rigorous	कठिन, कठोर, सश्रम, सपरिश्रम
Rinderpest	पशु-महामारी
Ring	गुट, गिरोह, चक्कर, अगूठी, घेरा
Ring-leader	बागियों का मुखिया, गुट नेता
Riot	उपद्रव, दंगा, बलवा
Riotous	उपद्रवी, उपद्रवपूर्ण
Riparian	तटीय, तटबर्ती
Rise	उदय, उठना, बढ़ना, उत्कर्ष होना
Rising	उदीयमान, उद्ग्रोह
Risk	जोखिम, भय, दायित्व

Rite	संस्कार, धर्मकर्म
Ritual	संस्कार-पद्धति, कर्मकाण्ड
Rival	विपक्षी, प्रतियोगी प्रतिद्वंद्वी, प्रतिस्पर्धी
Rivalry	प्रतिद्वंद्विता, प्रतिस्पर्धा
River	नदी
River-basin	नदी क्षेत्र
— valley	नदी-वाटी, नदी-दू़ज
Road	सड़क, सार्ग
Roam	भटकना
Roar	गरजना
Rob	लूटना, डाका डालना
Robber	डाकू, लुटेरा
Robbery	डाका, लूट, डकैती
Robe	जामा, घावरा
Robust	पुष्ट
Rock	चट्टान, शिला
Rocket	राकेट, हवाई वान
Rogue	दुष्ट, दुर्जन, धूर्च, खल
Role	भूमिका, भाग, कार्यभाग
Roll	नामावलि, सूची
— Number	नामावलि क्रमांक

Roller	वैलन
Romantic	रोमांचक, अद्भुत
Roof	छत, छापर
—, under the same	एक ही घर में
Room	कमरा, स्थान, अवसर, कक्ष
Roomily	फैलाव से
Roost	वसेरा अड्डा
Root	जड़, मूल, उद्गम
— out	उन्मूलन करना
Rope	रस्सा, रस्सी, डोरी
Roster	पंजी सूधी, पंजिका, नामावली
Rot	सड़ाहट, दुर्गन्ध, गलता, सड़ना
Rotary	परिभ्रामी
Rotation	चक्कर, हेरफेर, आवर्तन, परिभ्रमण
Rotten	सड़ा हुआ, दुर्गन्धयुक्त, गला
Rough	भद्दा, स्थूल, कर्कश, खुरदरा, अशांत
— account	कच्चा, लेखा
— draft	खाका, मसविदा, पाण्डु-लेख

Roughly	स्थूल रूप से, मोटे तौर पर, लगभग
Round	गोल, चक्कर, चारों ओर
— about	चक्करदार
— off	पूर्णक करना, शून्यान्त करना
— up	धेर लेना
Rouse	उत्तेजित करना, जगाना, उकसाना, सचेत करना
Route	पथ, प्रवाण, मार्ग
Routine	नित्यक्रम, दिनचर्या, नियत परिपाटी
— clerk	चर्चा लिपिक
— note	सामान्य टिप्पणी
— work	नित्यकर्म
Rove	अभ्रण करना, परिअभ्रण
Rover	घूमने वाला, समुद्री लुटेरा
Row	कतार, पक्षि, कोलाहल
Rowdyism	हुल्लूड, दंगा
Royal	राजकीय, शिष्ट
— arms	राजोपकरण
Royalty	अधिकार-शुल्क, स्वामित्व
Rub	साफ करना
Rubber	रबड़
Rubbish	कचरा, कूड़करकट, निर्थक, निरुपयोगी

Rude	अभद्र, असम्म्य, अशिष्ट, गंवार, उजड़
Rudely	असम्म्यता से
Ruffian	गुरड़ा
Rug	कम्बल, धुस्ता
Ruggedly	रुखाई से
Ruins	धंसावशेष, खंडहर भग्नावशेष
Rule	नियम, शासन, रेखक, रुल, राज्य करना रेखा खींचना
— of law	विधिनियम
Ruler	राजा, शासक, रेखक
Ruling	व्यवस्था, निर्णय, समादेश
Rummy	विलक्षण
Rumour	गप्प उड़ाना, लोक चार्टा, जनश्रुति, किवदन्ती
Run	दौड़, दौड़ना, चलाना
—, in the long	अन्त में
— at	आक्रमण करना
— hard	ताना मारना
— in debt	ऋण ग्रस्त होना
— off	भाग जाना
— out	वीतना, व्यतीत होना
— over	अन्वेषण करना, जाँचना
— short of funds	पैसे कम पड़ना, निधि कम पड़ना

— up	बढ़ना
— upon	व्याकुल होना
Running account	चालू लेखा
Running of time	समय का जाना
Rupture	फट जाना, फटाव, विदीर्ण करना
Rural	ग्राम्य, ग्रामीण, देहाती, ग्रामसम्बन्धी
— area	ग्राम क्षेत्र
— uplift	ग्रामोद्धार
Rush	दृट पड़ना, अति वेग
Rustic	गंधार, असंस्कृत
Rustication	निकाल देना
Rustle	खड़खड़ाना
Ruth	दया
Ruthful	दयालु, कृपालु
Ruthless	निर्दयतापूर्ण, निर्मोही, क्रूर
Ryot	रैयत

— — —

# S

Sabotage	तोड़फोड़, विध्वस, फोडफाड़ करना
Sack	थैला, बोरा, निकाल देना
Sacrament	संस्कार, प्रतिज्ञा
Sacremental	सांस्कारिक, संस्कारपूर्ण
Sacred	पवित्र
— thread	यज्ञोपवीत
Sacrifice	बलि, बलिदान, त्याग, स्वार्थत्याग, यज्ञ त्याग करना, बलिदान करना
Sacrilege	देवस्वापहरण, धर्मघात
Safe	निरापद, निरावाध, सुरक्षित, तिजोरी
— and sound	भला चगा
— custody	सुरक्षित, संरक्षण, निरापद अभिराक्ष
— guard	वचाव, रक्षा करना, कवच, सुरक्षित रखना
Safely	सुरक्षित रूप से, निर्वाध रूप से
Safety	सुरक्षितता, वचाव, सुरक्षा, चेम
Said	उक्त, कहा
Sailor	नाविक
Salaried	वेतनमोगी, वेतनमुक्त
Salary	वेतन

— bill	वेतन लेखा
Sale	विक्री, विक्रय
— deed	विक्रय पत्र, वैनामा
— tax	विक्रीकर, विक्रय कर
Saleable	विकाऊ, विक्रेय
Salesman	विक्रेता
Salient	प्रधान, मुख्य, स्पष्ट
Salt	नमक, लवण
Salute	अभिवादन, सलामी
Salvage	उद्धार, नाशरक्षित, नाश रक्षण
Same	वही वैसा ही, समान
Sample	नमूना
Sanatorium	आरोग्य-शाला
Sanction	स्वीकृति, संमोदन, मंजूरी देना
Sanctioned	स्वीकृत, स्वीकृत किया
— cadre	स्वीकृत संवर्ग
— scale	स्वीकृत श्रेणी
— strength	स्वीकृत संख्या
Sanctioning	
authority	संमोदन प्राधिकारी
Sane	स्वस्थ मस्तिष्क, स्वस्थचित्

Sanitary	स्वास्थ्य सम्बन्धी, आरोग्यकारी,
Sanitation	स्वच्छता, आरोग्य प्रबन्ध
Satisfaction	सन्तोष, पूर्ति, समाधान, तृप्ति तुष्टि, भुगतान, चुकाना
Satisfactory	सन्तोपजनक, तृष्टिकारक, समाधान करना, सन्तोषप्रद
Satisfied	सन्तुष्ट
Satisfy	सन्तुष्ट करना, पूरा करना भुगतान करना, चुकाना
Savage	जगली, असभ्य
Save	संचय करना, बचाना, अन्यथा, स्मायव छोड़ कर
— as aforesaid	पूर्वोक्त को छोड़कर-
— as expressly provided	स्पष्टत आदिष्ट होने के अतिरिक्त, अभिव्यक्त रूप में उपबन्धित को छोड़ कर
— as otherwise provided	अन्य आशय के उपबन्ध को छोड़ कर
— as provided hereafter	एतत्पश्चात उपबन्धित को छोड़ कर के अतिरिक्त, के विना
— by	
— in accordance with	से अन्यथा

— in so far as	इसके अतिरिक्त
Saving	संचय, बचत, अपवाद
Saviour	उद्धारक, उद्धार-कर्ता
Scaffold	वधन्स्तम्भ, वध-संच
Scale	तुला, पैमाना, मान, तराजू, श्रेणी, छिलका, चढ़ जाना
— down	कम करना, कम से घटाना
—, large	वृहत् परिसार, बड़े पैमाने पर
— of pay	वेतन श्रेणी
— prescribed	निर्धारित वेतन क्रम
Scandalous	अपवाद जनक, निन्दाकारी, वदनाम करने वाले,
Scanty	अपर्याप्त, थोड़ा
Scar	घाव का चिन्ह, क्षति-चिन्ह
Scarce	दुर्लभ, दुष्प्राप्य
Scarcity	दुर्लभता, अभाव, कमी, दुष्काल, अकाल
Scatter	विखेरना
Scene of action	घटना-स्थल
Schedule	अनुसूची, परिशिष्ट, अनुसूचित करना
Scheduled	परिगणित, अनुसूचित, नियत

— area	अनुसूचित क्षेत्र
— caste	अनुसूचित जाति, डलित वर्ग
— time	निर्धारित समय, निश्चित समय
— tribe	अनुसूचित जनजाति
Scheme	योजना, योजना वनाना
Schism	फूट, सतभेट
Scholar	विद्वान्, छात्र
Scholarship	छात्रवृत्ति, विद्वता
School	पाठशाला, विद्यालय, मध्यप्रदाय, प्रशासन
Schoolman	दार्शनिक
Science	विज्ञान
Scientific	वैज्ञानिक
Scold	डांटना, फटकारना
Scope	विस्तार, क्षेत्र, दायरा, उद्देश्य, प्रविष्ट्य
Scorch	झुलसाना, सूख जाना
Scorched earth	
policy	सर्वक्षार नीति
Score	कोड़ी, बीस, कारण, हेतु, ( अंक ) प्राप्त करना, विजयी होना
— out	काटना, निकाल देना

Scout	स्काउट, बालचर
Scrap	दुकडा, खुरचना, निकाल फेंकना
Scrape	खुरचना
Scratch	शून्य, न कुछ, खरोंचना
Screen	चित्रपट, रजतपट, यथानिका, परदा, छानना, छाँटना, पटचित्रण करना
Scribe	लिपिक
Script	लिपि, लेख, हस्तलिखित
Scruples	संकोच, हिचक, किन्तु, पापभीहता
Scrutiny	नूस्म परीक्षा, परिनिरीक्षा, छान वीन
Scuffle	द्वाधापाई, भूमाफटकी
Sculpture	सूति, सूर्तिकला
Sculptured	सूर्तिष्ठृत
Seal	सुद्रा, सोहर, मोहर लगाना, सुद्रा लगाना
Sealed	सुद्राकित, मोहरबन्द
Search	तलाशी, अन्वेषण, खोज, तलाशी लेना हृँढना, खोजना
Season	काल, ऋतु, समय
Seasonal	कालिक, सामयिक
Seasoned	अनुभवी, मंजा हुआ, बुटाहुआ
Seat	आसन, स्थान, वैठक

Secede	पृथक होना, अलग होना
Secession	संवंध विच्छेद, अलग होना, अपसर्जन
Secluded	निर्जन एकान्त
Second	द्वितीय, दूसरा, अनुमोदन करना, अण
Secondary	गौण, द्वितीयक, माध्यमिक
Secrecy	गूढ़ता, गोपनीयता, गुप्तता, गुह्यता, भरोसा
Secret	गूढ़, गुप्त, गोपनीय, गूढ़ रखना, गुप्त रखना
Secretariat	मन्त्रिवालय
Secretarial	मन्त्रिविक
Secretary	सचिव. मन्त्री
—, Additional	अतिरिक्त सचिव, अपर सचिव
—, Assistant	सहायक सचिव
—, Chief	मुख्य सचिव
—, Deputy	उपमन्त्री, प्रति सचिव
—, General	महा-सचिव
— incharge	प्रभारी सचिव
—, Joint	संयुक्त सचिव
—, Member	सचिव-सदस्य
— of State	राज्य सचिव
—, Private	निजी सचिव
— to Government	शासन-सचिव
Sect	वर्ग, उपजाति पन्थ

Sectarianism	धार्मिक दलवन्दी, पंथभावना
Section	वर्ग, भाग, खण्ड, धारा, शाखा, टुकड़ा
Sectional	जातिगत
Sector	खण्ड, वृत्त खण्ड
Secular	ऐहिक, लौकिक असाम्प्रदाचिक, धर्मनिरपेक्ष
Secure	आप्त करना, सुरक्षित करना
Secured	प्रतिभूत, सुरक्षित, प्राप्त
Security	प्रतिभूति, सुरक्षा, जमानत
— Council	सुरक्षा परिषद्
— measures	सुरक्षा व्यवस्था
Sedition	राजद्रोह
Seditious	राजद्रोही, राजविद्रोहात्मक
Seduce	फुसलाना, प्रभोलन देना, प्रविलुच्य करना
Seduction	शीलब्रंश, प्रविलोभ, वहकाना
Seed	बीज
Seen	देखलिया
Segment	खण्ड
Segregation	पृथक्करण, पार्थक्य
Seize	अभिग्रहण करना
Seizure	बलात अधिकार, जब्त करना, अभिग्रहण
Select	प्रवरण, चुनना, निर्वाचन करना, प्रवर
— Committee	प्रवर समिति, विशिष्ट समिति

Selected	प्रकृत, चुना हुआ
— members	प्रवरित सदस्य, चुने हुए सदस्य
Selection	पसन्द, चुनाव, प्रवरण
— Board	प्रवरण भर्डल
— Committee	प्रवरण समिति
— Grade	प्रवर प्रक्रम, प्रवर श्रेणी
— on merit	योग्यता के आधार पर चुनाव
Self	आत्म-, स्वयं, स्व-
— acquired	स्व-अर्जित
— confidence	आत्म-विश्वास
— contained	स्वयं पूर्ण, स्वत पूर्ण, स्वसमाविष्ट
— contradictory	स्व-विरोधी
— defence	आत्म रक्षा, प्रतिरक्षा
— determination	आत्म-निर्णय, स्वयन्निर्णय
— evident	स्वत. सिद्ध, स्वत स्पष्ट
— explanatory	स्वयं व्याख्यात, स्व-स्पष्ट
— feeling	आत्म भावना
— Government	स्वायत्त शासन
Sufficient	स्वावलम्बी
— supporting	आत्म-निर्भर
Selfish	स्वार्थी
Selfishness	स्वार्थ

Sell	विक्रय, बेचना
Seller	विक्रेता
Selling	विक्रय, बेचना
Semi-	अर्ध
— official	अर्ध-सरकारी
Senate	सीनेट, अनुपद, महाराष्ट्रा,
Senior	उपरि, ऊट, वरिष्ठ वरीय, उच्च
Seniority	ज्येष्ठता, वरीयता
— in the Unit	एकक ने ज्येष्ठता
Sense	अभिप्राय, तात्पर्य, भाव, समझ
Sensible	बुद्धिमान
Sent	भेजा गया
— herewith as desired	आपकी इच्छानुसार साथ में भेजा जा रहा है
Sentence	वाक्य, दण्ड, दण्डादेश
— to death	मृत्यु-दण्ड, प्राणदण्ड
—, to uphold	दण्ड कायम रखना
Sentiment	भावना
Sentimental	भावुक, भाववश
Separate	पृथक, पृथक करना, अलग करना
Septic	गलनकारी

Sepulchre	समाधि
Sequence	अनुक्रम
Serial	क्रम, क्रमानुसार
— number	क्रम संख्या, अनुक्रमांक
Seriatim	क्रमशः, क्रमबद्ध
Series	श्रेणी, माला, शृंखला, पक्षित, सिलसिला
Serious	गम्भीर, भारी, घोर
Servant	सेवक, कर्मचारी
Serve	सेवा करना, नौकरी करना, तामील करना, परोसना
Service	सेवा, तामिल, निर्वाह, शासकीय
— Book	सेवा-पुस्तक
—, Civil	जन सेवा, असैनिक सेवा
— of notice	सूचना की तामिल होना, सूचना-निर्वहण
— of summons	आह्वान-निर्वहण, आह्वान पत्र का लागू होना
— postage	राजकीय मुद्रांक
— regulations	सेवा-विनियम
— Roll	सेवा-नामावलि, सेवा सूची
— Rules	सेवा-नियम
Servicing	परिचर्या करना
Servient	अधीनस्थ

Servitude	पराधीनता, दासत्व, सेवावधि
Sessions	सत्र
—Court	सत्र-न्यायालय
—Judge	सत्र न्यायाधीश
Set	अपास्त करना, निश्चित, स्थिर, नियत
— a good example	सदुदाहरण उपस्थित करना
— an example	उदाहरण उपस्थित करना
— apart	अलग रखना
— aside	एक ओर रख देना, रह करना, हटाना
— back	प्रतिकूल स्थिति, धक्का, पीछे हटना
— down	लिखना, रखना
— fire	आग लगाना
— forth	उपवर्णित करना, प्रशंसा करना, प्रस्थान करना, उल्लेख करना, दिया गया
— in	आरम्भ होना
— off	दूर रखना, प्रतिसादन
— one's hand	हस्ताक्षर करना
— one's seal	अनुमति देना
— out	दिया हुआ
— questions	प्रश्न बनाना
— up	व्यवस्था, स्थापना करना
Setting	स्थापन, व्यवस्थापन, बैठाना

Settle	निवटारा करना वर्ग जाना, निश्चित करना, निवटाना, समझौता करना
— down	वसना, वस जाना, नीचे बैठना
Settled	वसे हुए, व्यवस्थापिन
Settlement	भू-व्यवस्था, वन्डोवस्त, निवटारा, समझौता
Sever	अलग अलग करना, विभक्त करना, पृथक पृथक होना
Several	पृथक, कई, अनेक, विभिन्न
Severally	पृथक, अलग अलग
— and jointly	पृथक और मंयुक्त, अलग अलग और इकट्ठे
Severalty	अनन्याधिकार, अनन्याधिकृत
Severance	विभाजन, पृथक्करण, विच्छिन्न, विच्छेद
Severe	तीव्र, कठोर, कड़ा
— action	कड़ी कार्यवाही
Sewage	मल, कूड़ा करकट
Sewer	गन्दा नाला
Shall	गा, गी, गे, होगा
— be deemed	समझा जाएगा
— be deemed to	
be included	का अग समझा जायेगा
— be deemed to be in force	प्रवर्तन में समझा जाएगा

— be liable to pay	सुरक्षान करने के लिये वाध्य होगा
— be presumed	परिकल्पना की जाएगी
— be rejected	अस्वीकृत किया जाएगा.
— be reported	प्रतिवेदित किया जायगा
— be void	प्रवृत्तिहीन होगा, लागू न होगा
— continue to be such	वैसा बना रहेगा
— have effect	प्रभावी होगा, लागू होगा
— include	अन्तर्गत होगा, सम्मिलित होगा
— presume	अनुमान करेगा
— take effect	प्रभावी होगा
Shallow	छिप्पता
Shame	लज्जा, शर्म
Shameful	लज्जा जनक
Shameless	निर्लज्ज
Shape	आकार, आकृति
Share	अंश, भाग, हिस्सा, शेयर
— holder	अंशधारी
Sheet	चादर, पंत्र, फलक
—, Balance	सन्तुलन-पत्र
—, Charge	आरोप-पत्र

—, Order	आदेश पत्र
Shelter	आश्रय, आश्रय देना
Shift	स्थानान्तरण, स्थान परिवर्तन करना, पारी
Ship	जलयान, नौ, पोत
Shipment	जलयान से भेजना
Shipping	नौवहन
Shock	आघात, धक्का, ठेस
Shoot	गोली चलाना
Shooting	आखंट, मृगया
Storage	तट-शुल्क
Short	लघु, अल्प, न्यून, कम, सक्षिप्त, अल्पकालिक
— notes	छोटे टिप्पणी
— period	अल्पावधि
— sight	भ्रमीप हृष्टि
— term	अल्पावधि, अल्पकालीन
— title	संक्षित नाम
Shortage	न्यूनता, कमी
Shortcomings	त्रुटियाँ
Shorten	छोटा होना, छोटा करना
Shorthand	आशुलिपि
Shortly	अविलम्ब, शीघ्र

Should	चाहिए
Shout	चिल्लाना
Show	प्रदर्शन, दिखाना
— cause	कारण बतलाना
— cause notice	कारण बतलाने का सूचना-पत्र
— room	प्रदर्शन-कोष्ठ
Shower	बैछार
Shrewd	चतुर
Shrine	तीर्थ स्थान, पवित्र स्थान, मन्दिर
Shrink	सिकुड़ना
Sick	अस्वस्थ, रुग्ण, रोगी
— certificate	रुग्णता-प्रमाण पत्र
— leave	अस्वस्थता, अवकाश
Sickness	अस्वस्थता, रुग्णता
Side	ओर, पक्ष, किनारा, वगल
— by side	साथ साथ
— tract	विषयान्तर
Siege	घेरा
Sight	दृष्टि, दर्शन
—, at	देखते ही
—seeing	दृश्यावलोकन
— test	दृष्टि परीक्षा

Sign	हस्ताक्षर करना, मंकेत, चिन्ह, लक्षण
Signal	संकेत, सन्देश
Signatory	हस्ताक्षरी, हस्ताक्षरकर्ता
Signature	हस्ताक्षर
—, under the	के हस्ताक्षर से
Signed	हस्ताक्षरित, हस्ताक्षर किया हुआ हस्ताक्षर-सहित
— and sealed	हस्ताक्षरित और सुदृष्टि
— before me	मेरे समन्वय हस्ताक्षर किया
— copy	हस्ताक्षरित प्रति
— in full	पूर्ण हस्ताक्षरित, पूर्ण हस्ताक्षर सहित
Significance	महत्व
Significant	महत्वपूर्ण, अर्थ पूर्ण
Signify	मज्जात करना, प्रकट करना
Silence	चुप्पी, सौन
Silent	भूक, चुप
Silviculture	वन-शास्त्र
Similar	समान, अनुरूप सम, रूप, सदृश, तत्सम, ऐसे ही
Simple	सरल, साधारण, सादा, सहज
Simplification	सरलीकरण, सुगमकरण
Simplify	सरल करना

Simultaneous	समकालीन, समवर्ती
Simultaneously	साथ साथ, उसी समय
Sin	पाप
Sincere	सत्यनिटा
Sincerely Yours	भवदीय, सदूभावी, आपका सुहृद्
Sine die	अनिश्चित काल के लिये
Single	अकेला, एक, एकल
Sink	झूँवना
Sinking fund	शोधन प्रणीति, निक्षेप निधि
Sir	श्रीमान् महोदय, श्रीमन्
Site	आस्थान
Sitting	बैठक, अधिवेशन
Situated	आस्थित
Situation	आस्थिति
Size	परिमाण, नाप, आकार
So	अत , अतएव, इसलिये
— and so	असुक
— far as	जहां तक
— far as may be	यथा संभव, जहां तक हो सके
— far as	
practicable	यथा साध्य
— help me God	भगवान् मेरे सहायक हो

— much so	यहां तक कि
— that	यथा, जैसे कि
Sober	गम्भीर
Socalled	तथा कथित, नाममात्र का ही, केवल नाम का
Social	सामाजिक, मिलनसार
— custom	सामाजिक रुद्धि
— science	समाज-विज्ञान
— service	सामाजिक सेवा
— status	सामाजिक स्थिति
— welfare	सामाजिक कल्याण
— worker	समाज-सेवक
Society	समाज, समिति, संस्था
Sociologist	समाज शास्त्री
Sociology	समाज शास्त्र
Soda	चिक्कार
Sodomy	अप्राकृतिक व्यभिचार लौडेचाजी
Soil	मिट्टी, धरती, भूमि
— classification	भूमि वर्गीकरण, चकत्तराशी
— conservation	भूमि-संरक्षण
— erosion	मिट्टी का कटाव
— survey	मिट्टी-परीक्षण, भूमि-परीक्षण
Solar	सौर

— day	सौर दिवस
- eclipse	सूर्यग्रहण
Soldier	योद्धा, सैनिक
Sole	अकेला, एकमात्र, एकाकी
— agent	एकाभिकर्ता
— charge	एकल प्रभार
— criterion	एकमात्र कसौटी
Solely	केवल मात्र
Solemn	गम्भीर, विधि पूर्वक, पवित्र
— affirmation	प्रतिज्ञापूर्वक कथन
— declaration	सत्योक्ति
Solemnize	संस्कार करना
Solemnly	दृढ़ संकल्प होकर, गम्भीरता पूर्वक, प्रतिज्ञा पूर्वक
Solicit	आग्रह करना, ललचाना, प्रार्थना करना, याचना करना
Solicited	प्रार्थनीय
Solicitor	अभियोगजीवी, अनुप्रार्थी, सालिसिटर
Solid	ठोस, दृढ़
Solitary	एकान्त
— cell	कालकोठरी, एकान्त कोठरी
— confinement	एकान्त परिरोध, एकान्त बन्दीकरण

Solution	साधन, हल, विलय, समाधान, उत्तर, घोल
Solve	हल करना
Solvency	सम्पन्नता, शोधक्षमता
Solvent	सम्पन्न, शोधक्षम
Some	कुछ, कोई, किसी
Somebody	कोई व्यक्ति
Something	कुछ
Sometimes	कभी कभी
Somewhat	कुछ कुछ
Somewhere	कहीं कहीं
Soon	शीघ्र, तुरन्त
— as, as	जैसे ही
Sooner or later	आज या कल, आदि-पश्चात्
Sorrow	दुःख
Sorry	दुखित
Sort	प्रथक्करण, छांटना, अलग करना
Soul	आत्मा
Sound	नाद, ध्वनि, स्वरूप, अच्छा
— health	सुस्वस्थ
— mind	स्वस्थचित्त
Sour	खट्टा

Source	स्रोत, उद्गम, उत्पत्ति-स्थान, साधन, सूत्र
Sovereign	प्रभु, सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, सम्पूर्ण सत्ताधारी, एक छत्र, स्वर्ण मुद्रा, पौरुष
Sovereignty	प्रभुता, एकछत्रता
Span	विस्तार, फैलाव, फैलाना, अन्तर, पुल बांधना
Spare	अतिरिक्त, फालतू
— copy	अतिरिक्त प्रति
— part	अतिरिक्त भाग
— the services of	की सेवा देसकना
— time	अवकाश, अतिरिक्त, समय
Spark	चिन्गारी
Speaker	वक्ता, अव्यक्त, सभापति
Special	विशेष, विशिष्ट
— action	विशेष, कार्यग्रही
— attention	विशेष ध्यान
— Bench	विशेष न्यायासन
— Branch	विशेष शाखा
— correspondent	विशेष संवाददाता
— duty	विशेष कर्तव्य
— enquiry	विशेष जांच
— establishment	विशेष स्थापना

— increment	विशेष वृद्धि
— Magistrate	विशेष दण्डाधिकारी, स्पेशल मजिस्ट्रे ट
— means	विशेष साधन
-- meeting	विशेष बैठक, विशेष अधिवेशन
— Officer	विशेषाधिकारी, विशिष्ट अधिकारी
-- pay	विशेष वेतन
— post	विशेष पद
— resolution	विशेष सकल्प
— sanction	विशेष समोदर्न
Specialist	विशेषज्ञ
Speciality	विशेषता
Specialization	विशेषीकरण
Specialize	विशेषीकरण, विशेषित होना
Species	जाति
Specific	विशिष्ट, निश्चित, निर्दिष्ट
Specifically	विशेष रूप से, विशिष्ट रूप से
Specification	विस्तृत विवरण, विवरण
Specified	निर्दिष्ट, विशिष्ट, उल्लिखित
— above	उपरि-निर्दिष्ट
— area	निर्दिष्ट क्षेत्र
— date	निर्दिष्ट दिनांक

-- post	निर्दिष्ट पद
— purpose	निर्दिष्ट प्रयोजन
Specify	निर्दिष्ट करना, विशेष रूप से कहना
Specimen	नमूना, प्रतिरूप, आदर्श
-- signature	आदर्श हस्ताक्षर
Speculate	परिकल्पना करना, सट्टा लगाना
Speculation	सट्टा, कल्पना, अटकल, अनुमान
Speech	भाषण, व्याख्यान, वक्तृता, बातचील, भाषा, बोली
—, freedom of	भाषण स्वतन्त्रता, वाक-स्वतंत्र्य
Speed	वेग, गति, चाल
Speedily	शीघ्रतः, वेग से
Speedy	शीघ्रगमी
Sphere	क्षेत्र, वृत्त, मण्डल
Spinning	कर्तन
Spirit	आत्मा, उत्साह, भाव, साहस, प्रेत, भावना, स्प्रिट
Spiritual	आध्यात्मिक, धार्मिक
Spiritualist	अध्यात्मवादी
Spit	थूक, थूकना
Splay	भद्दा, तिरछा करना, चपट

Spleen	तिल्ली,
Split	फाड़ना, चीरना, पृथक्करण, खुला, खड़ित
Spoil	गाड़ना, विकृत करना, दूषित करना
Spokesman	प्रवक्ता, अधिवक्ता, वाक्-प्रतिनिधि
Sponsor	परिपोषक, पुरस्कृत करना, उत्तरदायी होना
Spontaneous	अपने आप, स्वाभाविक, स्वत.
Sport	क्रीड़ा, खेल, आखेट, विनोद, शिकार
Sporting spirit	विनोदी वृत्ति
Sportsman	खिलाड़ी, क्रीड़ा कुशल, शिकारी
Spot	स्थल, चिन्ह, स्थान, कलर
— Inspection	स्थल निरीक्षण
— price	तत्कालिक दाम, तुरन्त दाम, नगद मूल्य
Spotless	निष्कलंक
Spouse	मार्या, विवाहित जन
Spread	इसार, फलाव, विस्तार
— over	फैलाव
Spring	स्रोत, मरना, वसन्त
Spy	गुप्तचर, भेदिया
Squadron	दस्ता, बेड़ा, गुलम
Square	वर्ग, चौक, चौस्ता
— feet	वर्गफीट

— root	वर्गमूल
Squeeze	निचोड़ना
Stab	भोकना, छुरा भोकना
Stability	स्थायित्व
Stabilization	स्थायिकरण, स्थिरीकरण
Stable	टिकाऊ, स्थायी, अश्वशाला
Stack	ढेर, गंजी, ढेर लगाना।
Stadium	क्रीड़ागण
Staff	सेवकगण, कर्मचारीगण, कर्मचारीवृन्द
— car	कर्मचारी-यान
— on duty	कर्त्तव्यस्थ कर्मचारी
— pass	कर्मचारी-प्रवेश-पत्रक
Stage	अवस्था, स्थित, मंच, रंगमंच, प्रकम
— by stage	क्रमशः
Stagger	डगमगाना, लड़खड़ाना
Stagnant	निष्प्रवाह
— water	निष्प्रवाह जल, खड़ा पानी, रुका हुआ पानी
Stake	दांव, दाव लगाना, खूंटो
Stale	बासी, काल-तिरोहित, बीता हुआ काल
Stall	खूटां, दूकान, मरडप
Stammer	हक्कलाना

Stamp	टिकट, मुहर, मुद्रांक, स्टाम्प, मुद्रा-पत्र
— duty	मुद्रांक शुल्क, स्टाम्प शुल्क
Stand	विराम-स्थल, अड्डा, खड़ा होना
—for	प्रतिनिधि होना, समर्थन करना
Standard	मापदण्ड, स्तर, प्रामाणिक
Standing	स्थिति, सेवा-काल, स्थायी
—arrangement	स्थायी प्रबन्ध
—Committee	स्थायी समिति
— crop	खड़ी फसल
—list	स्थायी सूची
—order	स्थायी आदेश
—water	खड़ा पानी
Standstill	यथास्थिति
Staple	प्रमुख्य, श्रेणी, सूचमता
—crop	प्रमुख्य फसल
—food	प्रमुख्य अन्न
Starred	ताराकित
Start	आरम्भ करना, प्रस्थान करना
—with	से आरम्भ करना
Starvation	भूखे मरना, भुखमरी, फाका
State	कथन करना, वर्णन करना, राज्य, अवस्था, स्थिति

—Bank	राज्य अधिकोष
—definitely	निश्चित रूप से बतलाना
—emblem	राज्य चिन्ह
—functions	राज्य समारोह
—Government	राज्य शासन
—monopoly	राज्य एकाधिकार
—service	राज्य-सेवा
Statement	आवेदन, कथन, वक्तव्य, विवरण, सार
—of accounts	लेखा-विवरण
—of affairs	अवस्था-विवरण
—of fact	तथ्य-कथन
Statesman	राजनीतिज्ञ, राजनीति-कुशल
Station	स्टेशन, खड़ा करना
Stationary	स्थिर, स्थायी
Stationery	लेखन-सामग्री
Statistical	सांख्यिकीय
—data	सांख्यिकीय सामग्री
—series	सांख्यिकीय माला
Statistician	सांख्यिक
Statistics	सांख्यिकी, आंकड़े
Statuary	प्रतिमाकार, प्रतिमांण
Statue	प्रतिमा

Status	अवस्था, स्थिति, प्रतिष्ठा, हैसियत
—quo	यथापूर्व, पूर्ववत् स्थिति में, यथास्थिति
Statute	प्रतिधान, परिनियम
Statutory	वैधानिक, विधानानुसार, परिनियत, प्राविधानिक
—body	परिनियत निकाय
Stay	स्थगित करना, विराम, ठहरना
—of execution	निष्पादन को रोकना
—of proceedings	कार्यवाही रोकना
—order	रोकने का आदेश, स्थगन आज्ञा
Steadily	धीरे धीरे
Steady	धीरे, स्थिर
Steam	भाप, वाष्प
Steel	फौलाद, इस्पात
Steering	परिचालन, कर्णधार
—Committee	कर्णधार समिति
Stenographer	आशुलिपिक, शीघ्रलिपिलेखक, आशु-लेखक
Stenography	आशुलिपि
Steno-typist	आशु-मुद्रिक
Step	पद, ऋम, उपाय, सौतेला
Sterile	ऊसर, निष्फल, घन्ध्या

Stick	लाठी, चिपकाना, लगाना, ठहराना
Stiff	दृढ़, कठोर, कठिन
Still	तदापि, तब भी, मौन, शान्त, चुपचाप
Stimulate	प्रोत्साहन देना, उत्तेजित करना, जागृत करना
Stipend	वृत्तिका, वृत्ति, वज़ीफा
Stipendiary	वृत्तिकाम्राही, वेतनम्राही
Stipulate	सौदा करना, अनुबन्ध करना, प्रतिज्ञा करना
Stipulation	ठहराव, अनुबन्ध
Stock	भण्डार, स्कन्ध, थोक, स्टॉक, पूँजी
— exchange	क्रयविक्रय स्थल
— in hand	हस्तगत स्कन्ध, विद्यमान माल
— in trade	व्यापार का माल
— verifier	सामग्री परीक्षक
Stolen	चुराई हुई, चोरी की
Stop	विराम, रोकना
Stoppage	रोध, रोक, रोका जाना, विराम
Storage	संग्रहण, रखना, भाण्डार, संग्रह
Store	संग्रह, वस्तुएँ, गोदाम, भण्डार
Storey	भूमि, तल, मंजिल

Storied	मंजिला
Storm	तूफान, आंधी, क्रोध करना
Stout	स्थूल, दृढ़
Straight	सीधा, सच्चा
Straightforward	स्पष्टवादी
Strain	तनाव, अतिश्रम
Strange	अपरिचित, अज्ञात
Stranger	आगन्तुक अपरिचित, परदेशी
Strangle	सांस रोक कर मारना
Strangulate	गला घोटना
Strata	तहे, पड़ते
Strategem	कूट चाल, छल बल
Strategy	रणकौशल, रणनीति
Stratum	स्तर
Straw	भूसा
Stray	पथभ्रष्ट, भूलाभटका
Stream	सरिता, स्रोत
Strength	शक्ति, बल, ताकत, संख्या
Strengthen	सबल करना, शक्ति देना
Strict	यथा नियम, ठीक ठीक, कठोर, कड़ा, दृढ़
Strictly	सर्वता, पूर्णतः, कठोरता से, दृढ़ता

— confidential	सर्वथा गुप्त
— forbidden	सर्वथा निषिद्ध
— observed	हड्डता से पालन किया गया
— prohibited	सर्वथा प्रतिषिद्ध
— speaking	यथार्थ रूप से
Stricture	तीव्रालोचना, भर्त्सना
Strife	अभियत्न, प्रतिसंघर्ष, संग्राम
Strike	हड्डताल, आधात करना, टकराना
— down	गिराना
— off	काट डालना
— out	काट देना
Stringency	अर्थ संकट, तनाव; कठोरता
Strip	पट्टी
Strive	प्रयास करना, परिश्रम करना, संघर्ष करना
Stroke	आधात, मार, चोट, थपथपाना
Strong	प्रबल, तीव्र
Structure	ढांचा, निर्माण, संरचना, स्वरूप, गठन
Struggle	संघर्ष
Study	अध्ययन
— leave	अध्ययनावकाश
Stunt	वृद्धि रोकना, विकास रोकना

Stupefy	मूर्च्छित करने, चकित हो जाना
Style	शैली, ढंग
Sub- agent	उपाभिकर्ता
Sub- clause	उप-खंड
Sub- Committee	उप-समिति
Sub-division	उप-विभाग, उप-खण्ड, अवर प्रमंडल
Sub-divisional	उप-खण्डीय, उप-खण्ड, अवर प्रमण्डल
Sub-head	उपशीर्ष, उपशीर्षक
Sub-Inspector	उप-निरीक्षक, सच-इन्सपेक्टर
Sub judice	निर्णयाधीन, न्यायाधीन विचाराधीन
Sub lease	अनु-पट्ट
Sub-let	आगे भाड़े पर देना
Sub-rule	उपनियम
Sub-section	उपधारा
Subject	विषय, आधीन, उद्देश्य, कर्ता
— matter	विषय वस्तु
— noted above	उपरि-लिखित विषय
— there to	उसके अधीन, तदूधीन
— to	के अधीन, के अधीन रहते हुए, का ध्यान रखते हुए
— to audit	लेखा-परीक्षण के अधीन
— to duty	शुल्कादेय

— to passing the prescribed examination	विहित परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर
— to such conditions	ऐसे प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए
— to the condition that	इस प्रतिबन्ध का ध्यान रखते हुए
— to verification Submission	सत्यापन के अधीन रहते हुए आगे रखना, समक्ष रखना, समर्पण, निवेदन, प्रस्तुति
Submit	आगे रखना, समक्ष रखना, सम्मुख रखना, प्रस्तुत करना, उपस्थित करना
Submitted	उपस्थापित, संप्रेषित
— for approval	अनुमोदनार्थ प्रस्तुत
— for orders	आदेशार्थ उपस्थापित, आदेशार्थ प्रस्तुत
Subordinate	अधीन, अधीनस्थ, अवरस्थ, अधरिक
— Court	अधीनस्थ न्यायालय
— office	अधीनस्थ कार्यालय
— officer	अधीनस्थ अधिकारी
— service	अधरिक सेवा
— staff	अधीनस्थ कर्मचारी

— to him	उसके नीचे
Subordination	अधीनता
Subscribe	चन्दा देना, स्वीकृति देना
Subscription	चन्दा, सदस्य शुल्क
Subsequent	आगामी, पिछला, पश्चात्, तत्पश्चात्, अनुवर्ती
Subserve	अनुसेवा करना, भलाई करना
Subside	शांत हो जाना
Subsidiary	पूरक, सहायक, सहायतार्थ, सहायता के रूप में, गौण
Subsidy	आर्थिक सहायता, राजानुदान
Subsistence	निर्वाह, उपजीविका, जीवन निर्वाह
— allowance	निर्वाह भत्ता
Subsisting	विद्यमान, स्थित, जीवित
Substance	सारांश, सार, विषय, वस्तु, तत्त्व
Substantial	वास्तविक, तथ्यपूर्ण, महत्वपूर्ण, सारभूत, पर्याप्त, सम्पन्न, सारपूर्ण
Substantially	महत्वपूर्ण रूप से, वास्तव में, वस्तुतः
Substantive	मौलिक, वास्तविक, मूलभूत
— appointment	मौलिक नियुक्ति, वास्तवीय नियुक्ति
— pay	मौलिक वेतन
— post	मौलिक पद

Substitute	प्रतिस्थापित करना, स्थानापन्न
Substitution	प्रतिस्थापन, के स्थान मे रखना
Subterranean	भूम्यान्तर्गत
Subtract	घटाना
Suburb	उपनगर, आस-पास का क्षेत्र
Subvention	राजकीय सहायता, आर्थिक सहायता
Subversion	विध्वंस
Subversive	विध्वंसकारी, विध्वंसी
Succeed	अनुगमी होना, पीछे आना, सफल होना, उत्तराधिकारी होना
Succeeding	बाद का, उत्तरवर्ती
Success	सफलता
Successful	सफल
Succession	उत्तराधिकार, परम्परा
— duty	उत्तराधिकार कर
Successive	उत्तरोत्तर, क्रमिक, आनुक्रमिक
—exclusion	एक के उपरान्त दूसरे का पृथक होना
Successively	क्रमानुसार, अनुक्रमशः
Successor	उत्तराधिकारी
—in office	पदोन्तराधिकारी, पदानुवर्ती
Succumb	वशीभूत हो जाना, आधीन होना, मान जाना, मृत्यु को प्राप्त होना

Such	ऐसा
—and such	अग्रमुक
—as	यथा, जैसे
—other	ऐसा, अन्य
—that	यथा, जैसे
Sudden	अत्यानन्द, आपत्तिमुक, प्रवापक, मदमा
Suddenly	अकर्त्तमान
Sue	घाट प्रस्तुत करना
Suffer	भोगना, सहन करना, कष्ट पाना, हानि उठाना
—a judgment	निर्णय देने देना
—an act	काम करने देना
—punishment	दरड भोगना
Suffrance	सहनशीलता
Suffering	पीड़ा, कष्ट, व्यथा, हुँच
Suffice	पर्याप्त देना
Sufficient	पर्याप्त, यथेष्ट
Suffix	पश्चस्थापन, पश्चस्थित
Suffocate	सांस बन्द करके मारना, दम घोटना
Suffocation	सांस घुटना
Suffrage	मताधिकार
Suggest	सुझाना, सुझाव देना

Suggested	सुझाया, सुझाव प्रस्तुत किया
Suggestion	सुझाव, प्रस्ताव
Suicide	आत्महत्या, आत्मघात
Suit	वाद, उपयुक्त होना, अच्छा, अभियोग
—for redemption	निष्क्रयण के लिए वाद
—of a civil nature	व्यवहार स्वरूप का वाद
Suitability	उपयुक्तता
Suitable	उपयुक्त, योग्य, अनुकूल
Sum	राशि, योगफल, संक्षिप्त
—up	संक्षेप करना
Summarily	संक्षेपतः, संक्षेप से
Summarising	संक्षिप्त सार निकालना, संक्षिप्त बनाना
Summary	संक्षिप्त, संक्षेप, संक्षिप्त विवरण
Summon	आहवान, बुलाना, बुला भेजना, समन
Sumptuary	व्यय संबंधी
Sundary	अनेक, विविध
Suo motu	स्वयं की प्रेरणा पर, अपने मन से ही
Super	परम, अधि-
Superannuation	अधिवार्षिकी
—age	अधिवार्षिकी वय, अतिवयस्कता वय
Superficial	ऊपरी, आडम्बरपूर्ण, दिखाऊ

Superimpose	अध्यारोपण, किसी और वस्तु पर रखना
Superimposed	ऊपर चढ़ा हुआ, अध्यारोपित
Superintend	अधीक्षण करना, निरीक्षण करना
Superintendence	देख रेख, अधीक्षण, देखभाल, निरीक्षण
Superintendent	अधीक्षक, निरीक्षक, अध्यक्ष
—of Police	आरक्षि अधीक्षक
Superintending	अधीक्षण
—Engineer	अधीक्षण अभियन्ता
Superior	वरिष्ठ, उच्चतर, उत्कृष्ट
Superiority	वरिष्ठता, श्रेष्ठता, उत्कृष्टता
—complex	श्रेष्ठत्व भावना
Supernumerary	संख्याधिक, संख्योत्तर, अधिसंख्य
—post	संख्योत्तर पद, अधिसंख्य पद
Supersede	शून्य करना, निष्प्रभाव करना, अधिक्रमण, का स्थान ले लेना, निरस्त करना
Superseding order	अधिलंघन आदेश
Supersession	निरसन, अवक्रमण, अधिलंघन
Superstition	अन्ध विश्वास
Supertax	अधि-कर
Supervise	देखरेख करना, पर्यवेक्षण करना, निरीक्षण करना
Supervision	देखरेख, पर्यवेक्षण, निरीक्षण

Supervisor	पर्यवेक्षक, निरीक्षक
Supplement	पूरक, पूर्ति करना, अनुपूरक, परिशिष्ट
Supplementary	अनुपूरक, पूरक
—Budget	पूरक बजट, अनुपूरक आय-व्ययक
—demand	अनुपूरक मांग
—grant	पूरक अनुदान, अनुपूरक अनुदान
—indent	अनुपूरक व्यादेश
—question	अनुपूरक प्रश्न
--report	अनुपूरक प्रतिवेदन
Supplies	रसद, प्रदाय, देता है
Supply	आपूर्ति, प्रदाय, पूर्ति करना, प्रदान करना
Support	समर्थन, आधार, अवलम्बन, संपालन, पालन पोषण करना, सहारा
Suppose	कल्पना करना, मान लेना, अनुमान करना
Suppress	दबाना, दमन करना, रोकना
Supreme	सर्वोच्च, परम, उच्चतम
— Court	सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय
Surcharge	अधिभार, विशेष कर
Surety	प्रतिभू, प्रतिभूति, असंदिग्धता, निश्चय
Surface	सतह, तल, धरातल
Surgeon	शल्य-चिकित्सक, सर्जन, शल्यज्ञ

Surgery	शल्य-चिकित्सा, शल्य-क्रिया
Surgical	शल्य
Surmise	अनुमान, अनुमान करना, संदेह करना
Surname	उपनाम, कुलनाम
Surplus	आधिक्य, अधिशेष, अधिमात्र, अतिरेक, बचत, अतिरिक्त
Surrender	आत्मसमर्पण, समर्पित करना, समर्पण
— value	अध्यर्पण अर्हा, समर्पण मूल्य
Surround	घेरना, घेर लेना
Surveillance	निरीक्षण, निगरानी, सतर्कता, जागरूकता
Survey	पैमायश, भूमापन, परिमापन करना, सर्वे
Surveyor	भूमापक, भूपरिमापक, सर्वेयर
Survival	उत्तर जीवन, जीवित बचे रहना
Survive	उत्तरजीवी होना, जीवित रहना
Survivor	उत्तरजीवी
Suspect	सन्देह करना, शंका करना
Suspend	निलचित करना, स्थगित करना, निलम्बन
Suspense	निलम्बन, डांवाडोल, असमंजस
Suspension	निलम्बन, स्थगन, मोत्रताली
Suspicion	अम, सन्देह, शंका
Suspicious	संदेहजनक, संदिग्ध, शंकाशील
— circumstances	सन्देहजनक परिस्थितियाँ

Sustain	उठाना, उठाए रखना, बनाए रखना
Suzerain	अधिपति, एक छत्र, राजाधिराज
Swear	शपथ लेना, सौगन्ध लेना
Swearing	शपथ-ग्रहण, शपथ लेना
Sweat	पसीना
Sweep	बहा ले जाना, बुहारना भाड़ना
Sworn	सौगन्ध गृहीत
Syllabus	पाठ्यक्रम
Symbol	चिन्ह, प्रतीक, संकेत, लक्षण
Symmetry	संमिति
Sympathetic	सहानुभूति, संवेदना
Sympathy	संवेदना, सहानुभूति
Symptom	लक्षण, चिन्ह
Syncope	शब्द का संक्षिप्तकरण
Syndicate	व्यवसाय संघ
Synonym	पर्याय, समानार्थक शब्द, उपशब्द
Synopsis	रूपरेखा, सार, सारांश, सक्षेप, सार-संग्रह
Synthesis	समन्वय, संशलेषण, मिलावट
Synthetic	बनावटी, कृत्रिम
System	प्रणाली, पद्धति, प्रथा, शैली, उपाय
Systematic	क्रमबद्ध, यथाक्रम

# T

Table	सारणी, स्तर, कोष्टक, तालिका, पटल,
— of contents	मेज, सूचि
Tableland	विपय-तालिका, विपय-सूचि
Tablet	उच्च समभूमि
Tabulate	टिकिया
Tabulating	सारणीकरण, तालिका बद्ध करना,
Tabulation	सारणीयन
Tabulator	सारणीयन, सारणीकरण
Tacit	सारणीयक, सारणीकार
Tackle	मौन, उपलक्षित, चुप
Tact	हाथ में लेना, हल करना, संभालना
Tactful	कार्यकुशलता, चातुर्य, चातुरी
Tactics	कार्यकुशलता, चतुर
Tag	कार्यनीति, दांव पेच
Taint	नथी करना, जोड़ना
Take	कलंकित करना, दूषित करना
— action	पकड़ना, प्रह्लण, लेना, आरन्भ करना,
	कार्यवाही करना

— advice	मन्त्रणा लेना
— away	अपहरण, लेजाना
— care of	सावधानी रखना
— charge of	का भार प्रहण करना
— delivery	लेना
— effect	प्रभावशील होना, प्रचलित होना, प्रभावी होना
— exception	आपत्ति उठाना, आदेष करना
— for granted	मान लेना
— into	
consideration	पर विचार करना
— orders	आदेश लेना, प्रहण करना
— over	ले लेना, प्रभार लेना
— place	होना
— steps	कार्यवाही करना
— such measures	ऐसे उपाय करना
— the chair	सभापति बनाना
— up	प्रहण करना, पकड़ लेना, आरम्भ करना
Tally	मिलाना, सिलान करना
Tamper	छेड़ना, हस्तक्षेप करना, हाथ डालना, बिगाड़ना
Tangible	महत्वपूर्ण, सारयुक्त, मूर्त, ठोस

Tannery	चर्म शोधनालय
Tape	फीता, पट्टी
Target	लक्ष्य, लक्ष्यांक, उद्देश्य, निर्धारित
Tariff	आयात-निर्यात शुल्क, परियात शुल्क, मूल्य तालिका, शुल्क-सूची
— Board	परियात शुल्क मण्डल
— Commission	परियात शुल्क आयोग
Task	कार्य, कर्म, कार्यभार, काम
Taunt	उलाहना, निन्दा करना, ताना देना
Tax	कर
—, Amusement	विनोद कर
—, Capitation	प्रति व्यक्ति कर
—, direct	प्रत्यक्षकर
—, Entertain ment	आमोद प्रमोद कर
—, Income	आय कर
—, Sales	विक्रय कर
—, Terminal	सीमाकर, सीमान्तकर
Taxable	कर योग्य, करारोग्य
Taxation	कराधान, कर
Teach	अध्यापन, पढ़ाना, शिक्षा देना
Teacher	अध्यापक, शिक्षक

Teaching	अध्यापन, शिक्षण
— staff	शिक्षक वर्ग
Tea party	चाय गोष्टी
Tear	अश्रु, आंसू
Tearing	फाड़ना, चीरना
Tease	चिढ़ाना, सताना
Technical	प्रौद्योगिक, पारिभाषिक, औद्योगिक, व्यावसायिक, टैक्नीकल
— advice	प्रावैधिक मन्त्रणा, विषयज्ञ मन्त्रणा
— adviser	विषयज्ञ मन्त्रणाकार, पारिभाषिक परामर्शदाता
— aspects	पारिभाषिक हृष्टि
— Assistant	प्रावैधिक सहायक, विषयज्ञ सहायक, पारिभाषिक सहायक
— education	प्रौद्योगिक शिक्षा, प्रावैधिक शिक्षा, शिल्प शिक्षण, पारिभाषिक शिक्षा
— term	पारिभाषिक पद, पारिभाषिक शब्द
Technician	प्रविधिज्ञ, परिभाषा-कोविद्
Technique	प्रविधि, क्रिया शैली, कार्य-पद्धति
Technological	पारिभाषिक, प्रौद्योगिक
Technology	औद्योगिकी, शिल्प विज्ञान, कलाविज्ञ
Tedious	थकाऊ, उक्ता देनेवाला, कठिन
Telegram	तार

Telegraph	तार
Telegraphic	
address	तार-पता
Telegraphically	तार से
Telephone	टेलीफोन, दूर भाषण यन्त्र
Telescope	दूरवीक्षक, दूरवीन
Television	दूरदृष्टि, दूरवीक्षण, टेलीवीजन
Tell	कहना, बतलाना
Temperament	स्वभाव, प्रकृति
Temperate	परिमित, संयत, मन्दताप, शांत
Temperature	ताप, तापमान, तपांश
Tempest	तूफान, आंधी
Tempo	गति
Temporal	लौकिक, सांसारिक
Temporarily	अस्थायी रूप से
— occupied	अस्थायी रूप से अभिघृत
Temporary	अस्थायी, अल्पकालिक
— appointment	अस्थायी नियुक्ति
— clerk	अस्थायी लिपिक
— establishment	अस्थायी स्थापना
— halt	अस्थायी विराम

—injunction	अस्थायी निषेधाज्ञा
—permit	अस्थायी अनुब्रापत्र
—powers	अस्थायी शक्तियां
—, purely	सर्वथा अस्थायी
—relief	अल्पकालिक सहायता
—staff	अस्थायी कर्मचारी
—transfer	अस्थायी स्थानान्तरण
—vacancy	अस्थायी रिक्ति
Tempt	प्रलोभन देना, लालच देना
Temptation	प्रलोभन, मोह, लालच
Tenable	दृढ़, टिकाऊ, चलने वाला
Tenacious	दृढ़, कठोर, हठी
Tenacity	दृढ़ता, कठोरता
Tenancy	भूधारण, भाटकिता, कृषकाधिकार
—rights	भूधारण अधिकार, कृषकाधिकार स्वत्व
Tenant	भाटकी, कृपक, किसान, भाड़ेदार
Tendency	आदत, प्रवृत्ति, भुकाव
Tender	कोमल, सुकुमार, प्रतिदान, देना, करना, प्रस्ताव, निविदा, प्रस्तुत करना, नाजुक
— money	बयाना
Tenor	अवधि, क्रम, चाल
Tension	आतंति, तनाव, स्थिचाव

Tentative	अस्थायी, परीक्षात्मक, अल्पकालिक
Tenure	धारणाधिकार, काल, पदावधि, धारणा
—holder	भूधारी
—of appointment	नियुक्ति की अवधि
—of office	पदावधि, पदधारणकाल
—of service	सेवाकाल
—post	सावधि पद
Term	अवधि, पद, शब्द, शर्त
Terminal	अवसान, अन्तिम, सीमा, सावधि
Termination	अवसान, समाप्ति, अंत, उपसंहार
—of appointment	नियुक्ति अवसान
—of lien	ग्रहणाधिकार अवसान
—of post	पदावसान
Terminology	परिभाषा, शब्दावलि
Terms and conditions	निर्वन्ध तथा प्रतिवन्ध
Terrace	छुज्जा, झरोखा, चूतरा, वरामदा
Terrible	भीषण, भयंकर
Terrify	भयभीत करना, आतंकित करना, डराना
Territorial	प्रादेशिक, राज्यक्षेत्रीय
Territory	प्रदेश, क्षेत्र, राज्यक्षेत्र
Terror	आतंक

Test	परीक्षा, परीक्षण, कसोटी, जांचना, परख
Testament	इच्छापत्र, वसीयतनामा
Testify	प्रमाणित करना, अभिसाक्ष्य देना
Testimonial	प्रमाणपत्र, प्रमाणक, प्रमाणलेख
Testimony	साक्ष्य, प्रमाण
Testing	परीक्षण
Text	मूल, मूलपाठ
—book	पाठ्य-पुस्तक
Textile	वस्त्र, वान
Texture	बनावट, रचना
Than	से, की, अपेक्षा
Thank	धन्यवाद
That is	अर्थात्
— to say	अर्थात्
Theatre	नाट्यशाला, थियेटर, रंगमंच, रंगभूमि
Theft	चोरी
The then	तत्कालिन
Then	तब, उस समय
—and there	तभी और वहीं, वहीं का वहीं
—being	तब विद्यमान
—existing	उस समय विद्यमान
—in force	तब प्रवृत्त

—, now and	कभी कभी
—pending	उस समय विचाराधीन
Theology	धर्म विद्या
Theoretical	सैद्धान्तिक, तात्त्विक
Theoretically	सिद्धान्त रूप से
Theory	सिद्धान्त, वाद, नियम
There	वहां, वहीं
Thereabouts	वहीं कहीं, लगभग, आसपास
Thereafter	तदनन्तर, तत्पश्चात्
Therefor	तदर्थ, उसके, के लिए
Therefore	अत., इसलिए
Therein	तदन्तर्गत, उसमें
Thereof	उसका, उससे, तत्र
Thereon	उस पर, तिस पर
Thereto	उसमें, उस वारे में, वहां को
Theretofore	उसके पूर्व, तत्पूर्व
Thereunder	तदूधीन, तदनुसार
Thereupon	तो, ऐसा होने पर, तिस पर, तत्पश्चात्
Therewith	उसके साथ
Thermometer	तापमापक
These	ये

Thesis	निवन्ध, अनुसन्धान-ग्रन्थ, मौलिक निवन्ध
They	वे
Thick	स्थूल, मोटा, घन, घना
Thickness	मोटाई
Thief	चोर
Thin	पतला
Thing	वस्तु, चीज, द्रव्य
Think	समझना, विचार करना, सोचना
— fit	उपयुक्त समझना, ठीक समझना
— proper	उचित समझना
Third	तृतीय, तीसरा
This	यह, इस
— day	इस दिन
Thorn	कांटा
Thorny	करटकसय, कंटीला
Thorough	पूर्ण, सम्पूर्ण, परिपूर्ण
Thoroughfare	जनमार्ग, सार्वजनिक मार्ग
Thoroughly	पूर्णतया, परिपूर्णतया
Though	यद्यपि
Thought	विचार
Threat	धमकी, तर्जना
Threaten	धमकी देना, धमकाना

Thrift	अल्पव्यय, सितव्यय
Thrifty	मितव्ययी, अल्पव्ययी
Through	होकर, से द्वारा, आरपार, के द्वारा
— proper channel	समुचित मार्ग से, उचित माध्यम द्वारा
Throughout	सर्वत्र, सम्पूर्ण
Throw	फेकना, गिराना, डालना
— light upon	पर प्रकाश डालना
— open	खोलना
Thumb	अंगुष्ठ, अंगृथा
— impression	अंगुष्ठ चिन्ह, अंगृथे की छाप
Thus	एवं, इस प्रकार
Tide	वेला, ज्वारभाटा
— over	पार करना
Tight	टृट्ट, कसा हुआ, तंग
Tighten	कसना
Till	जब तक, जोतना, खेती करना
— further orders	अन्य आदेश पर्यन्त, जब तक दूसरा आदेश न निकले तब तक
— such times as	जब तक…… तब तक
Tillage	जुताई, खेती, जोत, खेत
Tiller	जोतने वाला, कृषक
Timber	लकड़ी, काष्ठ

Time	समय, काल, अवधि
--, at any	किसी समय
— barred	कालावरोधित, कालतिरोहित
— limit	समय सीमा
— of arrival	आने का समय
— of departure	जाने का समय
— scale	समय-श्रेणी
— table	समय सारणी, समयावलि
Timely	समय पर, यथा समय, समय के अन्दर
Timid	डरपोक, भीरु
Title	शीर्पक, नाम, उपाधि, हक्क स्वत्व
To	सेवा मे, प्रेषिती, द्वारा, तक
— be appointed as	के रूप मे नियुक्त होना
— be dealt	
with severely	पर कठोर कार्यवाही करना
— be followed by	द्वारा अनुसरणीय
— be included	अन्तर्गत
— be in force	प्रवृत्त होना, प्रभावशील होना
— be posted to	पर भेजना
— be promoted as	के रूप मे पदोन्नत करना
— let	किराये पर देना है
— note please	कृपया लिख लीजिये

— pay	देना है
— sum up	संक्षेपत.
— the best of.	
his ability	अपनी पूरी योग्यता से, यथाशक्ति, यथा-योग्यता
— the best of his belief	यथा विश्वास, पूर्ण विश्वासानुसार
— the best of my knowledge	जहाँ तक मुझे पता है, यथाज्ञान
— the contrary	इसके विरुद्ध
— the effect	इस आशय का
— the extent of	की मात्रा तक
— the last	अन्त तक
— the use of	के उपयोग का
— this effect	इस आशय का, इस उद्देश्य का
— wit	अर्थात्
Today	आज
Together	इकट्ठे, एकत्र, साथ, इकट्ठे होकर
— with	सहित, के साथ
Token	प्रतीक, चिन्ह, बिल्ला
Tolerable	सह्य, सहन योग्य
Tolerance	सहिष्णुता, सहन, परिहार
Tolerate	सहन करना, सहना

Toll	पथकर, पथ-शुल्क
Tomb	कब्र, समाधि-स्थान
Tone	स्वर, प्रवृत्ति
Too	अति
Tool	आजार, उपकरण, साधन, हथियार
Top	शिखर, शीर्ष
—most	उपरितम, सर्वोच्च
—priority	सर्व-प्रथम, सर्व-प्राथम्य
—secret	परम रहस्य, नितान्त गुप्त, सर्वथा गुप्त
—to toe	नख-शिखान्त
Topic	विषय, प्रसंग, शीर्पक, प्रकरण
Torment	संताप, सताना, पीड़ा
Torn	फटा हुआ
Torture	यातना, अवपीड़न, अतिवेदना
Total	योग, जोड़, समस्त, पूरा, सम्पूर्ण, सकल
Touch	स्पर्श करना, छूना, पहुँचना
Touchy	भावुक, संवेदनाशील
Tough	दृढ़
Tour	पर्यटन, दौरा
Touring officer	पर्यटक अधिकारी
Tourist	पर्यटक
Tournament	प्रतियोगिता

Toward	की ओर, के लिये, के हेतु
Town	नगरी, नगर
Trace	पता लगाना, उतारना, अनुरेखण
Track	मार्ग, पदचिन्ह, पथ
Tract	पुस्तिका, भूखण्ड, प्रदेश
Tractor	हल्ल-कल, हल्लयंत्र, ट्रैक्टर
Trade	व्यापार, वाणिज्य
Trader	व्यापारी
—, retail	फुटकर व्यापारी
—, sole	एकल व्यापारी
—, wholesale	थोक व्यापारी
Trading	व्यापार, व्यापार करना
Tradition	परम्परा
Traditional	परम्परागत, पारंपरिक
Traffic	यातायात, गमनागमन
Tragedy	दुखान्त नाटक, दुखद घटना
Train	रेलगाड़ी, प्रशिक्षित करना, सिखाना
Trained	प्रशिक्षित
Trainee	प्रशिक्षार्थी
Training	प्रशिक्षण
Traitor	देशद्रोही

Tranquilm	प्रशान्त
Transact	सम्पादन करना, लेन देन करना
Transaction	व्यवहार, सौदा, लेन देन
Transcribe	प्रतिलिपि करना, अनुलेखन
Transcription	अनुलेखन, अनुकृति
Transfer	स्थानान्तरण, भेजना, हस्तानान्तरण, बदली
Transferable	हस्तान्तरणीय, स्थानान्तरणीय
Transference	हस्तान्तरण, स्थानान्तरण
Transferred	हस्तान्तरित, स्थानान्तरित
Transform	रूपान्तरण करना, परिवर्तन करना
Transgress	अतिक्रमण करना, उल्लंघन करना
Transient	क्षणिक, अल्पकालिक, अस्थायी
Transit	पारनयन, मार्गनयन, राह, गति
Translate	अनुवाद करना
Translation	अनुवाद
Translator	अनुवादक
Transmission	भेजना, प्रेषण
Transmit	पहुँचना, भेजना
Transport	निर्वासित करना, यातायात, परिवहण
Transportation	निर्वासन, देशनिकाला, परिवहण
— for life	आजीवन निर्वासन, आजीवन कालापानी
Trap	जाल

Travel	यात्रा, यात्रा करना
Travelling	यात्री, चलता फिरता
Treasure	कोप
Treasurer	कोपाध्यक्ष
Treasury	कोपागार
Treat	उपचार करना, निकिलना करना, समझना, मानना, वरताव व रना
Treatment	उपचार, निकिलना, साधन, वरताव
Treaty	सन्धि, सधिपत्र
Trend	भुकाव, प्रवृत्ति
Trespass	अनविप्रवेश करना, अनाविकार प्रवेश करना
Trespasser	अनाविप्रवेशी
Trial	परीक्षा, परीक्षण, न्याय-जांच
Triangular	त्रिकोण
Tribal	वनजाति, जनजाति
Tribe	जनजाति, आदिवासी
Tribunal	न्यायाधिकरण, अधिकरण
Tributary	उप-नदी, बलिदायी
Tribute	बलि, उपहार
Trick	कूटता, चाल
Triennial	त्रैवार्षिक
Trifling	नगर्य, तुच्छ

Trip	फेरा, आमोद, विहार, चक्कर
Triumph	विजयी, जीत
Trolley	ठेला
Trophy	विजयोपहार
Tropical	उष्णादेशीय, उष्ण प्रदेशीय
Trouble	कष्ट, दुःख, विपदा
Troublesome	कष्टकर
Truce	संधि, युद्ध-विश्रान्ति
True	सत्य, यथार्थ, वास्तविक, सच्चा
— copy	सत्य प्रतिलिपि, सच्ची प्रति
— to my information and belief	मेरी सूचना और विश्वासानुसार सच
— to my knowledge	यहां तक मैं जानता हूँ, मेरी जानकारी के
Trueness	सच्चाई, सत्यता
Truly	वस्तुतः
— Yours	भवत्-सत्यैषी, भवदीय
Trust	विश्वास करना, न्यास
— deed	न्यास पत्र
— property	न्यास सम्पत्ति
Trusted	विश्वस्त
Trustee	न्यासी, न्यासधारी

Trustworthy	विश्वसनीय, विश्वास पात्र
Truth	सत्य, सत्यता, सचाई
Try	यत्न करना, परीक्षा करना, जांच करना
Tuberculosis	यद्दमा, क्षयरोग, टी० वी०
Tuition fee	शिक्षण शुल्क
Tunnel	सुरंग
Turn	मुड़ना, मोड़ना, फेरना, घूमना
— out	उत्पत्ति, पैदावार, उत्पादन, निकलना
— over	पलटना, विक्री, विक्रय
— up	उपस्थित होना, आना
Tutor	शिक्षक
Twice	दुगुना
Twin	युग्म, दो
Twine	लपेटना
Twist	बटना, तोड़मरोड़, बटी हुई ढोरी
Twofold	दुगुना, द्विगुण
Type	प्रकार, मुद्र, जाति, अनुसुद्धा, टंक
— out	मुद्रलेखन कीजिए
Typed	मुद्रलिखित
— copy	मुद्रलिखित प्रति
— note	मुद्रलिखित टिप्पण
Typewriter	मुद्रलिख, टंकण-यंत्र

---

Typewriting	मुद्रलेखन
Typewritten	मुद्रिति
Typhoid	मोत्तीफरा, मियादी ज्वर
Typical	विशिष्ट, विशेष, विशिष्ट
Typing	मुद्रलेखन
Typist	मुद्रलेखक, टंकणकर्ता, अनुमुद्रक
Typographical error	छपाई की भूल, मुद्रण-दोष
Tyranny	अत्याचार

---

# U

<b>Ulterior</b>	पश्चात्वर्ती, दूरस्थ, छिपा हुआ, अदृश्य
<b>Ultimate</b>	अन्त का, अन्तिम
<b>Ultimately</b>	अन्ततः, अन्त में
<b>Ultimatum</b>	अन्तिम चेतावनी, अन्तिम प्रस्ताव
<b>Ultimo</b>	गत मास, गत
<b>Ultra</b>	अत्यधिक
— <i>vires</i>	शक्ति से परे, शक्ति वाला, अधिकार के बाहर
<b>Umpire</b>	मध्यस्थ, पच
<b>Unable</b>	अयोग्य, असमर्थ
<b>Unanimous</b>	एकमत, सर्वसम्मत
<b>Unauthorised</b>	अनधिकृत, अप्राधिकृत
<b>Unavoidable</b>	अनिवार्य, अपरिहार्य
<b>Unbiased</b>	निष्पक्ष
<b>Uncertain</b>	अनिश्चित
<b>Uncertainty</b>	अनिश्चितता
<b>Unchanged</b>	अपरिवर्तित
<b>Unchastity</b>	असतीत्व
<b>Unclaimed</b>	उत्तराधिकारहीन
<b>Unclassified</b>	अवर्गीकृत, अश्रेणीवद्ध

Unconditional	प्रतिवन्ध रहित
Unconscious	अचेतन
Uncovered	खुला, अनावृत
Uncultivable	कृषि अयोग्य
Undated	अदिनांकित, दिनांक रहित
Under	नीचे, अपूर्ण, अवर, आधीन, कम
— colour of office	पद सामर्थ्य के अन्तर्गत, पदाभास से
— consideration	विचाराधीन, विमर्शाधीन
— discussion	चर्चाधीन
— disposal	निर्वर्तनाधीन
— his hand	अपने हस्ताक्षर सहित, अपने हस्ताक्षर से
— intimation	सूचना देते हुए
— issue	निकाला जा रहा है
— its jurisdiction	अपने क्षेत्राधिकार में
— liquidation	विघटन के आधीन
— lock and key	ताले में
— orders	आदेशाधीन
— postal certificate	डाक-प्रमाणपत्र के साथ
— reference	निर्देशित
— rule	नियमाधीन, नियम के आधीन
— Secretary	अवर-सचिव

— section	धारा के अधीन
— the auspices of	के तत्त्वावधान में
— the direction of	के निर्देशानुसार
— the orders of	“ के आदेश से
— the signature of	के हस्ताक्षर से
— training	प्रशिक्षणाधीन
Under-estimate	कम मूल्य देना, कम आंकना, अधोनुमान
Undeveloped	अपूर्ण विकसित, अल्प-विकसित
Undergo	भोगना, उठाना, सहन करना
— a sentence	दण्ड भोगना
Under-graduate	स्नातकपूर्व, उपस्नातक
Under-ground	भूमि के नीचे, भूमिगत
Underlying	के नीचे
Undermentioned	निम्नलिखित
Undermine	जड़ काटना, दुर्बल बनाना
Undersigned	अधोहस्ताक्षरी
Understand	समझना
Understanding	समझ, समझौता
Undertake	जिम्मा लेना, लेना, हाथ में लेना
Undertaking	कार्य, व्यवसाय, उद्योग, उपक्रम, वचन
Underwrite	बीमा करना, हस्ताक्षर करना
Undesirable	अनिच्छित, निरर्थक, अवांछनीय
Undivided	अविभक्त

<b>Undo</b>	शून्य करना, नष्ट करना
<b>Undoubtedly</b>	निस्सन्देह
<b>Undue</b>	अनुचित, अनावश्यक
<b>— delay</b>	अनावश्यक विलम्ब
<b>— influence</b>	अनुचित प्रभाव
<b>— pressure</b>	अनुचित भार डालना
<b>Unemployment</b>	बेरोजगारी, बेकारी
<b>Unexpectedly</b>	अचानक
<b>Unfair</b>	अन्याय, अनुचित
<b>Unfavourable</b>	प्रतिकूल, अननुकूल
<b>Unfit</b>	अनुपयुक्त, अयोग्य
<b>Unforeseen</b>	अनपेक्षित, अप्रत्याशित
<b>Unfortunate</b>	दुर्भाग्य
<b>Unfur</b>	फहराना
<b>Unicameral</b>	एकधंग, एकल सदनीय
<b>Unification</b>	एकीकरण
<b>Unified</b>	एकीकृत
<b>Uniform</b>	वर्दी, एकसा, समान, एक रूप
<b>Uniformity</b>	समानता, एक रूपता
<b>Unilateral</b>	एक पक्षीय
<b>Uninhabited</b>	न बसा हुआ, अनिवासित
<b>Unintentionally</b>	बिना जाने वूझे

Uninterrupted	अखण्डित
Union	सघ, मेल, संयोग
Unit	ईकाई, एकक, मात्रा
Unitary	एकात्मक, एकीय
Unite	एक करना, मिलाना
United	संयुक्त
Unity	एकता
Universal	विश्वव्यापी, व्यापक, सर्वव्यापी
University	विश्वविद्यालय
Unjust	अन्याय, अन्याय पूर्ण
Unknown	अज्ञात, अनजान, अपरिचित
Unlawful	अवैध, विधि-विरुद्ध, अवैधानिक
Unless	जब तक न, जब तक कि.....न
— and until	जब तक कि और यदि
— otherwise provided	जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो
— the context	
otherwise requires	जब तक प्रसंगत दूसरा अर्थ अपेक्षित न हो
— the contrary is stated	जब तक विरुद्ध वात न कही गई हो
— there is anything repugnant in the subject or context	जब तक विषय अथवा प्रसंग मे कोई वात विरुद्ध न हो

Unlike	असमान, के विपरीत
Unlimited	असीमित, असीम
Unload	उतारना, भार से मुक्त करना
Unlock	ताला खोलना
Unnatural	अप्राकृतिक, अस्वाभाविक
— death	अस्वाभाविक मृत्यु
— offence	अप्राकृतिक अपराध
Unnecessarily	अनावश्यकतया
Unnecessary	अनावश्यक
Unoccupied	अनधिवासित
Unofficial	अशासकीय, गैरभरकारी
— note	अशासकीय ज्ञाप्ति
Unopposed	निर्विरोध, अविरोधित
Unpaid	अदत्त, अप्राप्त
Unplanned	अनायोजित
Unproductive	अनुत्पादक
Unqualified	अयोग्य, अनहिंत
Unquoted	अनुद्धृत
Unreasonable	अयुक्तियुक्त, अनुचित
Unrebutted	अखण्डित

Unregistered	अरजिस्ट्रीड, अपंजीयित
Unregulated	अविनियमित
Unrest	अशान्ति
Unrestricted	निर्बाध
Unrevoked	अखालित
Unsafe	असुरक्षित
Unsigned	अहस्ताक्षरित
Unskilled	अकुशल, अवक्ष
Unsound	विघ्न, अधृत, दोषपूर्ण
Unspecialized	अविशेषित
Unspecified	अनिर्दिष्ट
Unstamped	सुदारहित
Unstable	अस्थायी
Unsuitable	अनुपयुक्त
Untenable	अरचणीय
Until	जब तक
— further orders	जब तक और आदेश न हों
Untouchability	अस्पृश्यता
Untouchable	अस्पृश्य
Untrained	अप्रशिक्षित
Unusual	असामान्य, असाधारण
Unveil	अनावरित करना, उद्घाटित करना

Unvoluntary	अनैच्छिक
Unwieldy	भारी
Unwilling	अनिच्छु
Unwritten	अलिखित
Upgrading	क्रमोन्नति करना
Upheaval	उथल पुथल, उत्थान, विप्लव
Uphold	पुष्टि करना, समर्थन करना
Uplift	उद्धार करना, उत्थान, ऊपर उठाना
Upon	ऊपर
Upper	उच्चतर, उपरि
Upright	सीधा
Uproot	उन्मूलन, जड़ से नष्ट करना
Upset	उलटना, व्याकुल
Up-to-date	आज तक, आधुनिकतम, आदिनांक
Urban	नगर, नगरीय, नगर-सम्बन्धी
Urgency	अत्यावश्यकीय अत्यावश्यकता, जरूरत
Urgent	शीघ्र, जरूरी, अत्यावश्यक
Usage	परिपाठी, प्रथा, आचार, रीति, रुद्धि, रीति-रिवाज
Use	उपयोग, प्रयोग
Useful	उपयोगी
Usefulness	उपयोगिता
Useless	अनुपयोगी, निकम्मा

User	उपभोक्ता, उपयोगकर्ता
Usual	प्राय, सामान्य
Usually	प्रायः, बहुधा, सामान्यत
Usufructuary	फलोपभोगी
Usurp	हडपना
Usury	सूदखोरी
Utilisation	उपयोगीकरण
Utilise	उपयोग में लाना, प्रयोग में लाना
Utility	उपयोगिता, उपयुक्तता
Utmost	अधिकतम्, अत्यन्त
— care	अत्यन्त सावधानी
— importance	अत्यन्त महत्व
Utopia	रामराज्य, स्वप्न लोक
Utter	चलाना नितान्त, मम्पूर्ण, चरम
Utterly	पूर्णत, मम्पूर्णत.

— — — — —

# V

Vacancy	रिक्तस्थान, रिक्तता, रिक्ति
Vacant	रिक्त, शून्य
Vacate	खाली करना, छोड़ना
Vacation	अवकाश, रिक्त करण, छुट्टी
Vaccination	टीका लगाना, टीका
Vagabond	घुमक्कड़, आवारा
Vagrancy	आहिडन, आवारागर्दी
Vague	अस्पष्ट, अनिश्चित
Vain	बुथा, व्यर्थ
Valid	वैध, मान्य, औचित्यपूर्ण
Validation	न्याय संगति, औचित्य, मान्यकरण
Validity	मान्यता, औचित्य
Valient	शूर, बहादुर
Valuable	मूल्यवान
Valuation	मूल्य निरूपण, मूल्यांकन
Value	मूल्य
Van	गाड़ी, यान, वाहन
Vanish	लापता होना, अदृश्य होना
Variable	परिवर्तनीय, परिवर्तनशील

Variation	परिवर्तन, अन्तर, भिन्नता
Variety	वैचित्र्य, विभिन्नता, प्रकार
Various	विविध,
Vary	बदलना, परिवर्तन करना
Vegetable	शाक, साग
Vegetarian	शाकाहारी, निरामिप
Vehicle	सवारी, गाड़ी, वाहन
Veiled	ढका हुआ
Velocity	वेग, गति, चाल
Vend	वेचना
Vendee	क्रेता
Vendor	विक्रेता
Venereal	योन
Vengeance	प्रतिहंसा, बदला
Ventilator	रोशनदान, प्रवातन
Venture	वाजी लगाना, उपक्रम, साहस
Veracity	सत्यवादित, सत्यशीलता
Verbal	मौखिक, शाब्दिक
Verdict	अन्तिम निर्णय, अधिमत
Verification	सिद्ध करना, सत्यापन, पड़ताल
Verified	सिद्ध किया, सत्यापित
Verify	प्रमाणित करना, सत्यापित करना

Vernacular	जनभाषा, देशभाषा
Version	भाषान्तर
Versus	बनाम, विरुद्ध
Vessel	वर्तन, जलयान
Vest	पंजी लगाना, निहित होना, अधिष्ठित करना
Vesting order	निहित करने के लिये आदेश
Veterinary	पशु-चिकित्सा
Veto	निषेधाधिकार
Vexatious	तग करने वाला
Via	द्वारा, होकर
Vice	उप-, पाप, दोष
Versa	उलटा, विलोमत.
Vicinage	पड़ौस
Vicinity	समीपता, सन्निकर्प, पड़ौस
Vicious	दूषित
Victim	शिकार
Victory	विजय
Vide	देखिए, अवलोकन कीजिए
View	दृश्य, राय, दृष्टि
— , in	दृष्टिगोचर
— , point of	दृष्टिकोण, विचारधारा
Vigilance	सतर्कता, जागरूकता
Vigour	ओज़, तेज

Village	ग्राम, गांव, देहात
Violate	उल्लंघन करना, अतिक्रमण करना
Violation	उल्लंघन, खग, अतिक्रमण
Violence	हिंसा, बल प्रयोग
Virgin	कुमारी
Virtue	शुण, अधिकार, आधार
— of, by	के सामर्थ्य से
Visa	अनुवेशपत्र, वृष्टांक, वीसा
Vis-a-vis	आमने-सामने, तुलना में
Visible	दृश्य, प्रत्यक्ष, दृष्टिगोचर
Vision	दृष्टि, दृष्टान्त
Visit	भेट करना, दर्शन देना, निरीक्षण करना
Visitor	दर्शक, दर्शनार्थी
Vitiate	दूषित करना, चिंगाड़ना
Viva voce	मौखिक रूप से, मौखिकी
Vivid	स्पष्ट
Viz.	अर्थात्, नामश
Vocabulary	शब्दकोष, शब्दसंग्रह
Vocation	व्यवसाय
Vogue	व्यवहार
— , in	प्रचलित
Voice	कण्ठ, ध्वनि, वाणी
Void	शून्य, निरर्थक, व्यर्थ अवैध

Voidable	शून्यकरणीय
Volume	जिल्ड, खंड, आयतन, परिमाण
Volunteer	स्वयंसेवक
Vocabulary	स्वेच्छानुसार, स्वैच्छिक
Voluminous	विशालकाय, भारी
Vote	मत, मतदान वोट
—, casting	मत देना, निर्णायक मत
Voted	मतदेय
Voter	मतदाता
Voucher	अभिश्रव, प्रमाणक
Vow	ब्रत, शपथयुक्त प्रतिज्ञा
Voyage	समुद्र यात्रा
Vulgar	अशिष्ट, असम्म्य, अश्लील

# W

Wage	मजूरी, मजदूरी, पारिश्रमिक
Wager	वाजी
Wagon	डच्चा
Wait	प्रतीक्षा करना
Waiting room	प्रतीक्षाशाला, प्रतीक्षा-गृह
Waive	त्याग करना, छोड़ना, अधित्यजन करना
Walkout	सभा-परित्याग, उठकर बाहर चला जाना
Want	अभाव, चाहना
War	युद्ध
Ward	उपविभाग, कक्ष, प्रतिपालक, अभिरक्षा
Wards, Court of	सरक्षक विभाग, प्रतिपालक अधिकरण
Warden	प्रतिपालक
Warder	कक्षापाल, प्रहरी
Warehouse	माल-गोदाम
Warning	चेतावनी
Warrant	अधिपत्र, वारन्ट
Warranted	आवश्यक, अधिवेदिष्ट
Warranty	सामर्यपत्र, परिपण, समाश्वासन
Warrior	योद्धा

Wastage	दूषफूट, क्षय, नाश, हानि
Waste	बंजर, अपव्यय करना, क्षय, कूड़ा कर्कट
Watch	पहरा देना, ध्यान से देखना, घड़ी
—and ward	पहरा तथा रखवाली
Water	जल, पानी
Wave	तरग, लहर
Way	उपाय, मार्ग
Ways and means	उपाय और साधन, मार्गोपाय
Weak	निर्बल, कमज़ोर
Wealth	धन, सम्पत्ति
Weapon	हथियार, शस्त्र, आयुध
Wear	पहनना, धारण करना, घिसना
—and tear	दूट फूट, छीज
Weather	मौसम, ऋतु
Weaving	बुनाई
Wed	विवाह करना
Wedding	विवाहोत्सव
Week	सप्ताह
Weigh	तोलना
Weight	तौल, वांट
Welcome	अभिनन्दन, स्वागत
Welding	झलना
Welfare	कुशल, कल्याण, भलाई

Well	भलीभांति, कुंआ, अच्छा
Well-known	प्रसिद्ध, सुजात
Well-to-do	सुसम्पन्न, समृद्ध, सुखी
Well-wisher	शुभेच्छु, हितैषी
West	पश्चिमी
Western	पाश्चात्य, पश्चिम
Wet	गीला
Whatever	जो कुछ
Whatsoever	जो भी
Wheat	गेहूँ
When	कब, जब
Whenever	जब कभी
Whencesoever	जब जब
Where	कहां
Whereabouts	पता, ठौर-ठिकाना
Whereas	जब कि, कारण कि
Whereby	जिससे
Whereever	जहां कहीं
Whereof	जिसका
Wheresoever	जहां कहीं भी
Whereupon	जिस पर, तिसपर, तदनन्तर

Whether	किवा
Which	कौन, किसका
Whichever is earlier	जो भी इससे पहले हो
While	जब
Whim	सनक, तरंग
Whimsical	सनकी, तरंगी
Whip	प्रचेतक, कोड़े लगाना
Whirlwind	बवण्डर
Whisper	कानाकूसी करना
Whoever	जो कोई भी
Whole	पूर्ण सम्पूर्ण
— time	पूर्णकालिक
Wholesale	थोक
Wholly	पूर्णतः, पूर्ण रूपेण, सर्वथा
Whooping cough	कुक्कुर खांसी
Wicked	दुष्ट, दुर्जन
Wide	चौड़ा, विस्तीर्ण, विस्तृत
Widow	विधवा
Widower	विधुर
Wild	जंगली

Wilful	इच्छापूर्वक, स्वेच्छापूर्वक, जानवूभकर
Will	इच्छा, चाहना, इच्छापत्र, वसीयत
Willing	इच्छुक,, राजी
Willingness	रजावन्दी
Will-power	इच्छाशक्ति
Win	जीतना
Wind up	समापन
Wipe off	पोंछ, डालना
Wire	तार देना
Wireless	वेतार
Wisdom	बुद्धिमानी
Wish	अभिलापा, इच्छा, कामना
With	सहित, साथ
— a view to	की दृष्टि से
— compliments	शुभ कामनाओं सहित, भेट सहित
— costs	परिव्यय सहित
— due regard	यथोचित ध्यान से
— effect from	से, से प्रभावी, से प्रभाव में
— permission	अनुज्ञा सहित, अनुमति से
— reference to	के सम्बन्ध में, के सन्दर्भ में, का अवलोकन करे
— regard to	के सम्बन्ध में, के बारे में

— reply to	के उत्तर में
— retrospective effect	पूर्वापेक्षी प्रभाव सहित, अतीत प्रभावी
— the approval of	के अनुमोदन से
— the concurrence of	की सहमति से
— the remarks that	अभ्युक्ति सहित कि
— the result that	के फलस्वरूप
Withdraw	निकालना, लौटाना, हटना, वापिस लेना
Withdrawal	वापसी, वापस लिया जाना, छोड़ना
Withhold	रोकना, रोक लेना, न देना
Within	अन्दर, के भीतर, में
— a radius of	के क्षेत्र में, के घेरे में
— a reasonable time	यथोचित समय के भीतर
Without	बाहर, रहित, बिना
— assigning any reason	कोई कारण दिये बिना
— delay	अविलम्ब, बिना देरी के
— detriment to	को हानि पहुँचाये बिना
— fail	बिना चूके

— interruption	विना बाधा के
— permission	अनुज्ञा के विना
— prejudice	प्रतिकूल प्रभाव के विना, विना पक्षपात के, पक्षपात रहित, प्रतिकूल प्रभाव डाले विना
— the sanction of	
Government	सरकार की स्वीकृति के विना
— title	हक्क-रहित
Witness	साक्षी, गवाह, साक्ष्य
Work	काम, कार्य करना, कृति
Work out	निकालना
Work-charged	प्रभारित कार्य
Workmen's compensation	कर्मकार-प्रतिकर
Works	निर्माण, कर्मान्त
Workshop	निर्माणशाला, कर्मशाला, वर्कशॉप
Worn-out	विसा हुआ
Worry	चिन्ता
Worship	उपासना, पूजा
Worth	मूल्य
Worthwhile	उपयुक्त, उचित, लाभदायक

Worthy	योग्य
Wound	घाव, ठेस पहुँचाना, जखमी करना
— the feelings	भावनाओं को ठेस पहुँचाना
— up	समापित, समापन करना
Wrapper	लिफाफा, ओढ़नी
Writ	आदेश लेख, आदिष्ट, प्रशिष्टि
— of Certiorari	उत्प्रेषण-लेख
— of Habeas Corpus	बन्दी-प्रत्यक्षीकरण-लेख
— of mandamus	परमादेश-लेख
— of prohibition	प्रतिषेध-लेख प्रतिषेध-प्रशिष्टि
— of quo warranto	अधिकार पृच्छा-लेख
— of restitution	प्रत्यास्थापन लेख
Written	लिखित, लिखा हुआ
— off	वट्टे खाते डाला हुआ
— statement	लिखित वक्तव्य
Wrong	हानि पहुँचाना, बिगाड़ना, दोषपूर्ण, अशुद्ध
Wrongdoer	अपकारी, दोषी
Wrongful	अपकारपूर्ण, दोषपूर्ण, कलुषित, सदोष
— possession	दोषपूर्ण धारण
— restraint	दोषपूर्ण प्रतिरोध
Wrongfully	कलुषित रूप से, दोषपूर्णतया

# X

X-Ray

क्षरशिम, पारदर्शी किरण, एक्सरे

---

# Y

Yard

गज, आंगन, प्रांगण, चेत्र

Yarn

सूत

Year

वर्ष

— book

अब्द-कोप, वर्ष पुस्तक

—, Fiscal

राजस्व वर्ष

—, Financial

वित्तीय वर्ष

— to year

वर्षानुवर्ष

Yearly

वार्षिक

Yield

मुक्त जाना, प्राप्ति, उपज, उत्पत्ति, पैदावार,  
प्रदान, वशीभूत होना

—capacity

उत्पादन-क्षमता

Yore

प्राचीन समय में, प्राचीन काल में

Yours

भवदीय

—faithfully

भवन्निष्ठ, भवदीय, आपका हितैषी, आपका  
शुभेच्छु, आपका विश्वासभाजन

—sincerely	भवदीय, स्वनेह, आपका सुहृद्, भवत् सदूचावी
—truly	भवदीय, आपका सत्यैपी
Youth	यौवन, युवा, युवक, किशोर
Youthful	युवा सम्बन्धी, किशोर
—offender	युवा अपराधी, किशोर - अपराधी

**Z**

Zamindari	जमींदारी, भूमिपतित्व
Zeal	उत्साह, जोश
Zealous	उत्साही, सरगर्म
Zenith	चरमसीमा
Zero	शून्य
—hour	आक्रमण वेला, अन्तिम घड़ी
Zinc	जस्त
Zonal	क्षेत्रीय, कटिबन्धीय
Zone	क्षेत्र, मण्डल, प्रदेश
Zoo	चिड़ियाघर, प्राणि कटिबन्ध संग्रहालय
Zoological	प्राणिकीय
Zoology	प्राणी-विज्ञान, प्राणिकी, प्राणी शास्त्र

## भूल चुक

( रेफ, मात्रा, अर्द्धविराम आदि की गलतियां प्रायः छोड़ दी गई हैं । अत. पाठकगण उन्हें स्वयं शुद्ध कर लेने का कष्ट स्वीकार करें । )

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
6	11	Authority	Authority
13	12	Abjoining	Adjoining
45	9	Beliw	Below
47	3	विनियम	विनियम
	5	lading	lading
48	11	endorsemnt	endorsement ,
55	20	Cantonmdnt	Cantonment
58	11	—haper	—paper
62	1	Chllenge	Challenge
71	7	Commernce	Commerce
	17	—,adhtoc	—,ad hoc
73	15	—Compensatin	Compensation
75	21	गीकार	अगीकार
82	8	वाधिज्य	वाणिज्य

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
90	10	यह पक्ति यहां से निकाल दी जाय	
93	2	tho	the
94	19	—Departonment	—Department
111	12	Dislosure	Disclosure
	22	पमानितअ	अपमानित
117	19	सन्देहासपद	सन्देहास्पद
119	15	rendor	render
145	5	चक्ष	चल्ल
153	11	अनुरूष	अनुरूप
161	3	भूम्यधिकार	भूम्याधिकार
	18	क्षद्र	छुद्र
163	3	—cerenomy	—ceremony
164	4	Gam	Gamble
167	10	—effeet	—effect
177	13	प्रधानध्यापिका	प्रधानाध्यापिका
	19	अनमोल	अनमेल
180	6	उच्चार	उच्चतर
194	3	camere	camera
199	6	अन्तर्वासी	अन्तर्वासी
200	13	Iniancy	Infancy

पृष्ठ	पत्रित	अशुद्ध	शुद्ध
201	10	Infirmarv	Infirmary
206	3	Instalmet	Instalment
207	21	—depar rstment	—department
208	16	Intermediatry	Intermediary
221	14	भूिअन्यक्रामण	भूमिअन्यक्रामण
222	2	—crevenue	—revenue
	19	certlificate	certificate
	17	विधिविसङ्घ	विधिविरुद्ध
226	7	अवशा	अवकाश
228	2	Lagalize	Legalize
	7	विधान-निर्माण	विधान-निर्माण
	13	विधायी प्रक्रिया	विधायी प्रक्रिया
234	3	आजीविका	आजीविका
237	6	कम	रकम
245	2	साधरणतः	साधारणत.
248	5	Member	Member
	20	Men srea	Mens rea
	10	द्या	द्यालु
253	2	misfeasance	Misfeasance
	4	misjoinder	Misjoinder
259	12	नामान्तरण	नामान्तरण

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
262	13	Naturalisation	Naturalisation
264	8	सुद्ध	शुद्ध
	14	कम नहीं	कभी नहीं
267	14	भावी	सापी
	16	निर्यस्तक्षेप	निर्हस्तक्षेप
269	9	अप्राप्य	अप्राप्य
270	19	Consideration	Consideration
276	15	आधियत्य	आधिपत्य
277	13	समर्पण	समर्पण
283	10	निष्पक्ष	निष्पक्ष
290	3	population	population
293	11	गतिहीन करना	गतिहीन करना
	16	Paravion	Par avion
299	10	मोगी	भोगी
303	5	Phenomanon	Phenomenon
308	9	सांवैधानिक	सांवैधानिक
	20	बहुपत्रत्व	बहुपत्तित्व
313	8	पूर्ववर्ती	पूर्ववर्ती
	13	आमुख	आमुख
316	12	निवारण	निवारण
318	14	Probationer	Probationer

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
322	19	Protected	Protected
327	16	निरोधा	निरोधा
328	5	प्रतिभासित, आभास	प्रतिभासित, आभास
	6	आभास, संविदा	आभास संविदा
332	19	फरना	करना
333	3	leckoner	reckoner
	10	पुर्ननियुक्ति	पुनर्नियुक्ति
336	4	पूरण	पूर्ण
339	6	रेजीमेन्ट, सेना संचयी	शासन विधि
	7	शासन विधि	रेजीमेन्ट, सेना संचयी
340	3	पुर्नस्थपन	पुनर्स्थापन
	7	Reimburse	Reimburse
342	5	अवरोप	अवशेष
343	6	नवकरण	नवीकरण
344	16	Represnt	Represent
345	12	अपर्कषण	अपर्कषण
354	18	कच्चा, लेखा	कच्चा लेखा
360	11	सियब	सिवाय
366	20	—supporting	Self-supporting
388	21	सर्वता	सर्वथा
390	9	सब-इन्सपेक्टर	सब-इन्सपेक्टर
403	20	कलाविज्ञान	कलाविज्ञान

